

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2568]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 17, 2014/अग्रहायण 26, 1936

No. 2568]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 17, 2014/AGRAHAYANA 26, 1936

रेल मंत्रालय

(रेल बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर 2014

का.आ. 3204(अ).— केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) तारीख 24 सितम्बर, 2014 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेल बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2483(अ), तारीख 23 सितम्बर, 2014 द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, हरियाणा राज्य के मेवात जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आषय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों, अर्थात् "दैनिक जागरण", तारीख 22 अक्टूबर, 2014 और "द इण्डियन एक्सप्रेस", तारीख 22 अक्टूबर, 2014 में प्रकाशित किया गया था;

और, सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आक्षेप प्राप्त नहीं किया गया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

हरियाणा राज्य में विशेष रेल परियोजना, अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के लिए जिला मेवात हरियाणा में अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

जिला का नाम : मेवात

क्रम संख्या	तालुका का नाम	ग्राम का नाम	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	स्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1)	तावडू	(1) सेवका	व्यक्तिगत	कृषि	3//1	0.0051	रसूला, कपूरा पुत्रान राय खों पुत्र राज खों हर दो समभाग 2/3 भाग, इस्लाम पुत्र मौहर खों पुत्र राज खों 1/3 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	4//2	0.0076	रसूला, कपूरा पुत्रान राय खों पुत्र राज खों हर दो समभाग 2/3 भाग, इस्लाम पुत्र मौहर खों पुत्र राज खों 1/3 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	4//3	0.0228	रसूला, कपूरा पुत्रान राय खों पुत्र राज खों हर दो समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	4//4	0.0126	रसूला, कपूरा पुत्रान राय खों पुत्र राज खों हर दो समभाग रहन हिस्सा 2/3 भाग, इस्लाम पुत्र मोहर खों पुत्र राज खों रहन हिस्सा 1/3 भाग, रसूला, कपूरा पुत्रान राय खों पुत्र राज खों हर दो समभाग 2/3 भाग, इस्लाम पुत्र मोहर खों पुत्र राज खों 1/3 भाग, मुरतहन सरदार पुत्र जगदेव वासीदेह हकदार शामलात
			व्यक्तिगत	कृषि	4//5	0.0278	रसूला, कपूरा पुत्रान राय खों पुत्र राज खों हर दो समभाग 2/3 भाग, इस्लाम पुत्र मौहर खों पुत्र राज खों 1/3 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	5//12/1	0.0025	खुवा, मदूम, सुमर मौहम्मद पुत्रान सुलेमान पुत्र अल्लाबक्श हर तीन समभाग 1/2 भाग, रनजीत, भीमलाल, राजेन्दर, हसंराज पुत्रान तेजराम पुत्र पुरना हर चार समभाग 1/5 भाग, शतीशकुमार पुत्र प्रभातीलाल पुत्र पतराम 1/20 भाग वासीदेह, देवराज, सन्तराम, रम्मन गिराज पुत्र टांडर पुत्र चन्दर हर चार समभाग 1/4 भाग वासी साडोद
			व्यक्तिगत	कृषि	5//14	0.0025	उमरशाह पुत्र जुहरशाह पुत्र छोटेशाह 1/9 भाग, शिवराम पुत्र चेताराम पुत्र भरतराम 11/72 भाग, शौरभ पुत्र चेताराम पुत्र भरतराम 5/24 भाग, मुनीराम पुत्र चेताराम पुत्र भरतराम 11/72 भाग, बलजीतसिंह पुत्र बच्चनसिंह पुत्र चेताराम 5/24 भाग, धर्मवीर पुत्र किशनलाल पुत्र हरनाम 1/6 भाग वासीदेह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(2) रानियाकी	ग्राम पंचायत	अकृषि	6//22/1/1	0.0481	ग्राम पंचायत
			ग्राम पंचायत	अकृषि	6//22/2	0.0051	ग्राम पंचायत
			ग्राम पंचायत	अकृषि	6//23	0.0025	ग्राम पंचायत
			व्यक्तिगत	कृषि	7//6	0.0101	श्रीमति देवीबाई पुत्री साधूसिंह पुत्र चुन्तुराम 1/5 भाग, कमल, शेरमौहम्मद उर्फ छज्जू पुत्रान असीला पुत्र हरिसिंह हर दो समभाग 2/5 भाग, अजीम पुत्र हरिसिंह पुत्र भोपता 2/5 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	7//7/2	0.0101	दिलवा पुत्र बदन पुत्र घोसी 1/2 भाग, कल्लू मल्लू, दिलवा, नूर मौहम्मद पुत्रान बदन पुत्र घोसी हर चार समभाग 1/2 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	7//13	0.0076	समसुदीन पुत्र नसीब खॉ पुत्र टुन्डु वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	7//14	0.0051	कल्लू मल्लू, दिलवा, नूर मौहम्मद पुत्रान बदन पुत्र घोसी हर चार समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	7//15	0.0025	बदन, नन्हेंखॉ पुत्रान घोसी पुत्र बोदन हर दो समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	7//20	0.0025	बदन, नन्हेंखॉ पुत्रान घोसी पुत्र बोदन हर दो समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	8//2	0.0126	उनस पुत्र चांदसिंह पुत्र महता 3/16 भाग, निसार अहमद, जमील अहमद पुत्रान फजरु पुत्र छंग्गा हर दो समभाग 1/6 भाग, हारुन, नसरु, अली मौहम्मद पुत्रान चाहत पुत्र महता हर तीन समभाग 7/16 भाग
			व्यक्तिगत	कृषि	8//3	0.0076	उनस पुत्र चांदसिंह पुत्र महता 3/16 भाग, निसार अहमद, जमील अहमद पुत्रान फजरु पुत्र छंग्गा हर दो समभाग 1/6 भाग, हारुन, नसरु, अली मौहम्मद पुत्रान चाहत पुत्र महता हर तीन समभाग 7/16 भाग
			व्यक्तिगत	कृषि	8//4	0.0051	इमामुदीन, अलादीन, वहीदीन पुत्रान दीन मौहम्मद पुत्र निवाज खॉ हर तीन समभाग 1/2 भाग, मौहम्मद असलूप, याकूब, अली मौहम्मद, अयूब, नूरदीन, सदीक पुत्रान सफेदी पुत्र अखेंसिंह हर छः समभाग 1/2 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	8//7	0.0076	इमामुदीन, अलादीन, वहीदीन पुत्रान दीन मौहम्मद पुत्र निवाज खॉ हर तीन समभाग 1/2 भाग, मौहम्मद असलूप, याकूब, अली मौहम्मद, अयूब, नूरदीन, सदीक पुत्रान सफेदी पुत्र अखेंसिंह हर छः समभाग 1/2 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	8//8	0.0101	उनस पुत्र चांदसिंह पुत्र महता 3/16 भाग, निसार अहमद, जमील अहमद पुत्रान

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							फजरु पुत्र छंग्गा हर दो समभाग 1/6 भाग, हारुन, नसरु, अली मौहम्मद पुत्रान चाहत पुत्र महता हर तीन समभाग 7/16 भाग
			व्यक्तिगत	कृषि	8//9	0.0126	उनस पुत्र चांदसिंह पुत्र महता 3/16 भाग, निसार अहमद, जमील अहमद पुत्रान फजरु पुत्र छंग्गा हर दो समभाग 1/6 भाग, हारुन, नसरु, अली मौहम्मद पुत्रान चाहत पुत्र महता हर तीन समभाग 7/16 भाग
			व्यक्तिगत	कृषि	8//10	0.0101	श्रीमति देवीबाई पुत्री साधूसिंह पुत्र चुन्नुराम 1/5 भाग, कमल, शेरमौहम्मद उर्फ छज्जू पुत्रान असीला पुत्र हरिसिंह हर दो समभाग 2/5 भाग, अजीम पुत्र हरिसिंह पुत्र भोपता 2/5 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	8//11/1	0.0101	शमसुददीन पुत्र खिताब खॉ पुत्र भोला बख्शा
			ग्राम पंचायत	अकृषि	R-308	0.0025	ग्राम पंचायत
			ग्राम पंचायत	अकृषि	R-44	0.0025	ग्राम पंचायत
		(3) गुरनावट	व्यक्तिगत	कृषि	8//16/1	0.0379	धूप खॉ पुत्र निवाज खॉ पुत्र मेद खॉ 3/4 भाग, रहमान पुत्र कान्दूला पुत्र निवाज खॉ रहन हिस्सा 1/4 भाग, समीम, अलील, सारूप पुत्रान नसीर पुत्र राजू हर तीन समभाग 1/4 भाग वासीदेह मुरतहनान
			व्यक्तिगत	कृषि	8//16/2	0.0051	धूप खॉ पुत्र निवाज खॉ पुत्र मेद खॉ 3/4 भाग, रहमान पुत्र कान्दूला पुत्र निवाज खॉ रहन हिस्सा 1/4 भाग, समीम, अलील, सारूप पुत्रान नसीर पुत्र राजू हर तीन समभाग 1/4 भाग वासीदेह मुरतहनान
			व्यक्तिगत	कृषि	8//17/1	0.0253	शमशुदन, शेर मौ0, साहबदीन पुत्रान राजू पुत्र मेद खॉ हर तीन समभाग 1/4 भाग, समीम, अलील, सारूप पुत्रान नसीर पुत्र राजू हर तीन समभाग 1/12 भाग, मजीद पुत्र मेद खॉ पुत्र कमलू 1/3 भाग, अब्दुल, हमीद, रशीद, साहर पुत्रान नसरु पुत्र मेद खॉ हर चार समभाग 1/3 भाग वासदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	8//17/2	0.0278	हाजर खॉ, रमजान, हारुन, करीम पुत्रान जैन खॉ पुत्र जैनदा हर चार समभाग 1/2 भाग, सुभाष खॉ पुत्र जैनदा पुत्र भोला 1/2 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	8//18/1	0.0304	हाजर खॉ, रमजान, हारुन, करीम पुत्रान जैन खॉ पुत्र जैनदा हर चार समभाग 1/2 भाग, सुभाष खॉ पुत्र जैनदा पुत्र भोला 1/2 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	8//18/2	0.0152	मौजूदा पुत्र भेरे खॉ पुत्र वजर खॉ 1/2 भाग, रहमान खा, नवल खॉ पुत्रान भेरे खॉ पुत्र नजफ खॉ हर दो समभाग 1/2 भाग वासीदेह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			व्यक्तिगत	कृषि	8//22/1	0.0202	सुबह खौ पुत्र मंगला पुत्र फूल खौ 1/2 भाग, नूमान, मन्नान, हारून, जाफर पुत्रान सुलतान पुत्र मुगला हर चार समभाग 1/2 भाग, मालकान कब्जा फते मौ0 मजकूर 1/2 भाग वासीदेह हकदार शामिलत
			व्यक्तिगत	कृषि	8//22/2	0.0051	सुबह खौ पुत्र मंगला पुत्र फूल खौ 1/2 भाग, नूमान, मन्नान, हारून, जाफर पुत्रान सुलतान पुत्र मुगला हर चार समभाग 1/2 भाग, मालकान कब्जा फते मौ0 मजकूर 1/2 भाग वासीदेह हकदार शामिलत
			व्यक्तिगत	कृषि	8//23	0.0379	मौजूदा पुत्र भेरे खौ पुत्र वजर खौ 1/2 भाग, रहमान खा, नवल खौ पुत्रान भेरे खौ पुत्र नजफ खौ हर दो समभाग 1/2 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	8//24/2	0.0177	धूप खौ पुत्र निवाज खौ पुत्र मेद खौ 3/4 भाग, रहमान पुत्र कान्दूला पुत्र निवाज खौ रहन हिस्सा 1/4 भाग, समीम, अलील, सारूप पुत्रान नसीर पुत्र राजू हर तीन समभाग 1/4 भाग वासीदेह मुरतहनान
			व्यक्तिगत	कृषि	8//25/1	0.0025	धूप खौ पुत्र निवाज खौ पुत्र मेद खौ 3/4 भाग, रहमान पुत्र कान्दूला पुत्र निवाज खौ रहन हिस्सा 1/4 भाग, समीम, अलील, सारूप पुत्रान नसीर पुत्र राजू हर तीन समभाग 1/4 भाग वासीदेह मुरतहनान
			व्यक्तिगत	कृषि	8//25/2	0.0354	धूप खौ पुत्र निवाज खौ पुत्र मेद खौ 3/4 भाग, रहमान पुत्र कान्दूला पुत्र निवाज खौ रहन हिस्सा 1/4 भाग, समीम, अलील, सारूप पुत्रान नसीर पुत्र राजू हर तीन समभाग 1/4 भाग वासीदेह मुरतहनान
			ग्राम पंचायत	अकृषि	9//6/2	0.0405	ग्राम पचायत
			व्यक्तिगत	कृषि	9//7/2	0.0025	नजीर पुत्र दल खौ पुत्र वीर भान वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	9//11/2	0.0253	दीन मौ0, मंगल पुत्रान छज्जू पुत्र ईमाम खौ हर दो समभाग रहन हिस्सा 1/2 भाग, रुकमुदीन पुत्र रुस्तम पुत्र सलेम 1/4 भाग मुरतहन, रमजान पुत्र रिछपाल पुत्र दलमेर 1/2 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	9//12	0.0430	रहमत पुत्र छोटू पुत्र निक्कू 1/2 भाग, रहमान, फजरू, सुभानदीन पुत्रान घुटी पुत्र निक्कू हर तीन समभाग 1/2 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	9//13	0.0481	नजीर पुत्र दल खौ पुत्र वीर भान वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	9//14	0.0607	नजीर पुत्र दल खौ पुत्र वीर भान वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	9//15/2	0.0177	शमशुदन, शेर मौ0, साहबदीन पुत्रान राजू पुत्र मेद खौ हर तीन समभाग 1/4 भाग, शमीम, अलील, सारूप पुत्रान नसीर पुत्र राजू हर तीन समभाग 1/12 भाग, मजीद पुत्र मेद खौ पुत्र कमलू 1/3 भाग, अब्दुल, हमीद, रशीद, साहर पुत्रान नसरू पुत्र मेद खौ हर चार समभाग 1/3 भाग वासदेह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			व्यक्तिगत	कृषि	9//17	0.0126	नजीर पुत्र दल खॉ पुत्र वीर भान वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	9//18	0.0531	हमीदा पुत्र लहरू पुत्र उदयभान 1/9 भाग, रुस्तम पुत्र सलेथी पुत्र उदयभान 1/3 भाग, सगीर, जुम्मा पुत्रान यासीन खॉ पुत्र उदयभान हर दो समभाग 1/3 भाग, इब्राहीम पुत्र हमीदा पुत्र लहरू 1/9 भाग, सरफुदीन पुत्र नजीर पुत्र दलखॉ 1/9 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	9//19	0.0405	हमीदा पुत्र लहरू पुत्र उदयभान 1/9 भाग, रुस्तम पुत्र सलेथी पुत्र उदयभान 1/3 भाग, सगीर, जुम्मा पुत्रान यासीन खॉ पुत्र उदयभान हर दो समभाग 1/3 भाग, इब्राहीम पुत्र हमीदा पुत्र लहरू 1/9 भाग, सरफुदीन पुत्र नजीर पुत्र दलखॉ 1/9 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	9//20/1	0.0076	दीन मौ0, मंगल पुत्रान छज्जू पुत्र ईमाम खॉ हर दो समभाग रहन हिस्सा 1/2 भाग, रुकमुदीन पुत्र रुस्तम पुत्र सलेम 1/4 भाग मुरतहन, रमजान पुत्र रिछपाल पुत्र दलमेर 1/2 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	9//20/2	0.0253	धूप खॉ पुत्र निवाज खॉ पुत्र मेद खॉ 3/4 भाग रहमान पुत्र कान्दूला पुत्र निवाज खॉ 1/4 भाग
			व्यक्तिगत	कृषि	9//20/3	0.0101	हमीदा पुत्र लहरू पुत्र उदयभान 1/9 भाग, रुस्तम पुत्र सलेथी पुत्र उदयभान 1/3 भाग, सगीर, जुम्मा पुत्रान यासीन खॉ पुत्र उदयभान हर दो समभाग 1/3 भाग, इब्राहीम पुत्र हमीदा पुत्र लहरू 1/9 भाग, सरफुदीन पुत्र नजीर पुत्र दलखॉ 1/9 भाग वासीदेह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	10//2/1	0.0126	ग्राम पंचायत
			व्यक्तिगत	कृषि	10//2/2	0.0101	दीन मौ0, मंगल पुत्रान छज्जू पुत्र ईमाम खॉ हर दो समभाग 1/2 भाग, रमजान, याकूब पुत्रान रिछपाल पुत्र दलमेर 1/2 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	10//3/1	0.0126	दीन मौ0, मंगल पुत्रान छज्जू पुत्र ईमाम खॉ हर दो समभाग 1/2 भाग, रमजान, याकूब पुत्रान रिछपाल पुत्र दलमेर 1/2 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	10//3/2	0.0784	रहमत, सुबह खॉ पुत्रान मंगल पुत्र फूल खॉ हर दो समभाग मालकान कब्जा इब्राहीम मजकूर वासीदेह हकदार शामलात
			व्यक्तिगत	कृषि	10//4/2	0.0051	जुहर खॉ, मुहर खॉ पुत्रान मिसरी पुत्र मादला हर दो समभाग
			व्यक्तिगत	कृषि	10//5/2	0.0025	उमर मौ0 पुत्र सुलेमान पुत्र मल्हु 1/2 भाग मुरतहन, मोहर खॉ पुत्र मिसरी पुत्र मामलान रहन हिस्सा 1/2 भाग, जुहर खॉ पुत्र मिसरी पुत्र मामलान रहन हिस्सा 1/2 भाग वासीदेह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			व्यक्तिगत	कृषि	10//5/3	0.0304	साहब खॉ, श्याबु, फारुख, बसरुदीन पुत्रान भुल्लु हर चार समभाग 1/2 भाग, रहमान पुत्र उमराव पुत्र भुल्लु 1/2 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	10//6	0.0152	साहब खॉ, श्याबु, फारुख, बसरुदीन पुत्रान भुल्लु हर चार समभाग 1/2 भाग, रहमान पुत्र उमराव पुत्र भुल्लु 1/2 भाग वासीदेह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	10//7/4	0.0278	ग्राम पंचायत
			ग्राम पंचायत	अकृषि	10//8	0.0304	ग्राम पंचायत
			ग्राम पंचायत	अकृषि	10//10	0.0329	ग्राम पंचायत
			व्यक्तिगत	कृषि	10//11	0.0379	शमशुदन, शेर मौ0, साहबदीन पुत्रान राजू पुत्र मेद खॉ हर तीन समभाग 1/4 भाग, शमीम, अलील, सारूप पुत्रान नसीर पुत्र राजू हर तीन समभाग 1/12 भाग, मजीद पुत्र मेद खॉ पुत्र कमलू 1/3 भाग, अब्दुल, हमीद, रशीद, साहर पुत्रान नसरु पुत्र मेद खॉ हर चार समभाग 1/3 भाग वासदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	10//12/1	0.0101	शमशुदन, शेर मौ0, साहबदीन पुत्रान राजू पुत्र मेद खॉ हर तीन समभाग 1/4 भाग, शमीम, अलील, सारूप पुत्रान नसीर पुत्र राजू हर तीन समभाग 1/12 भाग, मजीद पुत्र मेद खॉ पुत्र कमलू 1/3 भाग, अब्दुल, हमीद, रशीद, साहर पुत्रान नसरु पुत्र मेद खॉ हर चार समभाग 1/3 भाग वासदेह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	10//12/2	0.0253	ग्राम पंचायत
			ग्राम पंचायत	अकृषि	10//13	0.0025	ग्राम पंचायत
			ग्राम पंचायत	अकृषि	11//1	0.0632	ग्राम पंचायत
			व्यक्तिगत	कृषि	11//9	0.1037	इब्राहीम पुत्र देवसिंह पुत्र शिवदत्त 1/27 भाग, इस्लाम, इस्राईल, कमालु, रहमु, रशीद पुत्रान दानसिंह पुत्र शिवदत्त हर पाचै समभाग 17/27 भाग, शेर मौ0, राज मौ0 पुत्रान मनफूल पुत्र शिवदत्त हर दो समभाग 1/3 भाग वासीदेह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	11//10/2	0.0253	ग्राम पंचायत
			व्यक्तिगत	कृषि	17//1/2	0.0025	रहमत, सुबह खॉ पुत्रान मंगल पुत्र फूल खॉ हर दो समभाग 2/3 भाग, नूमान, मन्नान, हारुन, जाफर पुत्रान सुलतान पुत्र मंगला हर चार समभाग 1/3 भाग, मालकान कब्जा फते मौ0 मजकूर 1/3 भाग वासीदेह हकदार शामलात
			व्यक्तिगत	कृषि	17//2/1	0.0177	रहमत, सुबह खॉ पुत्रान मंगल पुत्र फूल खॉ हर दो समभाग 2/3 भाग, नूमान, मन्नान, हारुन, जाफर पुत्रान सुलतान पुत्र

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							मंगला हर चार समभाग 1/3 भाग, मालकान कब्जा फते मौ0 मजकूर 1/3 भाग वासीदेह हकदार शामलात
			ग्राम पंचायत	अकृषि	R-36	0.0126	ग्राम पंचायत
			ग्राम पंचायत	अकृषि	R-39	0.0202	ग्राम पंचायत
			ग्राम पंचायत	अकृषि	R-41	0.0734	ग्राम पंचायत
		(4) डिढारा	व्यक्तिगत	कृषि	24//17/1	0.0076	रमेश कुमार पुत्र रोहताश पुत्र ताराचन्द वासी अलावलपुर
			व्यक्तिगत	कृषि	24//18/1	0.0506	नत्थूराम पुत्र सुरतसिंह पुत्र शिवलाल वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	24//18/2	0.0051	आस मौ0, आसीन खों, समसुदीन, आमीन खों पुत्रान जहाज खों पुत्र चाहत हर चार समभाग 1/5 भाग, हज्जी, नबी, दिन मौ0 पुत्रान चाहत पुत्र भानू हर तीन समभाग 3/5 भाग, गफूर, हक्कू पुत्रान मेहजर उर्फ गोंगा हर दो समभाग 1/5 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	24//19/1	0.0329	आस मौ0, आसीन खों, समसुदीन, आमीन खों पुत्रान जहाज खों पुत्र चाहत हर चार समभाग 1/5 भाग, हज्जी, नबी, दिन मौ0 पुत्रान चाहत पुत्र भानू हर तीन समभाग 3/5 भाग, गफूर, हक्कू पुत्रान मेहजर उर्फ गोंगा हर दो समभाग 1/5 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	24//19/2	0.0076	आस मौ0, आसीन खों, समसुदीन, आमीन खों पुत्रान जहाज खों पुत्र चाहत हर चार समभाग 1/5 भाग, हज्जी, नबी, दिन मौ0 पुत्रान चाहत पुत्र भानू हर तीन समभाग 3/5 भाग, गफूर, हक्कू पुत्रान मेहजर उर्फ गोंगा हर दो समभाग 1/5 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	24//20	0.0430	आस मौ0, आसीन खों, समसुदीन, आमीन खों पुत्रान जहाज खों पुत्र चाहत हर चार समभाग 1/5 भाग, हज्जी, नबी, दिन मौ0 पुत्रान चाहत पुत्र भानू हर तीन समभाग 3/5 भाग, गफूर, हक्कू पुत्रान मेहजर उर्फ गोंगा हर दो समभाग 1/5 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	25//16	0.0379	श्रीमति शान्ति पुत्री व दाखली विधवा फतन हर दो समभाग
			व्यक्तिगत	कृषि	25//17/1	0.0329	श्रीमति शान्ति पुत्री व दाखली विधवा फतन हर दो समभाग
			व्यक्तिगत	कृषि	25//17/2	0.0051	आस मौ0, आसीन खों, समसुदीन, आमीन खों पुत्रान जहाज खों पुत्र चाहत हर चार समभाग 1/5 भाग, हज्जी, नबी, दिन मौ0 पुत्रान चाहत पुत्र भानू हर तीन समभाग 3/5 भाग, गफूर, हक्कू पुत्रान मेहजर उर्फ गोंगा हर दो समभाग 1/5 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	25//18/1	0.0152	आस मौ0, आसीन खों, समसुदीन, आमीन खों पुत्रान जहाज खों पुत्र चाहत हर चार

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							समभाग 1/5 भाग, हज्जी, नबी, दिन मौ0 पुत्रान चाहत पुत्र भानू हर तीन समभाग 3/5 भाग, गफूर, हक्कू पुत्रान मेहजर उर्फ गंगा हर दो समभाग 1/5 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	25//18/2/2	0.0253	आस मौ0, आसीन खॉ, समसुदीन, आमीन खॉ पुत्रान जहाज खॉ पुत्र चाहत हर चार समभाग 1/5 भाग, हज्जी, नबी, दिन मौ0 पुत्रान चाहत पुत्र भानू हर तीन समभाग 3/5 भाग, गफूर, हक्कू पुत्रान मेहजर उर्फ गंगा हर दो समभाग 1/5 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	25//19/2	0.0025	आस मौ0, आसीन खॉ, समसुदीन, आमीन खॉ पुत्रान जहाज खॉ पुत्र चाहत हर चार समभाग 1/5 भाग, हज्जी, नबी, दिन मौ0 पुत्रान चाहत पुत्र भानू हर तीन समभाग 3/5 भाग, गफूर, हक्कू पुत्रान मेहजर उर्फ गंगा हर दो समभाग 1/5 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	25//19/3	0.0329	आस मौ0, आसीन खॉ, समसुदीन, आमीन खॉ पुत्रान जहाज खॉ पुत्र चाहत हर चार समभाग 1/5 भाग, हज्जी, नबी, दिन मौ0 पुत्रान चाहत पुत्र भानू हर तीन समभाग 3/5 भाग, गफूर, हक्कू पुत्रान मेहजर उर्फ गंगा हर दो समभाग 1/5 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	25//20/1	0.0101	आस मौ0, आसीन खॉ, समसुदीन, आमीन खॉ पुत्रान जहाज खॉ पुत्र चाहत हर चार समभाग 1/5 भाग, हज्जी, नबी, दिन मौ0 पुत्रान चाहत पुत्र भानू हर तीन समभाग 3/5 भाग, गफूर, हक्कू पुत्रान मेहजर उर्फ गंगा हर दो समभाग 1/5 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	25//20/2	0.0152	रोशन, हनीफ पुत्रान वजीर पुत्र ताजू हर दो समभाग 13/24 भाग, जान मौ0, गफूर, शकूर, वहीद, फजरू पुत्रान छोटे खॉ पुत्र जोम खॉ हर पाचें समभाग 5/24 भाग, आस मौ0, आसीन खॉ, समसुदीन, आमीन खॉ पुत्रान जहाज खॉ पुत्र चाहत हर चार समभाग 1/20 भाग
			व्यक्तिगत	कृषि	26//16	0.0025	रोशन, हनीफ पुत्रान वजीर पुत्र ताजू हर दो समभाग 13/24 भाग, जान मौ0, गफूर, शकूर, वहीद, फजरू पुत्रान छोटे खॉ पुत्र जोम खॉ हर पाचें समभाग 5/24 भाग, आस मौ0, आसीन खॉ, समसुदीन, आमीन खॉ पुत्रान जहाज खॉ पुत्र चाहत हर चार समभाग 1/20 भाग
			व्यक्तिगत	कृषि	26//21	0.0304	रहीश, मजीद, समसू पुत्रान इमरत पुत्र हिम्मत हर तीन समभाग बिला रहन हिस्सा 3/8 भाग, रोबड पुत्र इमरत पुत्र हिम्मत रहन हिस्सा 1/8 भाग, छोटे खॉ पुत्र हिम्मत पुत्र दल्ला रहन हिस्सा 1/8 भाग बिला रहन हिस्सा 3/8 भाग, सुरेश कुमार पुत्र हरिराम पुत्र चन्द्र 1/4 भाग वासीदेह मुर्तहन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			व्यक्तिगत	कृषि	26//22	0.0253	श्रीमति ज्ञानदेई विधवा गुलाब सिंह पुत्र महाराम 1/2 भाग, ओमप्रकाश पुत्र भगतसिंह पुत्र नन्दलाल 1/2 भाग वासीदेह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	27//22/1	0.0126	ग्राम पंचायत
			व्यक्तिगत	कृषि	27//22/2	0.0051	फूलसिंह, जलसिंह पुत्रान जुगलाल पुत्र मेदसिंह हर दो समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	27//23/2	0.0405	फूलसिंह, जलसिंह पुत्रान जुगलाल पुत्र मेदसिंह हर दो समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	27//24	0.0405	फूलसिंह, जलसिंह पुत्रान जुगलाल पुत्र मेदसिंह हर दो समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	27//25	0.0405	छोटे खौ पुत्र हिम्मत पुत्र दल्ला 1/2 भाग, रहीम, मजीद, समसू पुत्रान इमरत पुत्र हिम्मत हर तीन समभाग बिला रहन हिस्सा 3/8 भाग, रोबड पुत्र इमरत पुत्र हिम्मत रहन हिस्सा 1/8 भाग, सुरेश कुमार पुत्र हरिराम पुत्र चन्द्र 1/8 भाग वासीदेह मुर्तहन
			व्यक्तिगत	कृषि	29//2/2	0.0202	फूलसिंह, जलसिंह पुत्रान जुगलाल पुत्र मेदसिंह हर दो समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	29//3	0.0430	फूलसिंह, जलसिंह पुत्रान जुगलाल पुत्र मेदसिंह हर दो समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	29//4	0.0405	फूलसिंह, जलसिंह पुत्रान जुगलाल पुत्र मेदसिंह हर दो समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	29//5	0.0278	छोटे खौ पुत्र हिम्मत पुत्र दल्ला 1/2 भाग, रहीम, मजीद, समसू पुत्रान इमरत पुत्र हिम्मत हर तीन समभाग बिला रहन हिस्सा 3/8 भाग, रोबड पुत्र इमरत पुत्र हिम्मत रहन हिस्सा 1/8 भाग, सुरेश कुमार पुत्र हरिराम पुत्र चन्द्र 1/8 भाग वासीदेह मुर्तहन
			व्यक्तिगत	कृषि	30//1	0.0202	रहीश, मजीद, समसू पुत्रान इमरत पुत्र हिम्मत हर तीन समभाग बिला रहन हिस्सा 3/8 भाग, रोबड पुत्र इमरत पुत्र हिम्मत रहन हिस्सा 1/8 भाग, छोटे खौ पुत्र हिम्मत पुत्र दल्ला रहन हिस्सा 1/8 भाग बिला रहन हिस्सा 3/8 भाग, सुरेश कुमार पुत्र हरिराम पुत्र चन्द्र 1/4 भाग वासीदेह मुर्तहन
			ग्राम पंचायत	अकृषि	R-41	0.0126	ग्राम पंचायत
			ग्राम पंचायत	अकृषि	R-42	0.0051	ग्राम पंचायत
		(5) भडंगपुर	व्यक्तिगत	कृषि	3//11/1	0.0228	मौहम्मद इकबाल, मौहम्मद याकूब पुत्रान इसमार्ईल पुत्र भप्पू हर दो समभाग 1/5 भाग, सुल्तान, उमराव पुत्रान भप्पू पुत्र रुडा हर दो समभाग 2/5 भाग, यासीन पुत्र भप्पू पुत्र रुडा 2/5 भाग, मालिक कब्जा श्रीमति महताब कौर मू० खे० नं० 087 2/5 भाग वासीदेह हकदार शामलात

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			व्यक्तिगत	कृषि	3//11/2	0.0253	मौहम्मद इकबाल, मौहम्मद याकूब पुत्रान इसमाईल पुत्र भप्पू हर दो समभाग 1/5 भाग, सुल्तान, उमराव पुत्रान भप्पू पुत्र रुडा हर दो समभाग 2/5 भाग, यासीन पुत्र भप्पू पुत्र रुडा 2/5 भाग, मालिक कब्जा श्रीमति महताब कौर मू0 खे0 नं0 087 2/5 भाग वासीदेह हकदार शामिल
			व्यक्तिगत	कृषि	3//12/2	0.0329	सुलेमान, सुभान खॉ, मल्लू नूर मौहम्मद पुत्रान नबीर खॉ पुत्र रुडा हर चार समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	3//19	0.0658	सुलेमान, सुभान खॉ, मल्लू नूर मौहम्मद पुत्रान नबीर खॉ पुत्र रुडा हर चार समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	3//20/2	0.0405	इब्राहीम पुत्र नन्हा पुत्र रुडा, मालिक कब्जा अयूब खॉ वगैरा मु0 खेवट नं0 2 वासीदेह हकदार शामिल
			व्यक्तिगत	कृषि	4//13	0.0025	इलयास, खुशीद, तैयब हुसैन, फखरुदीन, रहीसा पुत्रान सरदार पुत्र गुलाब हर पॉच समभाग, मालकान कब्जा अय्युब खॉ वगैरा मुन्द्रजा खेवट नं0 2 वासीदेह हकदार शामिल
			व्यक्तिगत	कृषि	4//14/3	0.0329	इलयास, खुशीद, तैयब हुसैन, फखरुदीन, रहीसा पुत्रान सरदार पुत्र गुलाब हर पॉच समभाग, मालकान कब्जा अय्युब खॉ वगैरा मुन्द्रजा खेवट नं0 2 वासीदेह हकदार शामिल
			व्यक्तिगत	कृषि	4//15/3	0.0481	इब्राहीम पुत्र नन्हा पुत्र रुडा, मालिक कब्जा श्रीमति महताब कौर वगैरा वासीदेह हकदार शामिल
			व्यक्तिगत	कृषि	4//16	0.0506	इब्राहीम पुत्र नन्हा पुत्र रुडा, मालिक कब्जा श्रीमति महातब कौर, श्रीमति चिरन्जी कौर पुत्रियां बिशन हर दो समभाग वासीदेह हकदार शामिल
			व्यक्तिगत	कृषि	4//17	0.0607	इलयास, खुशीद, तैयब हुसैन, फखरुदीन, रहीसा पुत्रान सरदार पुत्र गुलाब हर पॉच समभाग, मालकान कब्जा महताब कौर वासीदेह हकदार शामिल
			व्यक्तिगत	कृषि	4//18/1	0.0354	इलयास, खुशीद, तैयब हुसैन, फखरुदीन, रहीसा पुत्रान सरदार पुत्र गुलाब हर पॉच समभाग, मालकान कब्जा अय्युब खॉ वगैरा मुन्द्रजा खेवट नं0 2 वासीदेह हकदार शामिल
			व्यक्तिगत	कृषि	4//18/2	0.0430	इलयास, खुशीद, तैयब हुसैन, फखरुदीन, रहीसा पुत्रान सरदार पुत्र गुलाब हर पॉच समभाग, मालकान कब्जा अय्युब खॉ वगैरा मुन्द्रजा खेवट नं0 2 वासीदेह हकदार शामिल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			व्यक्तिगत	कृषि	4//19	0.0632	इलयास, खुशीद, तैयब हुसैन, फखरुद्दीन, रहीसा पुत्रान सरदार पुत्र गुलाब हर पौच समभाग, मालकान कब्जा अय्युब खॉ वगैरा मुन्द्रजा खेवट नं0 2 वासीदेह हकदार शामलात
			व्यक्तिगत	कृषि	4//20/1	0.0430	सुलेमान उर्फ सुल्ली पुत्र चॉद खॉ पुत्र नत्थू वासी बावला
			व्यक्तिगत	कृषि	4//21/1	0.0455	रघुनाथ पुत्र कुन्जीलाल पुत्र अड़ीमल
			व्यक्तिगत	कृषि	4//22	0.0101	मौहम्मद इकबाल, मौहम्मद याकूब पुत्रान इसमार्इल पुत्र भप्पू हर दो समभाग 1/5 भाग, मालकान कब्जा श्रीमति महताब कौर, चिरजी कौर, अमृत कौर पुत्रियां बिशन सिंह हर तीन समभाग वासीदेह हकदरान शामलात
			व्यक्तिगत	कृषि	4//23	0.0076	मौहम्मद इकबाल, मौहम्मद याकूब पुत्रान इसमार्इल पुत्र भप्पू हर दो समभाग, मालकान कब्जा श्रीमति महताब कौर, चिरजी कौर, अमृत कौर पुत्रियां बिशन सिंह हर तीन समभाग वासीदेह हकदरान शामलात
			व्यक्तिगत	कृषि	5//16	0.0430	रिशीलाल, सतबीर सिंह, दीपचन्द, प्योरलाल पुत्रान मनोहर लाल पुत्र रामप्रसाद हर चार समभाग वासी कादीपू गुडगांव, मालकान कब्जा अर्जनसिंह पुत्र अतर सिंह वासीदेह हकदार शामलात
			व्यक्तिगत	कृषि	5//17	0.0556	रिशीलाल, सतबीर सिंह, दीपचन्द, प्योरलाल पुत्रान मनोहर लाल पुत्र रामप्रसाद हर चार समभाग वासी कादीपू गुडगांव, मालकान कब्जा अर्जनसिंह पुत्र अतर सिंह वासीदेह हकदार शामलात
			व्यक्तिगत	कृषि	5//18	0.0101	नत्थूराम पुत्र सुरतसिंह पुत्र शिवलाल वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	5//21	0.0379	रिशीलाल, सतबीर सिंह, दीपचन्द, प्योरलाल पुत्रान मनोहर लाल पुत्र रामप्रसाद हर चार समभाग वासी कादीपू गुडगांव, मालकान कब्जा अर्जनसिंह पुत्र अतर सिंह वासीदेह हकदार शामलात
			व्यक्तिगत	कृषि	5//22/1	0.0126	नत्थूराम पुत्र सुरतसिंह पुत्र शिवलाल वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	5//22/2	0.0278	रिशीलाल, सतबीर सिंह, दीपचन्द, प्योरलाल पुत्रान मनोहर लाल पुत्र रामप्रसाद हर चार समभाग वासी कादीपू गुडगांव, मालकान कब्जा अर्जनसिंह पुत्र अतर सिंह वासीदेह हकदार शामलात
			व्यक्तिगत	कृषि	5//23	0.0430	नत्थूराम पुत्र सुरतसिंह पुत्र शिवलाल वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	5//24/1	0.0126	नत्थूराम पुत्र सुरतसिंह पुत्र शिवलाल वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	5//24/2	0.0278	रघुनाथ पुत्र कुन्जीलाल पुत्र अड़ीमल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			व्यक्तिगत	कृषि	5//25	0.0405	रिशीलाल, सतबीर सिंह, दीपचन्द, प्योरलाल पुत्रान मनोहर लाल पुत्र रामप्रसाद हर चार समभाग वासी कादीपू गुडगांव, मालकान कब्जा अर्जनसिंह पुत्र अतर सिंह वासीदेह हकदार शामिल
			व्यक्तिगत	कृषि	6//21	0.0202	गफूर खॉ, मौज खॉ, नसरु खॉ पुत्रान सुमेर खॉ हर तीन समभाग 3/4 भाग वासीदेह, अलीम मौहम्मद पुत्र हज्जी पुत्र चाहत 1/4 भाग वासीदेह नि0 डिढारा
			व्यक्तिगत	कृषि	6//22	0.0556	ईश्वरसिंह पुत्र कवरसिंह पुत्र चौंदराम निवासी चिराग दिल्ली
			व्यक्तिगत	कृषि	6//23	0.0329	ईश्वरसिंह पुत्र कवरसिंह पुत्र चौंदराम निवासी चिराग दिल्ली
			व्यक्तिगत	कृषि	6//24	0.0506	मनीश, मनजीत पुत्रान श्रीमति माया पत्नी सतपाल पुत्र महाबीर सिंह हर तीन समभाग वासी चिराग नई दिल्ली 110017, मालकान कब्जा मेहरसिंह, मानसिंह पुत्रान दौलतराम हर दो समभाग वासीदेह हकदारान शामिल
			व्यक्तिगत	कृषि	6//25/1	0.0379	अयूब खॉ, इस्लाम, रसीद पुत्रान व अतरी विधवा अतर खॉ हर चार समभाग 675/1798 भाग, दीनू पुत्र अतरी विधवा अतर खॉ रहन हिस्सा 160/1798 भाग बिला रहन हिस्सा 64/1798 भाग, समसू पुत्र इतर खॉ पुत्र हिम्मत खॉ 80/899 भाग मुर्तहन, इल्याश, खुर्शीद, तेयब हुसैन, रहीशा, फकरुदीन पुत्रान सरदार खॉ पुत्र मूला खॉ हर पाँच समभाग 1/2 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	6//25/2	0.0051	रिशीलाल, सतबीर सिंह, दीपचन्द, प्योरलाल पुत्रान मनोहर लाल पुत्र रामप्रसाद हर चार समभाग वासी कादीपू गुडगांव, मालकान कब्जा अर्जनसिंह पुत्र अतर सिंह वासीदेह हकदार शामिल
			व्यक्तिगत	कृषि	7//23	0.0202	अयूब खॉ, इस्लाम, दीनू, रसीद पुत्रान अतरी विधवा अतर खॉ हर चार समभाग, मालकान कब्जा अयूब खॉ आदि मुन्द्रेजा खेवट नं0 2 वासीदेह हकदार शामिल
			व्यक्तिगत	कृषि	7//24	0.0202	अयूब खॉ, इस्लाम, दीनू, रसीद पुत्रान अतरी विधवा अतर खॉ हर चार समभाग, मालकान कब्जा अयूब खॉ आदि मुन्द्रेजा खेवट नं0 2 वासीदेह हकदार शामिल
			व्यक्तिगत	कृषि	7//25	0.0278	अयूब खॉ, इस्लाम, दीनू, रसीद पुत्रान अतरी विधवा अतर खॉ हर चार समभाग, मालकान कब्जा अयूब खॉ आदि मुन्द्रेजा खेवट नं0 2 वासीदेह हकदार शामिल
			व्यक्तिगत	कृषि	9//1	0.0177	श्रीमती रेशम देवी पत्नी सुल्तान सिंह पुत्र शिवनाराण बिला रहन हिस्सा 35/36 भाग, साये मौहम्मद, अमजद खॉ, लुकमान

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							पुत्रान गफूर हर तीन समभाग रहन हिस्सा 1/108 भाग, सुभान खॉ पुत्र मल्हू रहन हिस्सा 1/54 भाग, अता मौहम्मद पुत्र असरूप 1/72 भाग, अब्दुल्ला पुत्र नसरु 1/72 भाग
			व्यक्तिगत	कृषि	9//2/1	0.0430	रशीद, मजीद, शमशू पुत्रान इमरत पुत्र हिम्मत हर तीन समभाग वासीदेह ढिडारा
			व्यक्तिगत	कृषि	9//3	0.0354	अय्यूब खॉ, इस्लाम, दीनू, रसीद पुत्रान अतरी विधवा अतर खॉ हर चार समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	9//4	0.0278	अय्यूब खॉ, इस्लाम, दीनू, रसीद पुत्रान अतरी विधवा अतर खॉ हर चार समभाग, मालकान कब्जा अय्यूब खॉ आदि मुन्द्रेजा खेवट नं0 2 वासीदेह हकदार शामलात
			व्यक्तिगत	कृषि	9//5	0.0051	इलयास, इस्लाम, शहीद, इसराईल, मौहब्बत उर्फ काला पुत्रान गफूर खॉ पुत्र सुमेर खॉ हर पॉच समभाग 1/4 भाग, कासम, जुहरु, फारुख, साहून, रमजान, साकिर, पुत्रान शकूर खॉ पुत्र सुमेर खॉ हर छः समभाग 1/4 भाग, मोज खॉ, नसरु खॉ पुत्रान सुमेर खॉ पुत्र लीला हर दो समभाग 1/2 भाग वासीदेह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	R-101	0.0228	ग्राम पंचायत
			ग्राम पंचायत	अकृषि	R-29	0.0101	ग्राम पंचायत
			ग्राम पंचायत	अकृषि	R-30	0.0101	ग्राम पंचायत
			ग्राम पंचायत	अकृषि	R-31	0.0202	ग्राम पंचायत
		(6) तावडू	व्यक्तिगत	कृषि	123//7/2	0.0658	फखरुदीन, बुद्धी, याकूब पुत्रान जोधा पुत्र नूर खॉ हर तीन समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	123//8/2	0.0025	फखरुदीन, बुद्धी, याकूब पुत्रान जोधा पुत्र नूर खॉ हर तीन समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	123//12	0.0607	श्रीमति सतवन्ती पत्नी प्रेमचन्द पुत्र कवरलाल 1/3 भाग, उमरदीन पुत्र कूल पुत्र मान खॉ 1/12 भाग, मै0 रोशल बायोटेक लि. 210 ओखला नई दिल्ली 7/12 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	123//13	0.0304	फखरुदीन, बुद्धी, याकूब पुत्रान जोधा पुत्र नूर खॉ हर तीन समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	124//20	0.0278	सुरेश कुमार पुत्र राज कुमार पुत्र कलीराम 1/2 भाग, रामकिशोर पुत्र किशोरीमल पुत्र जगत नारायण 3/10 भाग, राजेन्द्र पुत्र गणेशदास पुत्र ताराचन्द 1/5 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	130//12	0.0632	यासीन पुत्र भप्पू पुत्र रुडा वासी भंडगपुर
			व्यक्तिगत	कृषि	130//13	0.0253	यासीन पुत्र भप्पू पुत्र रुडा वासी भंडगपुर
			व्यक्तिगत	कृषि	130//14/1	0.0076	यासीन पुत्र भप्पू पुत्र रुडा वासी भंडगपुर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			व्यक्तिगत	कृषि	130//14/2	0.0304	उमराव पुत्र भप्पू पुत्र रुडा वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	130//14/3	0.0101	सुल्तान पुत्र भप्पू पुत्र रोडा वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	130//15/1	0.0228	सुल्तान पुत्र भप्पू पुत्र रोडा वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	130//15/2	0.0228	अकबर, अख्तर हुसैन, शौकत अली, जाकिर हुसैन पुत्रान हुरमत पुत्र शादी हर पाचें समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	130//16/1	0.0481	अतरू, दीनू पुत्रान होशियार खॉ पुत्र उमर खॉ 1/4 भाग, सुभान खॉ पुत्र सुमेर खॉ 1/8 भाग, हारून, जमशेद, जफरू पुत्रान जुहरू पुत्र सुमेर खॉ समभाग 1/8 भाग, सिराजुद्दीन, महमूद पुत्रान निवाज खॉ पुत्र अमी खॉ समभाग 1/2 भाग वासी बावला
			व्यक्तिगत	कृषि	130//17/2/1/2	0.0025	उमराव पुत्र भप्पू पुत्र रुडा वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	130//17/2/1/3	0.0582	यासीन पुत्र भप्पू पुत्र रुडा वासी भंडगपुर
			व्यक्तिगत	कृषि	130//18/2/1	0.0430	यासीन खान पुत्र भप्पू पुत्र रुडा खुदकाशत
			व्यक्तिगत	कृषि	131//11	0.0455	अकबर, अख्तर हुसैन, शौकत अली, जाकिर हुसैन पुत्रान हुरमत पुत्र शादी हर पाचें समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	131//12/1	0.0481	अकबर, अख्तर हुसैन, शौकत अली, जाकिर हुसैन पुत्रान हुरमत पुत्र शादी हर पाचें समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	131//13	0.0152	शिवलाल पुत्र पुरन खुदकाशत
			व्यक्तिगत	कृषि	131//14	0.0152	कृष्णदयाल, नरेश कुमार पुत्रान व श्रीमति आशा, सुरेखा पुत्रियां दीनदयाल पुत्र श्रीमति धापा हर पांच समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	131//18	0.0177	शिवदयाल पुत्र पूर्ण पुत्र गिरधारी 1/3 भाग, रामेश्वर पुत्र यादराम पुत्र पूर्ण 1/3 भाग, श्रीमति भगवानी विधवा व जगदीश, लीलू, रामकवार पुत्रान व सुनिता, सौनी, उर्मिला, छननो पुत्रियां मामनसिंह पुत्र ग्यासी हर आठ समभाग 1/27 भाग, श्रीमति शकुन्तला विधवा व दुलीचन्द, रामदास, महेश, अनिल पुत्रान व श्रीमति गीता, फूलवती, सुमन पुत्रियां प्रभुदयाल पुत्र ग्यासी हर आठ समभाग 1/27 भाग, मेहरचन्द पुत्र व श्रीमति अंगूरी, रतनी, लाली, रामभतेरी, सरला, मायावती पुत्रियां ग्यासी पुत्र पूर्ण हर सात समभाग 7/27 भाग
			व्यक्तिगत	कृषि	131//19	0.0430	अकबर, अख्तर हुसैन, शौकत अली, जाकिर हुसैन पुत्रान हुरमत पुत्र शादी हर पाचें समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	131//20	0.0481	अकबर, अख्तर हुसैन, शौकत अली, जाकिर हुसैन पुत्रान हुरमत पुत्र शादी हर पाचें समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	132//6	0.0177	नवीर कुमार, सचिन कुमार पुत्रान रघुवरदयाल पुत्र प्योरलाल हर दो समभाग
			व्यक्तिगत	कृषि	132//7	0.0177	शिमूदयाल पुत्र प्यारेलाल पुत्र शादीलाल वासीदेह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			व्यक्तिगत	कृषि	132//14/1	0.0051	खलील, अब्दुल करीम, अब्दुल प्रसाद, याकूब अहमद, अय्यूब पुत्रान सिराजुदीन पुत्र निवाज खॉ हर पाचै समभाग 1/2 भाग, जैनुदीन पुत्र मौहम्मद खॉ पुत्र निवरज खॉ रहन हिस्सा 1/2 भाग, शिवचरण दत्तक पुत्र रामरिछपाल 1/2 भाग वासीदेह मुर्तहन
			व्यक्तिगत	कृषि	132//14/2	0.0101	खलील, अब्दुल करीम, अब्दुल प्रसाद, याकूब अहमद, अय्यूब पुत्रान सिराजुदीन पुत्र निवाज खॉ हर पाचै समभाग 1/2 भाग, जैनुदीन पुत्र मौहम्मद खॉ पुत्र निवरज खॉ रहन हिस्सा 1/2 भाग, शिवचरण दत्तक पुत्र रामरिछपाल 1/2 भाग वासीदेह मुर्तहन
			व्यक्तिगत	कृषि	132//15/1	0.0076	नवीर कुमार, सचिन कुमार पुत्रान रघुवरदयाल पुत्र प्योरलाल हर दो समभाग
			व्यक्तिगत	कृषि	132//15/2	0.0354	खलील, अब्दुल करीम, अब्दुल प्रसाद, याकूब अहमद, अय्यूब पुत्रान सिराजुदीन पुत्र निवाज खॉ हर पाचै समभाग 1/2 भाग, जैनुदीन पुत्र मौहम्मद खॉ पुत्र निवरज खॉ रहन हिस्सा 1/2 भाग, शिवचरण दत्तक पुत्र रामरिछपाल 1/2 भाग वासीदेह मुर्तहन
			व्यक्तिगत	कृषि	132//17	0.0025	खलील, अब्दुल करीम, अब्दुल प्रसाद, याकूब अहमद, अय्यूब पुत्रान सिराजुदीन पुत्र निवाज खॉ हर पाचै समभाग 1/2 भाग, जैनुदीन पुत्र मौहम्मद खॉ पुत्र निवरज खॉ रहन हिस्सा 1/2 भाग, शिवचरण दत्तक पुत्र रामरिछपाल 1/2 भाग वासीदेह मुर्तहन
			व्यक्तिगत	कृषि	132//19	0.0025	श्याम सुन्दर, महेन्द्रसिंह, सुरेन्द्रसिंह पुत्रान रामगोपाल पुत्र रामप्रसाद हर तीन समभाग 15/56 भाग, शिवचरण दत्तक पुत्र रामरिछपाल पुत्र गणेशिलाल 41/56 भाग वासीदेह
		(7) गुवारका	व्यक्तिगत	कृषि	12//21	0.0076	जुहुरुदीन, अय्यूब, हाकमदीन पुत्रान रोशन खां पुत्र भूरे खां हर तीन समभाग वासी बुराका तावडू
			व्यक्तिगत	कृषि	12//22/2	0.0025	अलबरखा, खुदाबरखा, हाकमदीन पुत्रान रोशन खां पुत्र भूरे खां हर तीन समभाग वासी बुराका तावडू
			व्यक्तिगत	कृषि	12//25/2	0.0025	रोशन पुत्र भूरे खान पुत्र रहमत 1/2 भाग, हिस्सेदार हमीन पुत्र हसम 1/2 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	12//26	0.0051	जुहुरुदीन, अय्यूब, हाकमदीन पुत्रान रोशन खां पुत्र भूरे खां हर तीन समभाग वासी बुराका तावडू
			व्यक्तिगत	कृषि	13//17	0.0025	श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी राम कंवार पुत्र मुन्शीराम 1/2 भाग, मालिक कब्जा आयूष

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							पुत्र राम कंवार पुत्र मुन्शीराम 1/2 भाग, मालिक कब्जा करम सिंह पुत्र कृषा सिंह वासीदेह हकदार शामलात
			व्यक्तिगत	कृषि	13//19	0.0051	श्रीमती सरस्वती देवी पत्नी राम कंवार पुत्र मुन्शीराम, मालिक कब्जा करम सिंह पुत्र कृषा सिंह वासीदेह हकदार शामलात
			व्यक्तिगत	कृषि	16//1/1/1	0.0329	रामकिशोर पुत्र व श्रीमती भगवती देवी पत्नी किरोडीमल पुत्र जय नारायण दास हर दो समभाग 1/2 भाग, हेमन्त, आशिष पुत्रान राजेन्द्र कुमार पुत्र किरोडीमल हर दो समभाग 1/4 भाग वासीदेह, राकेश कुमार पुत्र लखपत राय 1/4 भाग वासी तावडू
			व्यक्तिगत	कृषि	16//1/1/2	0.0101	हसन खां, सौरव, सहाबुद्दीन पुत्रान मुकारब हर तीन समभाग 1/2 भाग, हिस्सेदारान उदयभाग, नसरू पुत्रान जगदेव पुत्र मंगली हर दो समभाग 1/2 भाग वासीदेह, हिस्सेदारान रामकंवार पुत्र मुन्शीराम पुत्र मिरयूमल वासी तावडू गैर मौरूसी
			ग्राम पंचायत	अकृषि	16//1/7/2	0.0051	ग्राम पंचायत
			व्यक्तिगत	कृषि	16//1/8/1	0.0202	रामकिशोर पुत्र व श्रीमती भगवती देवी पत्नी किरोडीमल पुत्र जय नारायण दास हर दो समभाग 1/2 भाग, हेमन्त, आशिष पुत्रान राजेन्द्र कुमार पुत्र किरोडीमल हर दो समभाग 1/4 भाग वासीदेह, राकेश कुमार पुत्र लखपत राय 1/4 भाग वासी तावडू
			व्यक्तिगत	कृषि	16//4	0.0025	रामकिशोर पुत्र व श्रीमती भगवती देवी पत्नी किरोडीमल पुत्र जय नारायण हर दो समभाग 1/2 भाग
			व्यक्तिगत	कृषि	17//5/3/3	0.0051	श्रीमती सरस्वती पत्नी रामकंवार पुत्र मुन्शीराम वासी गुडगांव
			व्यक्तिगत	कृषि	17//9/1	0.0025	जगू पुत्र धामू पुत्र कबीर 1/2 भाग वासीदेह, जुहरुद्दीन, अय्यूब, खुरशीद पुत्रान हमीद खां पुत्र हसम हर तीन समभाग वासी बुराका तावडू
			व्यक्तिगत	कृषि	18//1/2/2	0.0025	बिजेन्द्र सिंह पुत्र सूबे सिंह पुत्र धर्म सिंह 5/6 भाग वासी इस्लामपुर तहसील व जिला गुडगांव, श्रीमती मायादेवी पत्नी चेताराम पुत्र कूडे राम 1/24 भाग, सुनील कुमार पुत्र रामअवतार पुत्र गोपीचन्द 1/24 भाग, श्रीमती शशी देवी पत्नी नेमचन्द पुत्र मोहनलाल 1/24 भाग, श्रीमती रेखा देवी पत्नी अनिल पुत्र बनवारी लाल 1/24 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	18//5/2	0.0025	जुहरुद्दीन, अय्यूब, खुरशीद, साहून, आमीन, अकबर पुत्रान हमीद खां पुत्र हासम खां हर छः समभाग वासी बुराका तावडू

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			व्यक्तिगत	कृषि	18//6/1/2	0.0051	हुरमत पुत्र डालखां पुत्र फूल खां 1/2 भाग, वाहीद, सादीर, सलीम पुत्रान ताहील पुत्र डाल खां हर तीन समभाग 1/2 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	18//10/1	0.0051	श्रीमती माया देवी पत्नी चेताराम पुत्र कूडे राम 1/4 भाग, सुनील कुमार पुत्र रामअवतार पुत्र गोपी चन्द 1/4 भाग, श्रीमती शशी देवी पत्नी नेमचन्द पुत्र मोहन लाल 1/4 भाग, श्रीमती रेखा देवी पत्नी अनिल कुमार पुत्र बनवारी लाल 1/4 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	18//13/1	0.3035	ईसाक, नसीर, हारुन, जरजीत, शौकत, मुबीन, हबीजूर रहमान पुत्रान यासीन खों पुत्र मंगली हर सात समभाग 1/4 भाग, जरसू, इस्माईल पुत्रान मंगली पुत्र कालू हर दो समभाग 1/2 भाग, मौहम्मद हारुन पुत्र जीवन खों पुत्र मंगली 1/4 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	19//5/2	0.0025	श्रीमती जुबैदा पत्नी पहलूदीन पुत्र अय्यूब 1/12 भाग वासी छपरौला, सकूर पुत्र यामीन खां पुत्र मीर खां 1/48 भाग, श्रीमती आयशा पत्नी शेर मौहम्मद पुत्र मौजूदीन 1/12 भाग, असलम पुत्र ईसब पुत्र नत्थू 5/48 भाग, मौहम्मद ताहीर, मौहम्मद राशीद पुत्रान इब्राहीम पुत्र चान्द खां हर दो समभाग 1/36 भाग
			व्यक्तिगत	कृषि	19//6/1	0.0025	बिजेन्द्र सिंह पुत्र सूबे सिंह पुत्र धर्म सिंह वासी इस्लामपुर तहसील गुडगाव
			व्यक्तिगत	कृषि	19//6/2	0.0025	बिजेन्द्र पुत्र सूबे सिंह पुत्र धर्म सिंह वासी इस्लामपुर तहसील व जिला गुडगांव
			व्यक्तिगत	कृषि	19//8/2	0.0177	सुरजमल पुत्र निहाल सिंह पुत्र भोला राम 471/5875 भाग मालिक कब्जा, धर्मवीर पुत्र सतवीर पुत्र निहाल सिंह 471/5875 भाग मालिक कब्जा, मनोज कुमार पुत्र ब्रह्मप्रकाश पुत्र निहाल सिंह 413/5875 भाग मालिक कब्जा, विजेन्द्र पुत्र भीम सिंह पुत्र निहाल सिंह 413/5875 भाग मालिक कब्जा, धर्मवीर पुत्र सतवीर पुत्र निहाल सिंह 751/58750 भाग
			व्यक्तिगत	कृषि	19//11/2	0.0025	हरि सिंह, मोहनलाल, योगराज, चुन्नीलाल, भीम सैन, लीलाधर पुत्रान व श्रीमती कृष्णावती, राधाबाई, ईश्वर बाई, वीरनावली, पुष्पा, राजरानी, नीलम कुमारी पुत्रियां व श्रीमती टिकाबाई विधवा साहबरांम पुत्र गोलराम हर तेरह समभाग वासी तावडू
			व्यक्तिगत	कृषि	19//11/3/1	0.0025	उन्नस, जुबे पुत्रान रोजदार पुत्र वजीरा हर दो समभाग 1/2 भाग, रोजेखां, रहमान पुत्रान चन्द्र खां पुत्र वजीरा हर दो समभाग 1/2 भाग वासीदेह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			व्यक्तिगत	कृषि	19//13/1	0.0051	विजेन्द्र पुत्र भीम सिंह पुत्र निहाल सिंह 199/11750 भाग मालिक कब्जा, सुरजमल पुत्र निहाल सिंह पुत्र भोलाराम 471/5875 भाग मालिक कब्जा, धर्मवीर पुत्र सतवीर पुत्र निहाल सिंह 231/11750 भाग मालिक कब्जा, विरेन्द्र पुत्र भीम सिंह पुत्र निहाल सिंह 231/11750 भाग मालिक कब्जा, मनोज कुमार पुत्र ब्रह्मप्रकाश पुत्र निहाल सिंह
			व्यक्तिगत	कृषि	20//6/3	0.0076	साहबदीन पुत्र मुकाराम पुत्र मंगली 1/12 भाग, हुरमल, धूप खां पुत्रान डाल खां पुत्र फूल खां हर दो समभाग 1/6 भाग, श्रीमती जमीला पत्नी साहबदीन पुत्र मुकाराम 1/6 भाग
			व्यक्तिगत	कृषि	20//9	0.0101	अजय कायला पुत्र बलराज कायला पुत्र गणपत कायला वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	20//10	0.0228	अजय कायला पुत्र बलराज कायला पुत्र गणपत कायला वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	20//11	0.0253	रहमान, रोजेखां पुत्रान चन्द्र खां पुत्र वजीरा हर दो समभाग 1/2 भाग, यूनुस, जुबेर मौहम्मद पुत्रान रोजदार पुत्र वजीरा हर दो समभाग 1/2 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	20//12/1	0.0051	रहमान, रोजेखां पुत्रान चन्द्र खां पुत्र वजीरा हर दो समभाग 1/2 भाग, यूनुस, जुबेर मौहम्मद पुत्रान रोजदार पुत्र वजीरा हर दो समभाग 1/2 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	20//12/2	0.0051	रहमान, रोजेखां पुत्रान चन्द्र खां पुत्र वजीरा हर दो समभाग 1/3 भाग, यूनुस, जुबेर मौहम्मद पुत्रान रोजदार पुत्र वजीरा हर दो समभाग 1/3 भाग अराजी मतुरका गैर अलातशुदा 1/3 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	20//12/3	0.0025	रहमान, रोजेखां पुत्रान चन्द्र खां पुत्र वजीरा हर दो समभाग 1/2 भाग, यूनुस, जुबेर मौहम्मद पुत्रान रोजदार पुत्र वजीरा हर दो समभाग 1/2 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	20//14/3	0.0025	हमीद पुत्र निहाल खां वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	20//15/1	0.0051	हमीद पुत्र निहाल खां वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	20//15/2	0.0076	उन्नस पुत्र रोजदार पुत्र वजीरा वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	20//26	0.0202	जुम्मा पुत्र तैयब 2/85 भाग, हमीद पुत्र निवाज खां 2/85 भाग वासीदेह, श्रीमति रम्भूली पत्नी गंगाराम पुत्र ईश्वरदास 1/85 भाग वासी तावडू
			व्यक्तिगत	कृषि	21//15	0.0076	रहमान, रोजेखां पुत्रान चन्द्र खां पुत्र वजीरा हर दो समभाग 1/2 भाग, यूनुस, जुबेर मौहम्मद पुत्रान रोजदार पुत्र वजीरा हर दो समभाग 1/2 भाग वासीदेह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	R-101	0.0177	पंचायत देह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			ग्राम पंचायत	अकृषि	R-98	0.0101	पंचायत देह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	36	0.1518	पंचायत देह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	45	0.0379	पंचायत देह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	R-109	0.0329	पंचायत देह
		(8) बुराका	व्यक्तिगत	अकृषि	1//25	0.0101	फर्म रोशल बायोटेक लि० इण्डस्ट्रीयल स्टेट, नई दिल्ली वासीदेह
			व्यक्तिगत	अकृषि	2//17/1/1	0.0025	फर्म इनोवेटिव आउटसोर्सिंग प्रा० लि० 245/381 भाग, कामूर पुत्र जोधा पुत्र कौनी 91/381 भाग, बुद्धी पुत्र जोधा पुत्र कौनी 15/127 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	अकृषि	2//18/1	0.0202	फर्म इनोवेटिव आउटसोर्सिंग प्रा० लि० 245/381 भाग, कामूर पुत्र जोधा पुत्र कौनी 91/381 भाग, बुद्धी पुत्र जोधा पुत्र कौनी 15/127 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	अकृषि	2//20	0.0101	फर्म रोशल बायोटेक लि० इण्डस्ट्रीयल स्टेट, नई दिल्ली वासीदेह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	35	0.2074	पंचायत देह
		(9) राहेड़ी	व्यक्तिगत	कृषि	24//24	0.0025	सहजमल, सहाज खां, अशरफ पुत्रान कवल खां पुत्र खुदाबख्श हर तीन समभाग 1/4 भाग, जुम्मा खां, सामे मौहम्मद पुत्रान मवासी पुत्र खुदाबख्श हर दो समभाग 1/4 भाग, जबर खा, जौम खां पुत्रान इब्राहीम पुत्र पीरबख्श हर दो समभाग 1/4 भाग, अम्मी पुत्र हसमल पुत्र खुदाबख्श 1/4 भाग
			ग्राम पंचायत	अकृषि	28//6	0.0228	पंचायत देह
			व्यक्तिगत	कृषि	29//5	0.0076	आसम उर्फ गूंगा, नवाब पुत्रान छाव खां हर दो समभाग 1/3 भाग, हस्नू, कालू, कमरुद्दीन, आसू पुत्रान मुन्शी पुत्र नजर खां हर चार समभाग 1/3 भाग, पहलू, सोराब, भत्तू, दिलावर, जफरू, इस्लाम, सलील पुत्रान इमाम खां पुत्र नजर खां हर सात समभाग 1/3 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	29//6/2	0.0101	आसम उर्फ गूंगा, नवाब पुत्रान छाव खां हर दो समभाग 1/3 भाग, हस्नू, कालू, कमरुद्दीन, आसू पुत्रान मुन्शी पुत्र नजर खां हर चार समभाग 1/3 भाग, पहलू, सोराब, भत्तू, दिलावर, जफरू, इस्लाम, सलील पुत्रान इमाम खां पुत्र नजर खां हर सात समभाग 1/3 भाग वासीदेह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			व्यक्तिगत	कृषि	29//7/2	0.0152	अय्यूब पुत्र मूंगा पुत्र बख्तावर 1/2 भाग, महमूदा, अली मौहम्मद पुत्रान दलशेर हर दो समभाग 1/9 भाग, ईसाक, अलमूदीन पुत्रान दलशेर पुत्र उमराव हर दो समभाग 1/6 भाग, अता मौहम्मद, ईन्नस पुत्रान लाल खां पुत्र उमराव हर दो समभाग 1/6 भाग, सईद अहमद पुत्र बतलू पुत्र नूरु 1/18 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	29//8	0.0025	अय्यूब पुत्र मूंगा पुत्र बख्तावर 1/2 भाग, महमूदा, अली मौहम्मद पुत्रान दलशेर हर दो समभाग 1/9 भाग, ईसाक, अलमूदीन पुत्रान दलशेर पुत्र उमराव हर दो समभाग 1/6 भाग, अता मौहम्मद, ईन्नस पुत्रान लाल खां पुत्र उमराव हर दो समभाग 1/6 भाग, सईद अहमद पुत्र बतलू पुत्र नूरु 1/18 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	29//12/1	0.0025	रज्जाक पुत्र ईसा पुत्र भोंदू वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	29//12/2	0.0025	रज्जाक पुत्र ईसा पुत्र भोंदू वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	29//14	0.0304	रज्जाक पुत्र ईसा पुत्र भोंदू वासीदेह
			व्यक्तिगत	अकृषि	30//1/2	0.0051	चकरिया, अजमल पुत्रान भोबल पुत्र फते मौहम्मद हर दो समभाग 2/3 भाग वासीदेह, फर्म रोशल बायोटेक लि0 1/3 भाग 210 औखला इण्डस्ट्रीयल ईस्ट नई दिल्ली
			व्यक्तिगत	अकृषि	30//2	0.0076	फर्म रोशल बायोटेक लि0 1/2 भाग वासी ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया नई दिल्ली, आसम, नरू, हमीद, अहमद, फरीद, फत्ते, सईद पुत्रान चन्दमल पुत्र बुद्धा हर छः समभाग 1/2 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	30//6	0.0025	सुमेर खां, खिददी, जगदीश पुत्रान हब्बड हर तीन समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	30//8	0.0076	आसम, नरू, हमीद, अहमद, फरीद, फत्ते, सईद पुत्रान चन्दमल पुत्र बुद्धा हर सात समभाग 1/2 भाग, नसीब खां पुत्र बुद्धा पुत्र भगमल 1/2 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	30//11	0.0025	याकूब पुत्र बख्तू पुत्र भूरू 1/4 भाग मालिक कब्जा, बहीद पुत्र सुलेमान पुत्र जगमल 1/8 भाग मालिक कब्जा, अय्यूब पुत्र जगमल पुत्र बख्तू 1/8 भाग मालिक कब्जा, सुलेमान पुत्र जगमल पुत्र बख्तू 1/4 भाग मालिक कब्जा
			व्यक्तिगत	कृषि	30//12	0.0025	याकूब पुत्र बख्तू पुत्र भूरू 1/4 भाग मालिक कब्जा, बहीद पुत्र सुलेमान पुत्र जगमल 1/8 भाग मालिक कब्जा, अय्यूब पुत्र जगमल पुत्र बख्तू 1/8 भाग मालिक कब्जा, सुलेमान पुत्र जगमल पुत्र बख्तू 1/4 भाग मालिक कब्जा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			व्यक्तिगत	कृषि	31//4	0.0025	कालू, हुरु पुत्रान यासीन पुत्र जगदेव हर दो समभाग 1/3 भाग, ईसाब, दीनू, नस्रू, ईसा, सददीक पुत्रान मंगल पुत्र ईमरत हर पौंच समभाग 1/3 भाग, आस मौहम्मद पुत्र बुद्ध 1/21 भाग, हनीफ, सम्सू, अली मौहम्मद, मजीद, वहीद, ईकबाल पुत्रान बुद्ध पुत्र ईमरत हर छः समभाग 2/7 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	31//5	0.0051	कालू, हुरु पुत्रान यासीन पुत्र जगदेव हर दो समभाग 1/3 भाग, ईसाब, दीनू, नस्रू, ईसा, सददीक पुत्रान मंगल पुत्र ईमरत हर पौंच समभाग 1/3 भाग, आस मौहम्मद पुत्र बुद्ध 1/21 भाग, हनीफ, सम्सू, अली मौहम्मद, मजीद, वहीद, ईकबाल पुत्रान बुद्ध पुत्र ईमरत हर छः समभाग 2/7 भाग वासीदेह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	R-45	0.0455	ग्राम पंचायत देह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	R-48	0.0101	ग्राम पंचायत देह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	R-57	0.0025	ग्राम पंचायत देह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	R-266	0.0304	ग्राम पंचायत देह
		(10) माल्हाका	व्यक्तिगत	कृषि	4//17/2	0.0051	शमशु पुत्र जसरू पुत्र बुद्धा 1/2 भाग, सुल्हड पुत्र बुद्धा पुत्र कन्हैया 2/7 भाग, भम्बड, जुम्मा पुत्रान बुद्धा पुत्र कन्हैया हर दो समभाग 1/2 भाग, शाहबुददीन, रुकमदीन पुत्रान नसरू पुत्र बुद्धा हर दो समभाग 1/6 भाग
			व्यक्तिगत	कृषि	4//17/3	0.0025	मौहम्मद शादीक, दरिया खान पुत्रान सुलेमान पुत्र भूप सिंह हर दो समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	4//21/1	0.0405	उमराव, नजर मौहम्मद पुत्रान बदली पुत्र अवेज हर दो समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	4//22/1	0.0025	सुभान खान, खुशीद, सुबेखा, शाहून पुत्रान यासीन हर चार समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	4//23/1	0.0025	नस्सी, हमीदी, बस्सी, फुन्नी, सुन्नी, रमजानी पुत्रियान फतमा विधवा खददा हर छः समभाग 3/56 भाग, सहाबुदीन, सगरू पुत्रान असरी पुत्री फतमा हर दो समभाग 1/112 भाग, सुगड उर्फ सागर पुत्र घमण्डी 1/16 भाग, चंगा पुत्र घमण्डी 1/16 भाग, सरदार पुत्र घमण्डी 1/16 भाग, बुधु पुत्र अस्लूप खान पुत्र छोटा 1/4 भाग, कटोला, जोम खान पुत्रान सलीम पुत्र छोटा हर दो समभाग 1/6 भाग, राहमुदीन पुत्र कमरुदीन पुत्र सलीम 1/12 भाग, ईस्राइल, अन्धू पुत्रान अली मौहम्मद पुत्र मेहर खान हर दो समभाग 1/4 भाग वासीदेह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			व्यक्तिगत	कृषि	4//24/2	0.0076	जुबेर पुत्र व श्रीमती सरीफन विधवा दीन मौहम्मद पुत्र मेद खान हर दो समभाग 1/2 भाग, आश मौहम्मद पुत्र मेद खान पुत्र कमलू 1/2 वासी देह
			व्यक्तिगत	कृषि	5//25	0.0025	उमराव, नजर मौहम्मद पुत्रान बदली पुत्र अवेज हर दो समभाग वासीदेह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	19	0.0556	ग्राम पंचायत देह
		(11) डालाका	व्यक्तिगत	कृषि	9//13	0.0101	सरदार पुत्र घमण्डी पुत्र छुटना वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	9//15	0.0025	दीना, सराजू, मिसरू, नूरदीन पुत्रान शादी पुत्र काले खान हर चार समभाग 1/5 भाग, अलीशेर पुत्र दानी पुत्र काले खान 1/5 भाग, भगमल, सहाबुदीन, सलीम पुत्रान जुम्मा पुत्र काले खान हर तीन समभाग 1/5 भाग, खुरशीद अहमद, हमीद, वहीद, महमूद पुत्रान सम्मे खान पुत्र काले खान हर चार समभाग 4/25 भाग, जसरथ, अब्दुल्ला, इरसाद, मौहमदीन, उमरदीन पुत्रान शादी पुत्र सम्मे हर पाँच समभाग 1/25 भाग वासीदेह, पहलू पुत्र फिरोज खान पुत्र काले खान 1/5 भाग वासी माल्हाका
			व्यक्तिगत	कृषि	9//16/2	0.0228	सरदार पुत्र घमण्डी पुत्र छुटना वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	10//5/2	0.0101	अमरू, चाहत पुत्रान कमलू पुत्र कन्हैया हर दो समभाग 1/18 भाग, अतर खान पुत्र चन्दरू 1/18 भाग, जुम्मा, जमल, जसमल, अमतल पुत्रान कन्हैया पुत्र लूडा हर चार समभाग 2/9 भाग, सदरुदीन पुत्र करीम पुत्र मुन्शी 1/36 भाग, मुनसैद पुत्र धूप सिंह पुत्र दौला 1/12 भाग, इकबाल पुत्र रहमान पुत्र मुन्शी 1/36 भाग, रहीम पुत्र मुन्शी पुत्र दौला 1/36 भाग, हसन मौहम्मद, आस मौहम्मद, नसरुदीन, अमरू पुत्रान बुद्धी पुत्र दौला हर चार समभाग 1/12 भाग, खुरशीद, आमीन पुत्रान बुद्ध सिंह पुत्र दौला हर दो समभाग 1/12 भाग, कमल पुत्र बेगराज उर्फ चन्दा पुत्र हुसैना 1/6 भाग, यासीन, मौजी पुत्रान घोसी पुत्र हुसैना हर दो समभाग 1/6 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	10//7/1	0.0202	शमशु, शाहबुदीन, रुदमुदीन पुत्रान नसरू पुत्र बुद्धा हर तीन समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	10//7/3	0.0025	शमशु, शाहबुदीन, रुदमुदीन पुत्रान नसरू पुत्र बुद्धा हर तीन समभाग 1/4 भाग, जुम्मे खान, भम्बड़, सुल्हड पुत्रान बुद्धा पुत्र कन्हैया हर तीन समभाग 3/4 भाग वासीदेह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			व्यक्तिगत	कृषि	10//8	0.0253	शमशु, शाहबुदीन, रुदमुदीन पुत्रान नसरु पुत्र बुद्धा हर तीन समभाग 1/4 भाग, जुम्मे खान, भम्बड़, सुल्हड पुत्रान बुद्धा पुत्र कन्हैया हर तीन समभाग 3/4 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	10//9	0.0076	खुशीद अहमद, हमिन्द, जाहीद, महमूद पुत्रान सम्मी पुत्र काले खान हर चार समभाग 4/5 भाग वासीदेह, जसरथ, अब्दुल्ला, इरशाद, मोहमदीन, उमरदीन पुत्रान शाहिद पुत्र सम्मी खान हर पाँच समभाग 1/5 भाग वासीदेह माल्हाका
			व्यक्तिगत	कृषि	10//11/1	0.0076	सकुर पुत्र जहाज 5/98 भाग, नसरु पुत्र शादी 5/98 भाग, ईसाक, रज्जाक, नूरदीन, शौकत पुत्रान उमेद हर चार समभाग 5/98 भाग, खुरशीद, हमीद, वहीद, महमूद पुत्रान सम्मे हर चार समभाग 5/98 भाग, जसरथ, अब्दुल्ला, इरशाद, मौहम्मदीन, उमरदीन पुत्रान शाहीद हर पाँच समभाग 1/98 भाग, हयात खान पुत्र सरदार खान पुत्र घमण्डी 3/14 भाग, भगमल, सहाबुदीन, सलीम पुत्रान जुम्मा पुत्र काले खान हर तीन समभाग 18/49 भाग, कपूरा, जहाज खान पुत्रान फिरोज खान हर दो समभाग 5/49 भाग वासीदेह, पहलू पुत्र फिरोज खान पुत्र काले खान 5/49 भाग वासी माल्हाका
			व्यक्तिगत	कृषि	10//11/2	0.0025	ईशाक, नसरुदीन, रज्जाक, शौकत पुत्रान उमेद खान पुत्र जहाज खान हर चार समभाग 1/3 भाग वासीदेह, कपूर खान, सकूर खान पुत्रान जहाज खान हर दो समभाग 2/3 भाग वासी माल्हाका
			व्यक्तिगत	कृषि	10//12	0.0101	दीना, सराजू, मिसरु, नूरदीन पुत्रान शादी पुत्र काले खान हर चार समभाग 1/2 भाग वासीदेह, जाहीद, शाहिद पुत्रान रहिश खान पुत्र समय खान हर दो समभाग 1/2 भाग वासी माल्हाका
			व्यक्तिगत	कृषि	10//13	0.0177	जुम्मा खान, भम्बड़, सुल्हड पुत्रान बुढडा पुत्र कन्हैया हर तीन समभाग 3/4 भाग वासीदेह, सम्सू, सहाबूदीन, रुकमूदीन पुत्रान नसरु पुत्र बुधा हर तीन समभाग 1/4 भाग वासी माल्हाका
			व्यक्तिगत	कृषि	10//14	0.0152	दीन मौहम्मद, जमिल मौहम्मद पुत्रान फज्जर पुत्र कल्लू हर दो समभाग 1/3 भाग, निसार, अब्बास, तौफिक पुत्रान लखपत पुत्र फज्जर हर तीन समभाग 1/6 भाग वासीदेह, असलूप पुत्र सुगड खान पुत्र उमेद खान 1/2 खान वासी खरखरी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			व्यक्तिगत	कृषि	10//15	0.0152	दीन मोहम्मद, जमिल मोहम्मद पुत्रान फज्जर पुत्र कल्लू हर दो समभाग 1/3 भाग, निसार, अब्बास, तौफिक पुत्रान लखपत पुत्र फज्जर हर तीन समभाग 1/6 भाग वासीदेह, असलूप पुत्र सुगड खान पुत्र उमेद खान 1/2 खान वासी खरखरी
			व्यक्तिगत	कृषि	10//19	0.3465	सम्सू, सहाबुदीन, रूदमूदीन पुत्रान नसरु पुत्र बुधा 1/4 भाग, जुम्मे खान, भम्बड, सुल्हड पुत्रान बुधा पुत्र कन्हैया 3/4 वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	10//20	0.0051	ईशाक, नसरुदीन, रज्जाक, शौकत पुत्रान उमेद खान पुत्र जहाज खान हर चार समभाग 1/3 भाग वासीदेह, कपूर खान, सकूर खान पुत्रान जहाज खान हर दो समभाग 2/3 भाग वासी माल्हाका
			व्यक्तिगत	कृषि	11//1	0.0430	अशरफ पुत्र सरीफ खान पुत्र छोटे खान 8/9 भाग, शदरुदीन पुत्र करीम खान 1/36 भाग, मुनफेद पुत्र धूप सिंह 1/12 वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	11//2	0.0481	अशरफ पुत्र सरीफ खान पुत्र छोटे खान 8/9 भाग, शदरुदीन पुत्र करीम खान 1/36 भाग, मुनफेद पुत्र धूप सिंह 1/12 वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	11//3	0.0278	वजीर, रमजान, रमजानी, रोजदार पुत्रान जय सिंह पुत्र अलबख्खा हर चार समभाग वासीदेह खरखड़ी
			व्यक्तिगत	कृषि	11//9	0.0202	अशरफ पुत्र सरीफ खान पुत्र छोटे खान 8/9 भाग, शदरुदीन पुत्र करीम खान 1/36 भाग, मुनफेद पुत्र धूप सिंह 1/12 वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	11//10/1	0.0051	अशरफ पुत्र सरीफ खान पुत्र छोटे खान 8/9 भाग, शदरुदीन पुत्र करीम खान 1/36 भाग, मुनफेद पुत्र धूप सिंह 1/12 वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	11//10/2	0.0177	अमरू, चाहत पुत्रान कमलू पुत्र कन्हैया हर दो समभाग 1/18 भाग, अतर खान पुत्र चन्दरू 1/18 भाग, जुम्मा, जमल, जसमल, अमतल पुत्रान कन्हैया पुत्र लूडा हर चार समभाग 2/9 भाग, सदरुदीन पुत्र करीम पुत्र मुन्शी 1/36 भाग, मुनसैद पुत्र धूप सिंह पुत्र दौला 1/12 भाग, इकबाल पुत्र रहमान पुत्र मुन्शी 1/36 भाग, रहीम पुत्र मुन्शी पुत्र दौला 1/36 भाग, हसन मोहम्मद, आस मोहम्मद, नसरुदीन, अमरू पुत्रान बुद्धी पुत्र दौला हर चार समभाग 1/12, खुरशीद, आमीन पुत्रान बुद्ध सिंह पुत्र दौला हर दो समभाग 1/12 भाग, कमल पुत्र बेगराज उर्फ चन्दा पुत्र हुसैना 1/6 भाग, यासीन, मौजी पुत्रान घोसी पुत्र हुसैना हर दो समभाग 1/6 भाग वासीदेह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			व्यक्तिगत	कृषि	6//15	0.0101	सल्लू, दीनू पुत्रान रूडा पुत्र छोटे खान हर दो समभाग 2/3 भाग, नूर मौहम्मद पुत्र छज्जू पुत्र रूडा 1/3 वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	6//16/1	0.0329	सलीम पुत्र मल्लू पुत्र मौहम्मद बख्श
			व्यक्तिगत	कृषि	6//16/2	0.0379	जुहरु, फजर खान पुत्रान सहाज खान पुत्र पीरू हर दो समभाग 1/2 भाग, रसलू, रज्जाक पुत्रान सुमेर खान पुत्र पीरू हर दो समभाग 1/5 भाग वासीदेह, नूर मौहम्मद, रोजदार पुत्रान सुमेर खान पुत्र पीरू हर दो समभाग 3/10 भाग वासी खरखरी
			व्यक्तिगत	कृषि	6//18/1	0.0354	जुहरु, फजर खान पुत्रान सहाज खान पुत्र पीरू हर दो समभाग 1/2 भाग, रसलू, नूर मौहम्मद, रोजदार, रज्जाक पुत्रान सुमेर खान पुत्र पीरू हर चार समभाग 2/5 भाग वासीदेह, रहीश पुत्र यासीन पुत्र रोडा 1/10 भाग वासी खरखडी
			व्यक्तिगत	कृषि	6//22	0.0278	जुहरु, फजर खान पुत्रान सहाज खान पुत्र पीरू हर दो समभाग 1/2 भाग, रसलू, नूर मौहम्मद, रोजदार, रज्जाक पुत्रान सुमेर खान पुत्र पीरू हर चार समभाग 2/5 भाग वासीदेह, रहीश पुत्र यासीन पुत्र रोडा 1/10 भाग वासी खरखडी
			व्यक्तिगत	कृषि	6//23/1	0.0202	जुहरु, फजर खान पुत्रान सहाज खान पुत्र पीरू हर दो समभाग 1/2 भाग, रसलू, नूर मौहम्मद, रोजदार, रज्जाक पुत्रान सुमेर खान पुत्र पीरू हर चार समभाग 2/5 भाग वासीदेह, रहीश पुत्र यासीन पुत्र रोडा 1/10 भाग वासी खरखडी
			व्यक्तिगत	कृषि	6//23/2	0.0152	वजीर, रमजान, रमजानी, रोजदार पुत्रान जय सिंह पुत्र अलबख्श हर चार समभाग वासीदेह खरखडी
			व्यक्तिगत	कृषि	6//24	0.0860	जुहरु, फजर खान पुत्रान सहाज खान पुत्र पीरू हर दो समभाग 1/2 भाग, रसलू, नूर मौहम्मद, रोजदार, रज्जाक पुत्रान सुमेर खान पुत्र पीरू हर चार समभाग 2/5 भाग वासीदेह, रहीश पुत्र यासीन पुत्र रोडा 1/10 भाग वासी खरखडी
			व्यक्तिगत	कृषि	5//2/1	0.0177	नसरू पुत्र रोडा पुत्र मेद खान
			व्यक्तिगत	कृषि	5//2/2	0.0025	मंगल, हुसैना, दीन मौहम्मद पुत्रान मेद खान उर्फ उमेद खान पुत्र रोमा हर तीन समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	5//3/1	0.0076	मंगल, हुसैना, दीन मौहम्मद पुत्रान मेद खान उर्फ उमेद खान पुत्र रोमा हर तीन समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	5//3/2	0.0152	ईसाक, इलियास, इब्राहीम, खलील अहमद पुत्रान दीन मौहम्मद पुत्र सुमेर हर चार समभाग 3/16 भाग, यूनुस, नसरू पुत्रान जुहर खान पुत्र सदरू हर दो समभाग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							3/32, अली मौहम्मद पुत्र नजरु पुत्र नजबू 3/16 भाग, जुम्मे खान पुत्र सदरु 3/32 भाग, शेर मौहम्मद पुत्र हुसैन खान पुत्र अजीम 20/1037 भाग, फजरु पुत्र नजीर 149/4148 भाग, सत्तार पुत्र छाव खान पुत्र फूल सिंह 15/2074 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	5//9/2	0.0329	कमरुद्दीन, राशीद, हनीफ, रहीश पुत्रान आसीन पुत्र रोडा हर चार समभाग 1/15 भाग, समसुदीन, इस्लामुदीन पुत्रान हुसैन खान पुत्र रोडा हर दो समभाग 1/15 भाग, नसरु पुत्र रोडा पुत्र मैद खान 1/15 भाग, तैय्यब, साबुदीन, असरुदीन, मुश्ताक पुत्रान लुक्की उर्फ अलबख्श हर चार समभाग 1/45 भाग, सुभान खान, ईसाक पुत्रान नुरु पुत्र रोडा हर दो समभाग 1/15 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	5//9/3	0.0076	आशू सहाबुदीन पुत्रान छुतना हर दो समभाग 1/6 भाग, रोजदार पुत्र काले खान 1/12 भाग, अय्यूब, लियाकत पुत्रान रहीम बख्श हर दो समभाग 1/12 भाग वासीदेह, काले खान, छुट्टन उर्फ छुतना पुत्रान मेव खान पुत्र ताज खान हर दो समभाग 2/3 भाग वासी खरखरी
			व्यक्तिगत	कृषि	5//10	0.0278	आशू सहाबुदीन पुत्रान छुतना हर दो समभाग 1/6 भाग, रोजदार पुत्र काले खान 1/12 भाग, अय्यूब, लियाकत पुत्रान रहीम बख्श हर दो समभाग 1/12 भाग वासीदेह, काले खान, छुट्टन उर्फ छुतना पुत्रान मेव खान पुत्र ताज खान हर दो समभाग 2/3 भाग वासी खरखरी
			व्यक्तिगत	कृषि	5//11/1	0.0430	सल्लू दीनू पुत्रान रूडा पुत्र छोटे खान हर दो समभाग 2/3 भाग, नूर मौहम्मद पुत्र छज्जू पुत्र रूडा 1/3 वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	1//15	0.0607	फजरु, नसीरा पुत्रान भोला उर्फ धम्मू पुत्र मंगतू हर दो समभाग वासी खरखडी
			व्यक्तिगत	कृषि	1//16	0.0051	फजरु, नसीरा पुत्रान भोला उर्फ धम्मू पुत्र मंगतू हर दो समभाग वासी खरखडी
			व्यक्तिगत	कृषि	1//17/1	0.0379	फजरु, नसीरा पुत्रान भोला उर्फ धम्मू पुत्र मंगतू हर दो समभाग वासी खरखडी
			व्यक्तिगत	कृषि	1//17/2	0.0329	फजरु, नसीरा पुत्रान भोला उर्फ धम्मू पुत्र मंगतू हर दो समभाग वासी खरखडी
			व्यक्तिगत	कृषि	1//23/1	0.0101	ईसाक, इलियास, इब्राहीम, खलील अहमद पुत्रान दीन मौहम्मद पुत्र सुमेर हर चार समभाग 7/32 भाग, यूनुस, नसरु पुत्रान जुहर खान पुत्र सदरु हर दो समभाग 7/64, जुम्मा पुत्र सदरु 7/64 भाग, अली मौहम्मद पुत्र नजरु पुत्र नजबू 7/32 भाग वासीदेह, शेर मौहम्मद पुत्र हुसैन

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							खान पुत्र अजीम 7/64 भाग वासी धूलावत, सत्तार पुत्र छाव खान पुत्र फूल सिंह 5/1416 भाग, फजरु पुत्र नसीर पुत्र उमेद 7/32 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	1//23/2	0.0101	इदू, जुबेर, जैकम, जाकीर पुत्रान मुरद पुत्र सुगडू हर चार समभाग 1/2 भाग, रमजान पुत्र सुगडू पुत्र जैन खान 1/2 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	1//24	0.0177	फजरु, नसीरा पुत्रान भोला उर्फ धम्मू पुत्र मंगतू हर दो समभाग वासी खरखडी
			ग्राम पंचायत	अकृषि	R-51	0.0051	पंचायत देह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	30	0.0632	पंचायत देह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	R-44	0.0304	पंचायत देह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	R-37	0.0051	पंचायत देह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	R-29	0.0734	पंचायत देह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	40	0.0683	पंचायत देह
		(12) खरखडी	ग्राम पंचायत	अकृषि	21//7/2	0.0076	ग्राम पंचायत देह वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	21//13	0.0202	नजीर, मजीद, रजमल पुत्रान उबेद पुत्र अलबरखा हर तीन समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	21//14	0.0759	नजीर, मजीद, रजमल पुत्रान उबेद पुत्र अलबरखा हर तीन समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	21//18/1	0.0051	नजीर, मजीद, रजमल पुत्रान उबेद पुत्र अलबरखा हर तीन समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	21//18/2	0.0481	बदलेराम, तोताराम, जातराम, डीगराम पुत्रान व सुनेरी, प्रेमबती पुत्रियां व प्रयाली विधवा रामसरूप हर सात समभाग 1/4 भाग, लखीराम, यादराम, मामराज पुत्रान व रीमती केला, लछयो, अंगूरी, शरबती पुत्रियां गयासी पुत्र भम्बड हर सात समभाग 1/4 भाग, मामचन्द पुत्र भम्बड पुत्र दयाकिशन 1/4 भाग, श्रीमती केला विधवा शिबू पुत्र भम्बड 1/4 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	21//19/1	0.0126	बदलेराम, तोताराम, जातराम, डीगराम पुत्रान व सुनेरी, प्रेमबती पुत्रियां व प्रयाली विधवा रामसरूप हर सात समभाग 1/4 भाग, लखीराम, यादराम, मामराज पुत्रान व रीमती केला, लछयो, अंगूरी, शरबती पुत्रियां गयासी पुत्र भम्बड हर सात समभाग 1/4 भाग, मामचन्द पुत्र भम्बड पुत्र दयाकिशन 1/4 भाग, श्रीमती केला विधवा शिबू पुत्र भम्बड 1/4 भाग वासीदेह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			व्यक्तिगत	कृषि	21//21/2	0.0051	बदलेराम, तोताराम, जातराम, डीगराम पुत्रान व सुनेरी, प्रेमबती पुत्रियां व प्रयाली विधवा रामस्वरूप हर सात समभाग 1/4 भाग, लखीराम, यादराम, मामराज पुत्रान व रीमती केला, लछयो, अंगूरी, शरबती पुत्रियां गयासी पुत्र भम्बड हर सात समभाग 1/4 भाग, मामचन्द पुत्र भम्बड पुत्र दयाकिशन 1/4 भाग, श्रीमती केला विधवा शिबू पुत्र भम्बड 1/4 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	21//22/1	0.0126	जुम्मा खान, रहमान, हुसेन खान, अशरफ खान पुत्रान शरीफ खान पुत्र छोटे खान समभाग वासीयान देह
			व्यक्तिगत	कृषि	21//22/2	0.0556	बदलेराम, तोताराम, जीतराम, डीगराम पुत्रान राम स्वरूप पुत्र भाम्बड हर चार समभाग 3/14 भाग, श्रीमती प्रमाली विधवा राम स्वरूप 1/28 भाग, श्रीमती ललीता पुत्री मामचन्द पुत्र भाम्बड 1/12 भाग, श्रीमती हसीना पत्नी जुबेर पुत्र मुरद 5/133 भाग, श्यामसुन्दर पुत्र टेकचन्द पुत्र दीपचन्द 118/399 भाग, लखमीचन्द, यादराम, मामराज पुत्रान गयासी राम हर तीन समभाग 1/84 भाग, सुनीता देवी पत्नी मामराज पुत्र गयासी राम 1/84 भाग, इमरती पुत्र बदलेराम पुत्र रामस्वरूप 1/84 भाग, प्रकाशी पत्नी तोताराम पुत्र रामस्वरूप 1/84 भाग, कैलाश पत्नी जीतराम पुत्र रामस्वरूप 1/84 भाग, श्रीमती मायादेवी पत्नी डीगराम पुत्र गयासी राम 1/84 भाग, श्रीमती रूपन पत्नी यादराम पुत्र गयासी राम 1/84 भाग, श्रीमती लछछो पत्नी लिखीराम पुत्र गयासी राम 1/84 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	21//23	0.0304	बदलेराम, तोताराम, जीतराम, डीगराम पुत्रान राम स्वरूप पुत्र भाम्बड हर चार समभाग 3/14 भाग, श्रीमती प्रमाली विधवा राम स्वरूप 1/28 भाग, श्रीमती ललीता पुत्री मामचन्द पुत्र भाम्बड 1/12 भाग, श्रीमती हसीना पत्नी जुबेर पुत्र मुरद 5/133 भाग, श्यामसुन्दर पुत्र टेकचन्द पुत्र दीपचन्द 118/399 भाग, लखमीचन्द, यादराम, मामराज पुत्रान गयासी राम हर तीन समभाग 1/84 भाग, सुनीता देवी पत्नी मामराज पुत्र गयासी राम 1/84 भाग, इमरती पुत्र बदलेराम पुत्र रामस्वरूप 1/84 भाग, प्रकाशी पत्नी तोताराम पुत्र रामस्वरूप 1/84 भाग, कैलाश पत्नी जीतराम पुत्र रामस्वरूप 1/84 भाग, श्रीमती मायादेवी पत्नी डीगराम पुत्र गयासी राम 1/84 भाग, श्रीमती रूपन पत्नी यादराम पुत्र गयासी राम 1/84 भाग, श्रीमती लछछो पत्नी लिखीराम पुत्र गयासी राम 1/84 भाग वासीदेह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			ग्राम पंचायत	अकृषि	27//6	0.0607	ग्राम पंचायत देह वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	27//14/1	0.0126	जुम्मा खान, रहमान, हुसेन खान, अशरफ खान पुत्रान शरीफ खान पुत्र छोटे खान समभाग वासीयान देह
			व्यक्तिगत	कृषि	27//14/2	0.0304	जुम्मा खान, रहमान, हुसेन खान, अशरफ खान पुत्रान शरीफ खान पुत्र छोटे खान समभाग वासीयान देह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	27//15	0.0228	ग्राम पंचायत देह वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	27//17	0.0683	कमरुद्दीन, राशीद, हनीफ, रहीश पुत्रान यासीन पुत्र रोहडा हर चार समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	27//18	0.0177	जुम्मा खान, रहमान, हुसेन खान, अशरफ खान पुत्रान शरीफ खान पुत्र छोटे खान समभाग वासीयान देह
			व्यक्तिगत	कृषि	28//1	0.0683	बदलेराम, तोताराम, जीतराम, डीगराम पुत्रान राम स्वरूप पुत्र भाम्बड हर चार समभाग 3/14 भाग, श्रीमती प्रमाली विधवा राम स्वरूप 1/28 भाग, श्रीमती ललीता पुत्री मामचन्द पुत्र भाम्बड 1/12 भाग, श्रीमती हसीना पत्नी जुबेर पुत्र मुरद 5/133 भाग, श्यामसुन्दर पुत्र टेकचन्द पुत्र दीपचन्द 118/399 भाग, लखमीचन्द, यादराम, मामराज पुत्रान ग्यासी राम हर तीन समभाग 1/84 भाग, सुनीता देवी पत्नी मामराज पुत्र ग्यासी राम 1/84 भाग, इमरती पुत्र बदलेराम पुत्र रामस्वरूप 1/84 भाग, प्रकाशी पत्नी तोताराम पुत्र रामस्वरूप 1/84 भाग, कैलाश पत्नी जीतराम पुत्र रामस्वरूप 1/84 भाग, श्रीमती मायादेवी पत्नी डीगराम पुत्र ग्यासी राम 1/84 भाग, श्रीमती रूपन पत्नी यादराम पुत्र ग्यासी राम 1/84 भाग, श्रीमती लछछो पत्नी लिखीराम पुत्र ग्यासी राम 1/84 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	28//2	0.0329	बदलेराम, तोताराम, जीतराम, डीगराम पुत्रान राम स्वरूप पुत्र भाम्बड हर चार समभाग 3/14 भाग, श्रीमती प्रमाली विधवा राम स्वरूप 1/28 भाग, श्रीमती ललीता पुत्री मामचन्द पुत्र भाम्बड 1/12 भाग, श्रीमती हसीना पत्नी जुबेर पुत्र मुरद 5/133 भाग, श्यामसुन्दर पुत्र टेकचन्द पुत्र दीपचन्द 118/399 भाग, लखमीचन्द, यादराम, मामराज पुत्रान ग्यासी राम हर तीन समभाग 1/84 भाग, सुनीता देवी पत्नी मामराज पुत्र ग्यासी राम 1/84 भाग, इमरती पुत्र बदलेराम पुत्र रामस्वरूप 1/84 भाग, प्रकाशी पत्नी तोताराम पुत्र रामस्वरूप

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							1/84 भाग, कैलाश पत्नी जीतराम पुत्र रामस्वरूप 1/84 भाग, श्रीमती मायादेवी पत्नी डीगराम पुत्र ग्यासी राम 1/84 भाग, श्रीमती रूपन पत्नी यादराम पुत्र ग्यासी राम 1/84 भाग, श्रीमती लछछो पत्नी लिखीराम पुत्र ग्यासी राम 1/84 भाग वासीदेह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	R-47	0.0076	ग्राम पंचायत
		(13) धुलावट	व्यक्तिगत	कृषि	16//25/1	0.0101	पलटू पुत्र शादी पुत्र बख्तावर वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	16//25/2	0.0025	पलटू पुत्र शादी पुत्र बख्तावर वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	17//16	0.0076	इकबाल पुत्र मजीद पुत्र अतरु 1/2 भाग, हकमूदीन, दालक पुत्रान अमरु पुत्र सफेद खान हर दो समभाग 1/2 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	17//17/1	0.0228	इकबाल पुत्र मजीद पुत्र अतरु 1/2 भाग, हकमूदीन, दालक पुत्रान अमरु पुत्र सफेद खान हर दो समभाग 1/2 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	17//17/3	0.0152	फजरु पुत्र आस मौहम्मद पुत्र बदलू 1/3 भाग, नसीद खान, इसराइल पुत्रान बिलान्द खान पुत्र वाहद हर दो समभाग 1/6 भाग, दीनू हसन मौहम्मद पुत्रान जस्सू पुत्र डोडा हर दो समभाग 1/6 भाग, सुलेमान, रज्जाक पुत्रान मौजी पुत्र निवाज खान हर दो समभाग 1/9 भाग, आस मौहम्मद, असर खान पुत्रान मंगल पुत्र कन्हैया हर दो समभाग 1/9 भाग, नसरु, अजीज पुत्रान रहमान पुत्र गुलाब हर दो समभाग 1/18 भाग, हनीफ, सरफूदीन, मेहरुदीन पुत्रान उमराव पुत्र गुलाब हर तीन समभाग 1/18 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	17//17/4	0.0177	आस मौहम्मद, असर खान पुत्रान मंगल पुत्र कन्हैया हर दो समभाग 1/2 भाग, हनीफ, सरफूदीन, मेहरुदीन पुत्रान उमराव पुत्र गुलाब हर तीन समभाग 23/39 भाग, नसरु पुत्र रहमान पुत्र गुलाब 15/62 भाग, अजीज पुत्र रहमान पुत्र गुलाब 1/93 भाग वासीदेह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	17//17/5/1	0.0025	ग्राम पंचायत
			व्यक्तिगत	कृषि	17//17/5/2	0.0329	सुलेमान, रज्जाक पुत्रान मौजी पुत्र निवाज खान हर दो समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	17//18/1/1	0.0379	नजीर, बशीर, नूर अहमद पुत्रान भूरे खान पुत्र मेद खा समभाग साकन देह
			व्यक्तिगत	कृषि	17//18/1/2	0.0379	नजीर, बशीर, नूर अहमद पुत्रान भूरे खान पुत्र मेद खा समभाग साकन देह
			व्यक्तिगत	कृषि	17//18/2/2	0.0076	नजीर, बशीर, नूर अहमद पुत्रान भूरे खान पुत्र मेद खा समभाग साकन देह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			व्यक्तिगत	कृषि	17//19/2	0.0051	बशीर अहमद पुत्र भूरे खान पुत्र मदरूप 1/3 भाग, नजीर, बशीर, नूर अहमद पुत्रान भूरे खान पुत्र मेद खान हर तीन समभाग 1/3 भाग, मजीद, बहीद, शाहिद, शाहून पुत्रान पहल खान पुत्र मैद खान हर चार समभाग 1/6 भाग, महमूदा पुत्र नूर खान पुत्र मैद खान 1/6 भाग, सुलेमान, अली मौहम्मद, जुम्मे खान पुत्रान नदर पुत्र केहर हर तीन समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	17//21	0.1745	पलटू पुत्र शादी पुत्र बख्तावर वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	17//22	0.3693	बशीर अहमद पुत्र भूरे खान पुत्र मदरूप 1/3 भाग, नजीर, बशीर, नूर अहमद पुत्रान भूरे खान पुत्र मेद खान हर तीन समभाग 1/3 भाग, मजीद, बहीद, शाहिद, शाहून पुत्रान पहल खान पुत्र मैद खान हर चार समभाग 1/6 भाग, महमूदा पुत्र नूर खान पुत्र मैद खान 1/6 भाग, सुलेमान, अली मौहम्मद, जुम्मे खान पुत्रान नदर पुत्र केहर हर तीन समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	17//23/1	0.1416	मकसूद पुत्र बम्बू पुत्र मौजम 1/3 भाग, आशू, फत्तू पुत्रान पलटू हर दो समभाग 2/3 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	17//23/2	0.0278	मकसूद पुत्र बम्बू पुत्र मौजम 1/3 भाग, आशू, फत्तू पुत्रान पलटू हर दो समभाग 2/3 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	17//23/3	0.1037	मकसूद पुत्र बम्बू पुत्र मौजम 1/3 भाग, आशू, फत्तू पुत्रान पलटू हर दो समभाग 2/3 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	17//24/1/1	0.1088	बशीर अहमद पुत्र भूरे खान पुत्र मदरूप 1/3 भाग, नजीर, बशीर, नूर अहमद पुत्रान भूरे खान पुत्र मेद खान हर तीन समभाग 1/3 भाग, मजीद, बहीद, शाहिद, शाहून पुत्रान पहल खान पुत्र मैद खान हर चार समभाग 1/6 भाग, महमूदा पुत्र नूर खान पुत्र मैद खान 1/6 भाग, सुलेमान, अली मौहम्मद, जुम्मे खान पुत्रान नदर पुत्र केहर हर तीन समभाग वासीदेह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	17//24/2	0.0556	ग्राम पंचायत
			व्यक्तिगत	कृषि	17//25/1/1	0.0076	हमीदा, मज्जी, उमरदीन, निसार, अरबदीन पुत्रान हबीब पुत्र महताब हर पाँच समभाग 1/3 भाग, सत्तर, मुबीन पुत्रान फतेह मौहम्मद पुत्र महताब हर दो समभाग 1/3 भाग, अय्यूब पुत्र महताब पुत्र केहर 1/3 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	17//25/1/2	0.0253	हबीब, अय्यूब पुत्रान मेहत खान 2/3 भाग व मेहत खान पुत्र सलारु फतेह मौहम्मद 1/3 भाग

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			ग्राम पंचायत	अकृषि	17//25/2	0.0076	ग्राम पंचायत
			व्यक्तिगत	कृषि	18//17	0.0025	अय्यूब, फतेह मौहम्मद, इलियास, अली मौहम्मद, महबूब पुत्रान ईसाब पुत्र मेहताब खान हर पाँच समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	18//18	0.0101	नजीर, रनमल पुत्र निबाज खान वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	18//19/3	0.0025	नजीर, बसीर, नूर अहमद पुत्रान भूरे खान पुत्र मेद खान हर समभाग शामलात देह
			व्यक्तिगत	कृषि	18//20/1	0.0734	नजीर पुत्र रनमल पुत्र निबाज खान 1/2 भाग, शहाबुदीन, निजामुदीन पुत्रान लजीर पुत्र रनमल हर दो समभाग 1/2 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	18//20/2	0.0860	नजीर पुत्र रनमल पुत्र निबाज खान 1/2 भाग, शहाबुदीन, निजामुदीन पुत्रान लजीर पुत्र रनमल हर दो समभाग 1/2 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	18//21/1	0.0152	अशरफ, दिलावर, शकरुला पुत्रान जबर खान पुत्र सुल्हड हर तीन समभाग वासीदेह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	18//21/2	0.0051	ग्राम पंचायत
			व्यक्तिगत	कृषि	18//23/1/1	0.0051	टेकचन्द, रामचन्द पुत्रान रामजीलाल पुत्र पोखरदास हर दो समभाग वासी खेडला
			व्यक्तिगत	कृषि	18//24	0.0051	अय्यूब, फतेह मौहम्मद, इलियास मौहम्मद, अली मौहम्मद, महबूब पुत्रान ईसाब पुत्र मेहताब खान हर पाँच समभाग, राहीनान ईसाब पुत्र मेहताब खान पुत्र पीरबख्श वासीदेह मुरतहनवासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	18//25	0.0025	लियाकत, अली मौहम्मद, मोबीन, सहाबीन पुत्रान लल्लू हर चार समभाग 1/6 भाग, बदलू, अस्सू पुत्रान नसीब खान हर दो समभाग 1/3 भाग, जुम्मा, यकूब पुत्रान अजीम खान पुत्र मगल हर दो समभाग 1/2 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	19//23/1	0.0126	अशरफ, दिलावर, शकरुला पुत्रान जबर खान पुत्र सुल्हड हर तीन समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	19//23/2	0.0025	मौहम्मद खान पुत्र झगड पुत्र बशल खान वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	19//23/3	0.0101	गणेश राम पुत्र खिलन्दा राम पुत्र बिशन राम रहिन वासीदेह, रामकिशन, गोविन्द राम पुत्रान जीवन दास पुत्र धन्नूराम हर दो समभाग वासी सोहना मुरतहनन
			व्यक्तिगत	कृषि	19//25/1	0.0126	कसम, फजरु पुत्रान मोहर सिंह पुत्र काला हर दो समभाग 1/3 भाग, जावेद, मुस्ती खान, शाहरुख खान पुत्रान हसम पुत्र मोहर सिंह हर तीन समभाग 1/6 भाग वासीदेह, जबरुदीन, हनीफ, ए0 मजीद पुत्रान सुबरती पुत्र छोटा हर तीन समभाग 1/2 भाग वासी किन्जर जिला अलवर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			ग्राम पंचायत	अकृषि	19//25/2	0.0683	पंचायत देह
			व्यक्तिगत	कृषि	21//10/2/1	0.0152	सत्तार, फजरुद्दीन पुत्रान सईद पुत्र अब्दुल हर दो समभाग 1/10 भाग, इसरु, तारीफ, सलीम पुत्रान युनूस पुत्र अब्दुल हर तीन समभाग 1/10 भाग, अताउल्ला, फारुख, रफीक पुत्रान ईसमाईल पुत्र अब्दुल हर तीन समभाग 1/10 भाग, बशीर पुत्र अब्दुल पुत्र सुलले खान 1/10 भाग, अती मौहम्मद, कसमुद्दीन पुत्रान हजर खान पुत्र अब्दुल हर दो समभाग 1/10 भाग, समैया पुत्र चन्दमल पुत्र कुडिया 1/2 वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	22//1/2/1	0.0101	मौहम्मद खान पुत्र झग्गड पुत्र बशल खान वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	22//2/1	0.0152	मौहम्मद खान पुत्र झग्गड पुत्र बशल खान वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	22//3/1	0.0101	मौहम्मद खान पुत्र झग्गड पुत्र बशल खान वासीदेह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	22//5/2	0.0025	पंचायत देह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	22//5/3	0.0101	पंचायत देह वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	22//6/1	0.0278	मामला, छाब खान पुत्रान मौहम्मद खान पुत्र चन्द्र खान हर दो समभाग 1/2 भाग, कबर खान, जहाज खान पुत्रान मुरद हर दो समभाग 1/2 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	22//6/2	0.0076	सईद, ईस्माइल, यूनुस, बजीर पुत्रान अब्दुल पुत्र सूले खान हर चार समभाग 2/5 भाग, अती मौहम्मद, कसमदीन पुत्रान हजार खान पुत्र अब्दुल हर दो समभाग 1/10 भाग, समईया पुत्र चन्दमल पुत्र कुडिया 1/2 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	22//7/1/1	0.0405	दाऊद, दीन मौहम्मद पुत्रान छाब खान पुत्र मौहम्मद खान हर दो समभाग 1/4 भाग, आस मौहम्मद पुत्र मामला पुत्र मौहम्मद खान 1/4 भाग, कवर खान पुत्र जहाज खान पुत्र मुरद 1/2 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	24//1/2	0.2858	कमरुद्दीन पुत्र सरदार खान पुत्र सफेद खान वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	24//10	0.0405	कमरुद्दीन पुत्र सरदार खान पुत्र सफेद खान वासीदेह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	24//2/1/1	0.0455	ग्राम पंचायत
			व्यक्तिगत	कृषि	24//2/1/2	0.0531	कमरुद्दीन पुत्र सरदार खान पुत्र सफेद खान वासीदेह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	24//2/2/1	0.0228	ग्राम पंचायत

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			व्यक्तिगत	कृषि	24//2/2/2	0.0228	मकसूद पुत्र बम्बू पुत्र मौजम 1/3 भाग, आशू फत्तू पुत्रान पलटू हर दो समभाग 2/3 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	24//2/3	0.0126	कमरुदीन पुत्र सरदार खान पुत्र सफेद खान वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	24//3/1/1	0.0961	हबीब, फतेह मौहम्मद, अयूब पुत्रान मेहताब हर तीन समभाग वासीदेह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	24//4/1/1	0.0051	ग्राम पंचायत
			व्यक्तिगत	कृषि	25//12	0.0253	अमीर, अमीन, यूसुफ, ईशा पुत्रान नत्थू पुत्र मेद खान हर चार समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	25//13	0.0481	फज्जर, कमरुदीन, सिराजुदीन पुत्रान जगरूप पुत्र अनवर हर तीन समभाग 1/2 भाग, दीन मौहम्मद पुत्र मन्दरूप पुत्र अनवर 1/2 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	25//14/1	0.0582	जगरूप, मन्दरूप पुत्रान अनवर पुत्र मुलफत समभाग वासीयान देह
			व्यक्तिगत	कृषि	25//14/2	0.0734	रोजदार पुत्र इददू पुत्र स्वरूप खान 107/432 भाग, खरशीद पुत्र नबीब बख्श पुत्र सगूडा 107/648 भाग, अलीजान, अहमद जान, अब्दुल रज्जाक पुत्रान यूसुफ हर तीन समभाग 107/432 भाग, बल्लू आस मौहम्मद पुत्रान नसीब खान पुत्र मगली हर दो समभाग 13/54 भाग, युसूफ पुत्र उमेर खान पुत्र मौहम्मद 1/108 भाग, महमूदा पुत्र नूर खान 107/1296 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	25//15/1	0.0025	रोजदार पुत्र इददू पुत्र स्वरूप खान 107/432 भाग, खरशीद पुत्र नबीब बख्श पुत्र सगूडा 107/648 भाग, अलीजान, अहमद जान, अब्दुल रज्जाक पुत्रान यूसुफ हर तीन समभाग 107/432 भाग, बल्लू आस मौहम्मद पुत्रान नसीब खान पुत्र मगली हर दो समभाग 13/54 भाग, युसूफ पुत्र उमेर खान पुत्र मौहम्मद 1/108 भाग, महमूदा पुत्र नूर खान 107/1296 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	25//18/1	0.0329	अलीजान, अहमद जान, अब्दू रज्जाक पुत्रान युसूफ पुत्र कबूल खान हर तीन समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	25//18/2	0.0202	अमीर, अमीन, यूसुफ, ईशा पुत्रान नत्थू पुत्र मेद खान हर चार समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	25//19	0.0101	अमीर, अमीन, यूसुफ, ईशा पुत्रान नत्थू पुत्र मेद खान हर चार समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	25//20	0.0405	अमीर, अमीन, यूसुफ, ईशा पुत्रान नत्थू पुत्र मेद खान हर चार समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	25//21	0.0278	जुम्मा खान, खुरशीद पुत्रान नबीबख्श पुत्र सुगडा हर दो समभाग वासीदेह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			व्यक्तिगत	कृषि	25//22	0.0556	जुम्मा खान, खुरशीद पुत्रान नबीबरखा पुत्र सुगडा हर दो समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	25//4/2	0.0405	कमरुदीन पुत्र सरदार खान पुत्र सफेद खान वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	25//5/2	0.0734	कमरुदीन पुत्र सरदार खान पुत्र सफेद खान वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	25//6	0.0809	कमरुदीन पुत्र सरदार खान पुत्र सफेद खान वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	25//7/1	0.0354	फज्जर, कमरुदीन, सिराजुदीन पुत्रान जगरूप पुत्र अनवर हर तीन समभाग 1/2 भाग, दीन मौहम्मद पुत्र मन्दरूप पुत्र अनवर 1/2 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	25//7/2	0.0025	कमरुदीन पुत्र सरदार खान पुत्र सफेद खान वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	25//8/1	0.0253	इकबाल पुत्र मजीद पुत्र अतरु 1/2 भाग, हकमूदीन, दालक पुत्रान अमरु पुत्र सफेद खान हर दो समभाग 1/2 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	25//8/2	0.0329	मकसूद पुत्र बम्बू पुत्र मौजम वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	26//25	0.0228	जुम्मा खान, खुरशीद पुत्रान नबीबरखा पुत्र सुगडा हर दो समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	29//13/1	0.0025	निजरा, दीन मौहम्मद पुत्रान रहमान पुत्र खुदाबरखा हर दो समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	29//13/2	0.0481	अहमद, तय्यब हुसैन पुत्रान करीम खान पुत्र जोरावर हर दो समभाग 1/4 भाग, फतेह मौहम्मद, यासीन पुत्रान जोरावर पुत्र मखमूल हर दो समभाग 1/2 भाग, बसीर खान, ईशे खान, ईसाक मौहम्मद, जामील अहमद, खलील अहमद, अहमद जान, लखपत खान पुत्रान रहमान खान पुत्र जोरावर हर सात समभाग 1/4 भाग
			व्यक्तिगत	कृषि	29//14	0.0455	अहमद, तय्यब हुसैन पुत्रान करीम खान पुत्र जोरावर हर दो समभाग 1/4 भाग, फतेह मौहम्मद, यासीन पुत्रान जोरावर पुत्र मखमूल हर दो समभाग 1/2 भाग, बसीर खान, ईशे खान, ईसाक मौहम्मद, जामील अहमद, खलील अहमद, अहमद जान, लखपत खान पुत्रान रहमान खान पुत्र जोरावर हर सात समभाग 1/4 भाग
			व्यक्तिगत	कृषि	29//15	0.0202	अहमद, तय्यब हुसैन पुत्रान करीम खान पुत्र जोरावर हर दो समभाग 1/4 भाग, फतेह मौहम्मद, यासीन पुत्रान जोरावर पुत्र मखमूल हर दो समभाग 1/2 भाग, बसीर खान, ईशे खान, ईसाक मौहम्मद, जामील अहमद, खलील अहमद, अहमद जान, लखपत खान पुत्रान रहमान खान पुत्र जोरावर हर सात समभाग 1/4 भाग
			व्यक्तिगत	कृषि	29//17	0.0253	फजरुदीन पुत्र बगडू पुत्र ताज खान वासीदेह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			व्यक्तिगत	कृषि	29//18	0.0304	अहमद, तय्यब हुसैन पुत्रान करीम खान पुत्र जोरावर हर दो समभाग 1/4 भाग, फतेह मौहम्मद, यासीन पुत्रान जोरावर पुत्र मखमूल हर दो समभाग 1/2 भाग, बसीर खान, ईशे खान, ईसाक मौहम्मद, जामील अहमद, खलील अहमद, अहमद जान, लखपत खान पुत्रान रहमान खान पुत्र जोरावर हर सात समभाग 1/4 भाग
			व्यक्तिगत	कृषि	29//19/1	0.0329	निजरा, दीन मौहम्मद पुत्रान रहमान पुत्र खुदाबख्श हर दो समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	29//19/2	0.0202	इब्राहीम, दीनू, यूनस, वली मौहम्मद, मीनू जफीर हुसैन पुत्रान भोगडू पुत्र निजरु हर छः समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	29//21/2	0.0278	पलटू पुत्र शादी पुत्र बख्तावर वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	29//21/3	0.0202	पलटू पुत्र शादी पुत्र बख्तावर वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	29//22/1	0.0126	पलटू पुत्र शादी पुत्र बख्तावर वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	29//22/2	0.0202	इसराईल, सदीक पुत्रान मुरद पुत्र बदलू हर दो समभाग 1/3 भाग, शेर मौहम्मद, झगड पुत्रान बादल खान पुत्र साहत खान हर दो समभाग 2/3 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	29//23	0.0379	इसराईल, सदीक पुत्रान मुरद पुत्र बदलू हर दो समभाग 1/3 भाग, शेर मौहम्मद, झगड पुत्रान बादल खान पुत्र साहत खान हर दो समभाग 2/3 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	29//4/2	0.0304	इदरीश, इब्राहीम, सत्तर, उसमान, असगर पुत्रान निबाज खान पुत्र सुगडा हर पौंच समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	29//5	0.0405	इदरीश, इब्राहीम, सत्तर, उसमान, असगर पुत्रान निबाज खान पुत्र सुगडा हर पौंच समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	29//6	0.0582	इदरीश, इब्राहीम, सत्तर, उसमान, असगर पुत्रान निबाज खान पुत्र सुगडा हर पौंच समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	29//7/1	0.0051	इदरीश, इब्राहीम, सत्तर, उसमान, असगर पुत्रान निबाज खान पुत्र सुगडा हर पौंच समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	29//7/2	0.0430	जाकर, साहून, जाहीद पुत्रान दाऊद खान पुत्र उमेर खान हर तीन समभाग 1/27 भाग, जान मौहम्मद, हसन मौहम्मद पुत्रान उमेर खान पुत्र पीर खान हर दो समभाग 2/27 भाग, वसीखान, ईसाक, जामील, खलील अहमद, अहमद जान, लखपत खान पुत्रान अब्दुल रहमान पुत्र जोरावर हर छः समभाग 2/9 भाग, साहबुदीन, नवाबदीन, जैकम पुत्रान कमरुदीन पुत्र जुम्मा बख्श हर तीन समभाग 1/3 भाग, सादीक पुत्र करीम बख्श पुत्र भोन्दू 1/9 भाग, खुरशीद पुत्र नबी बख्श पुत्र सुगडा 1/9 भाग, फतेह मौहम्मद पुत्र जोरावर पुत्र मखमूल 1/9 भाग वासीदेह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			व्यक्तिगत	कृषि	29//8	0.0076	जाकर, साहू, जाहीद पुत्रान दाऊद खान पुत्र उमेर खान हर तीन समभाग 1/27 भाग, जान मौहम्मद, हसन मौहम्मद पुत्रान उमेर खान पुत्र पीर खान हर दो समभाग 2/27 भाग, वसीखान, ईसाक, जामील, खलील अहमद, अहमद जान, लखपत खान पुत्रान अब्दुल रहमान पुत्र जोरावर हर छः समभाग 2/9 भाग, साहबुदीन, नवाबदीन, जैकम पुत्रान कमरुद्दीन पुत्र जुम्मा बख्श हर तीन समभाग 1/3 भाग, सादीक पुत्र करीम बख्श पुत्र भोन्दू 1/9 भाग, खुरशीद पुत्र नबी बख्श पुत्र सुगडा 1/9 भाग, फतेह मौहम्मद पुत्र जोरावर पुत्र मखमूल 1/9 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	30//1/1	0.0632	मौहम्मद इकबाल पुत्र कबीर अहमद पुत्र यकूब खान वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	30//10/1/2	0.0076	सुल्लेखान, सुमरत पुत्रान कल्लू पुत्र अजीम हर दो समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	38//1/1	0.0051	इदरीश, रहमत, रज्जाक पुत्रान नौरंग हर तीन समभाग 1/3 भाग, राशीद, दाऊद, असगर पुत्रान उजागर पुत्र नूर खान हर तीन समभाग, उसमान, जान मौहम्मद, जाहीर, सिराजुद्दीन पुत्रान सुरजन पुत्र नूर खान हर चार समभाग 1/3 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	38//1/2	0.0152	पलटू पुत्र शादी पुत्र बख्तावर वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	38//1/3	0.0101	इसराईल, सदीक पुत्रान मुरद पुत्र बदलू हर दो समभाग 1/3 भाग, शेर मौहम्मद, झगड पुत्रान बादल खान पुत्र साहत खान हर दो समभाग 2/3 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	38//10/1	0.0202	इसराईल, सदीक पुत्रान मुरद पुत्र बदलू हर दो समभाग 1/3 भाग, शेर मौहम्मद, झगड पुत्रान बादल खान पुत्र साहत खान हर दो समभाग 2/3 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	38//10/2	0.0228	पलटू पुत्र शादी पुत्र बख्तावर वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	38//11/1	0.0101	पलटू पुत्र शादी पुत्र बख्तावर वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	38//2	0.0430	इसराईल, सदीक पुत्रान मुरद पुत्र बदलू हर दो समभाग 1/3 भाग, शेर मौहम्मद, झगड पुत्रान बादल खान पुत्र साहत खान हर दो समभाग 2/3 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	39//5	0.0354	इदरीश, रहमत, रज्जाक पुत्रान नौरंग हर तीन समभाग 1/3 भाग, राशीद, दाऊद, असगर पुत्रान उजागर पुत्र नूर खान हर तीन समभाग, उसमान, जान मौहम्मद, जाहीर, सिराजुद्दीन पुत्रान सुरजन पुत्र नूर खान हर चार समभाग 1/3 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	39//6/1	0.0025	पलटू पुत्र शादी पुत्र बख्तावर वासीदेह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	39//6/2	0.0354	पंचायत देह
			व्यक्तिगत	कृषि	39//6/3	0.0126	पलटू पुत्र शादी पुत्र बख्तावर वासीदेह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			ग्राम पंचायत	अकृषि	60	0.0683	पंचायत देह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	64	0.0126	पंचायत देह वासीदेह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	65/2	0.0126	पंचायत देह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	69	0.0152	पंचायत देह वासीदेह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	N-54	0.0126	पंचायत देह वासीदेह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	55	0.0228	पंचायत देह वासीदेह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	R-482	0.0278	पंचायत देह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	R-504	0.0025	पंचायत देह
		(14) सहसोल पाटुका	व्यक्तिगत	कृषि	103//1	0.0734	आफताब पुत्र खुशीद अहमद पुत्र कबीर अहमद वासी खानपुर
			व्यक्तिगत	कृषि	103//10/1	0.0304	आफताब पुत्र खुशीद अहमद पुत्र कबीर अहमद वासी खानपुर
			व्यक्तिगत	कृषि	103//13/1/1	0.0126	खातुला पुत्र चन्दमल पुत्र जयमल रहन हिस्सा 1/2 भाग, श्रीमती मरयम पत्नी शादी खान पुत्र मौहम्मदीन, मुबीन, सराजुदीन, ताज मौहम्मद, आजाद पुत्रान अब्दुल करीम पुत्र हरना हर पाँच समभाग 5/21 भाग, सकील, लियाकत पुत्रान नसरु पुत्र अब्दुल हर दो समभाग 1/21 भाग, नसीम पुत्र सहाबुदीन पुत्र अब्दुल मजीद 1/21 भाग, इमरान, साजीद पुत्रान अब्दुल सकूर पुत्र हरना हर दो समभाग 1/3 भाग, शादी खान पुत्र काटूला पुत्र चन्दमल 1/3 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	103//13/3/1	0.0126	खातुला पुत्र चन्दमल पुत्र जयमल रहन हिस्सा 1/2 भाग, श्रीमती मरयम पत्नी शादी खान पुत्र मौहम्मदीन, मुबीन, सराजुदीन, ताज मौहम्मद, आजाद पुत्रान अब्दुल करीम पुत्र हरना हर पाँच समभाग 5/21 भाग, सकील, लियाकत पुत्रान नसरु पुत्र अब्दुल हर दो समभाग 1/21 भाग, नसीम पुत्र सहाबुदीन पुत्र अब्दुल मजीद 1/21 भाग, इमरान, साजीद पुत्रान अब्दुल सकूर पुत्र हरना हर दो समभाग 1/3 भाग, शादी खान पुत्र काटूला पुत्र चन्दमल 1/3 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	103//14/1	0.0708	कुतुबुदीन पुत्र छाजू उर्फ खुशीद अहमद पुत्र फिरोज खान वासी धोज, बल्लभगढ
			व्यक्तिगत	कृषि	103//15/1	0.0582	कुतुबुदीन पुत्र छाजू उर्फ खुशीद अहमद पुत्र फिरोज खान वासी धोज, बल्लभगढ

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			व्यक्तिगत	कृषि	103//15/2	0.0076	इलियास, दीन मौहम्मद, आस मौहम्मद पुत्रान हमीदा पुत्र ख्वाजा बख्श समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	103//2/1	0.0885	आफताब पुत्र खुशीद अहमद पुत्र कबीर अहमद वासी खानपुर
			व्यक्तिगत	कृषि	103//2/2	0.0126	आफताब पुत्र खुशीद अहमद पुत्र कबीर अहमद वासी खानपुर
			व्यक्तिगत	कृषि	103//3/1	0.0177	आफताब पुत्र खुशीद अहमद पुत्र कबीर अहमद वासी खानपुर
			व्यक्तिगत	कृषि	103//3/2	0.0759	राजेन्द्र कुमार पुत्र प्रभाती राम पुत्र सावलिया 1/30 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	103//4/2	0.1088	शादी खान पुत्र काटूला पुत्र चन्दमल वासी धूलावत
			व्यक्तिगत	कृषि	103//5/1	0.0177	आस मौहम्मद, असर खान पुत्रान मगल हर दो समभाग 1/2 भाग वासीदेह, उमरदीन पुत्र नसीब खान पुत्र हरि सिंह 1/2 भाग वासी धूलावत
			व्यक्तिगत	कृषि	103//5/2	0.0152	इमरान, साजीद पुत्रान अब्दुल साकूर पुत्र हिरना हर दो समभाग 1/3 भाग, मौहम्मद दीन, मुबीन, सराजूदीन, ताज मौहम्मद, आजाद पुत्रान अब्दुल मजीद पुत्र हिरना हर पौंच समभाग 5/21 भाग, सकील, लियाकत पुत्रान नसरु पुत्र अब्दुल मजीद हर दो समभाग 1/21 भाग, सानीम पुत्र सहाबुदीन पुत्र अब्दुल मजीद 1/21 भाग, शादीखान पुत्र काटूला पुत्र चौदमल 1/3 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	103//5/3	0.0177	मौहम्मद ईसाक पुत्र कवल खान पुत्र इसराइल वासी धूलावत
			व्यक्तिगत	कृषि	103//6	0.0809	मौहम्मद ईसाक पुत्र कवल खान पुत्र इसराइल वासी धूलावत
			व्यक्तिगत	कृषि	103//7/1	0.0076	शादी पुत्र काटूला पुत्र चन्दमल 1/2 भाग, शमीखा पुत्र स्वरूप खान पुत्र शकरु 1/2 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	103//8/3	0.0126	काटूला पुत्र चन्दमल पुत्र जयमल 1/2 भाग वासीदेह, श्रीमती मरयम पत्नि शादीराम पुत्र काटूला 1/2 भाग वासी धूलावत
			व्यक्तिगत	कृषि	103//8/4	0.0177	शादी खान पुत्र काटूला पुत्र चन्दमल वासी धूलावत
			व्यक्तिगत	कृषि	103//9/1	0.0202	आफताब पुत्र खुशीद अहमद पुत्र कबीर अहमद वासी खानपुर
			व्यक्तिगत	कृषि	103//9/2	0.0177	आफताब पुत्र खुशीद अहमद पुत्र कबीर अहमद वासी खानपुर
			व्यक्तिगत	कृषि	104//10	0.1391	इमरान, साजीद पुत्रान अब्दुल साकूर पुत्र हिरना हर दो समभाग 1/3 भाग, शादी खान पुत्र काटूला पुत्र चान्दमल 1/3 भाग, मौहम्मदीन, मुबीन, सराजूदीन, ताज मौहम्मद, आजाद पुत्रान अब्दुल मजीद पुत्र

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							हरना हर पॉच समभाग 5/21 भाग, सकील, लियाकत पुत्रान नसरु पुत्र अब्दुल मजदी हर दो समभाग 1/21 भाग, सनीम पुत्र सहाबुदीन पुत्र अब्दुल मजीद 1/21 भाग, साहीदा, हमीदा, सरीफ खान पुत्रान रसुल खान पुत्र निवाज खान हर तीन समभाग 1/2 भाग, महबूब, कय्यूम, सहाबीर, तैय्यब, हाकम पुत्रान कालू पुत्र सरदार हर पॉच समभाग 1/10 भाग, याकूब, सददीक पुत्रान सरदार हर दो समभाग 1/3 भाग, आलम, मजीद, जयमल पुत्रान अहमद खान पुत्र सरदार हर तीन समभाग 1/10 भाग, असगर, रफीक पुत्रान बशीर हर दो समभाग 1/15 भाग, जान मौहम्मद पुत्र बशीर 1/30 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	104//11	0.0658	इमरान, साजीद पुत्रान अब्दुल साकूर पुत्र हिरना हर दो समभाग 1/3 भाग, शादी खान पुत्र काटूला पुत्र चान्दमल 1/3 भाग, मौहम्मदीन, मुबीन, सराजूदीन, ताज मौहम्मद, आजाद पुत्रान अब्दुल मजीद पुत्र हरना हर पॉच समभाग 5/21 भाग, सकील, लियाकत पुत्रान नसरु पुत्र अब्दुल मजदी हर दो समभाग 1/21 भाग, सनीम पुत्र सहाबुदीन पुत्र अब्दुल मजीद 1/21 भाग, साहीदा, हमीदा, सरीफ खान पुत्रान रसुल खान पुत्र निवाज खान हर तीन समभाग 1/2 भाग, महबूब, कय्यूम, सहाबीर, तैय्यब, हाकम पुत्रान कालू पुत्र सरदार हर पॉच समभाग 1/10 भाग, याकूब, सददीक पुत्रान सरदार हर दो समभाग 1/3 भाग, आलम, मजीद, जयमल पुत्रान अहमद खान पुत्र सरदार हर तीन समभाग 1/10 भाग, असगर, रफीक पुत्रान बशीर हर दो समभाग 1/15 भाग, जान मौहम्मद पुत्र बशीर 1/30 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	104//12	0.0076	इमरान, साजीद पुत्रान अब्दुल साकूर पुत्र हिरना हर दो समभाग 1/3 भाग, शादी खान पुत्र काटूला पुत्र चान्दमल 1/3 भाग, मौहम्मदीन, मुबीन, सराजूदीन, ताज मौहम्मद, आजाद पुत्रान अब्दुल मजीद पुत्र हरना हर पॉच समभाग 5/21 भाग, सकील, लियाकत पुत्रान नसरु पुत्र अब्दुल मजदी हर दो समभाग 1/21 भाग, सनीम पुत्र सहाबुदीन पुत्र अब्दुल मजीद 1/21 भाग, साहीदा, हमीदा, सरीफ खान पुत्रान रसुल खान पुत्र निवाज खान हर तीन समभाग 1/2 भाग, महबूब, कय्यूम, सहाबीर, तैय्यब, हाकम पुत्रान कालू पुत्र

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							सरदार हर पॉच समभाग 1/10 भाग, याकूब, सददीक पुत्रान सरदार हर दो समभाग 1/3 भाग, आलम, मजीद, जयमल पुत्रान अहमद खान पुत्र सरदार हर तीन समभाग 1/10 भाग, असगर, रफीक पुत्रान बशीर हर दो समभाग 1/15 भाग, जान मौहम्मद पुत्र बशीर 1/30 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	104//15	0.0379	नूर मौहम्मद पुत्र अलबख्श पुत्र दलपत वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	104//6	0.0405	मौहम्मद खान, ईस्माइल, अहमद खान, नजर खान पुत्रान बदलू पुत्र करीम खान हर चार समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	104//7	0.0759	मौहम्मद खान, ईस्माइल, अहमद खान, नजर खान पुत्रान बदलू पुत्र करीम खान हर चार समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	104//8	0.1163	शाहिद, राशिद, नवाबदीन, इम्मूदीन, इकरामूदीन पुत्रान इस्माइल हर पॉच समभाग 20/111 भाग, सरीफ खान पुत्र हुस खान पुत्र चन्दू 71/444 भाग, उन्नस पुत्र रोशन पुत्र चन्दू 71/444 भाग, शौएब, सौराब, सरजीत पुत्रान नूर मौहम्मद पुत्र खुदाबख्श हर तीन समभाग 1/4 भाग, मुबीन, हकमूदीन, रहमूदीन, जमशेद पुत्रान छुट्टल पुत्र खुदाबख्श हर चार समभाग 1/4 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	104//9	0.1467	शाहिद, राशिद, नवाबदीन, इम्मूदीन, इकरामूदीन पुत्रान इस्माइल हर पॉच समभाग 20/111 भाग, सरीफ खान पुत्र हुस खान पुत्र चन्दू 71/444 भाग, उन्नस पुत्र रोशन पुत्र चन्दू 71/444 भाग, शौएब, सौराब, सरजीत पुत्रान नूर मौहम्मद पुत्र खुदाबख्श हर तीन समभाग 1/4 भाग, मुबीन, हकमूदीन, रहमूदीन, जमशेद पुत्रान छुट्टल पुत्र खुदाबख्श हर चार समभाग 1/4 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	105//11	0.0784	छाब खान पुत्र हयत पुत्र दलपत 1/2 भाग, जान मौहम्मद पुत्र बशीर पुत्र सरदार खान 1/2 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	105//12	0.0658	फजरू, नूर मौहम्मद पुत्रान दुल्ले खान पुत्र नवल खान हर दो समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	105//13	0.0354	फजरू, नूर मौहम्मद पुत्रान दुल्ले खान पुत्र नवल खान हर दो समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	105//14	0.0051	ईसान खान पुत्र विलायत उर्फ रोबड़ पुत्र हजारी वासीदेह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	105//16/1	0.0051	ग्राम पंचायत
			व्यक्तिगत	कृषि	105//17/1/1	0.0101	ईसान खान पुत्र विलायत उर्फ रोबड़ पुत्र हजारी वासीदेह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			व्यक्तिगत	कृषि	105//19/1	0.0126	फजरु, नूर मौहम्मद पुत्रान दुल्ले खान पुत्र नवल खान हर दो समभाग वासीदेह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	105//19/2	0.0025	ग्राम पंचायत
			व्यक्तिगत	कृषि	105//20	0.0025	अब्दुल, ईस्सा, हबीब, अजीत पुत्रान साहाबदीन पुत्र अल्लाबख्शा हर चार समभाग वासीदेह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	105//22/1	0.0076	ग्राम पंचायत
			व्यक्तिगत	कृषि	105//24	0.0177	लल्लू, हसम पुत्रान रहमान पुत्र मामला हर दो समभाग 1/3 भाग, दीनू नवल खान पुत्रान मामला हर दो समभाग 1/3 भाग, अय्यूब पुत्र रमजान पुत्र नवल खान 1/3 भाग
			व्यक्तिगत	कृषि	106//21	0.0304	अकबर, हारुन, कायूम, मुबीन पुत्रान ईस्माइल हर चार समभाग 1/10 भाग, नजीर, जैकम, खुशीद, साहब खान पुत्रान हूस खान पुत्र स्वरूप खान हर चार समभाग 2/5 भाग, शम्मी खान पुत्र स्वरूप खान पुत्र शुकर खान 1/2 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	106//22	0.0202	सुलेमान, सरदार पुत्रान पीर बख्शा पुत्र भप्पू हर दो समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	106//34	0.0051	हूस खान पुत्र स्वरूप खान पुत्र शकूर खान 11/20 भाग, शामी खान पुत्र स्वरूप खान पुत्र शकूर खान 1/4 भाग, हरिचन्द आदि मुनेदरजा खेवट नं० 1/10 भाग, श्रीमती सफेदी पत्नि बशीर अहमद पुत्र नवल खान 1/10 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	115//11/1	0.1265	माल मौहम्मद, दीन मौहम्मद, मौहम्मद हुसैन पुत्रान महताब पुत्र नवल खान हर तीन समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	115//11/2	0.0304	मौहम्मद हुसैन, माल मौहम्मद, दीन मौहम्मद पुत्रान महताब पुत्र नवल खान हर तीन समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	115//11/3	0.0101	माल मौहम्मद, दीन मौहम्मद, मौहम्मद हुसैन पुत्रान महताब पुत्र नवल खान हर तीन समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	115//18/3/1	0.0126	मामरेज पुत्र सफेद खान पुत्र खवाजू 1/2 भाग, फजरु, नूर मौहम्मद पुत्रान दुल्ले खान पुत्र नवल खान हर दो समभाग 1/2 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	115//19/2	0.2226	श्रीमती रहमती पत्नि जान मौहम्मद पुत्र अली मौहम्मद 1/2 भाग, इदरीश पुत्र आसीन पुत्र सली खान 1/2 खान वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	115//20/1	0.2150	हारुन, कायूम, मुबीन पुत्रान इस्माइल पुत्र हूस खान हर तीन समभाग बिला रहन हिस्सा 3/40 भाग, अर्जन पुत्र सिरदर पुत्र मौज खान बिला रहन हिस्सा 1/10 भाग,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							आस मौहम्मद, हनीफ, साहिदा पुत्रान सुरजमल पुत्र फूल खान हर तीन समभाग रहन हिस्सा 3/10 भाग बिला रहन हिस्सा 1/40 भाग, सरजीत पुत्र गफूरा 3/40 भाग मुरतहन, सामी खान पुत्र स्वरूप खान साकूर खान 1/2 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	115//20/2	0.0076	अर्जुन पुत्र सिरदर पुत्र मौज खान वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	115//21/1	0.0126	हारुन, कयूम, मुबीन पुत्रान इस्राइल पुत्र हूस खान हर तीन समभाग बिला रहन हिस्सा 3/40 भाग, अर्जन पुत्र सिरदर पुत्र मौज खान बिला रहन हिस्सा 1/10 भाग, आस मौहम्मद, हनीफ, साहिदा पुत्रान सुरजमल पुत्र फूल खान हर तीन समभाग रहन हिस्सा 3/10 भाग बिला रहन हिस्सा 1/40 भाग, सरजीत पुत्र गफूरा 3/40 भाग मुरतहन, सामी खान पुत्र स्वरूप खान साकूर खान 1/2 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	115//22/1	0.2378	हारुन, कयूम, मुबीन पुत्रान इस्राइल पुत्र हूस खान हर तीन समभाग बिला रहन हिस्सा 3/40 भाग, अर्जन पुत्र सिरदर पुत्र मौज खान बिला रहन हिस्सा 1/10 भाग, आस मौहम्मद, हनीफ, साहिदा पुत्रान सुरजमल पुत्र फूल खान हर तीन समभाग रहन हिस्सा 3/10 भाग बिला रहन हिस्सा 1/40 भाग, सरजीत पुत्र गफूरा 3/40 भाग मुरतहन, सामी खान पुत्र स्वरूप खान साकूर खान 1/2 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	115//22/2/2	0.0506	श्रीमती नारायणी देवी विधवा चरण लाल वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	115//23/1/2	0.0101	मामरेज पुत्र सफेद खान पुत्र खवाजू 1/2 भाग, फजरु, नूर मौहम्मद पुत्रान दुल्ले खान पुत्र नवल खान हर दो समभाग 1/2 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	115//23/2	0.0354	फजरु, नूर मौहम्मद पुत्रान दुल्ले खान पुत्र नवल खान हर दो समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	115//23/3	0.0809	फजरु, नूर मौहम्मद पुत्रान दुल्ले खान पुत्र नवल खान हर दो समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	115//23/4	0.0177	फजरु, नूर मौहम्मद पुत्रान दुल्ले खान पुत्र नवल खान हर दो समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	115//23/5	0.1568	दुल्ले खान पुत्र नवल खान पुत्र मूरखान वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	115//24/4	0.0784	जगदीश कुमार, कृष्ण कुमार पुत्रान आत्मा प्रकाश पुत्र जोधा राम हर दो समभाग रहन हिस्सा 3/16 भाग, वासदेव पुत्र जोधा राम रहन हिस्सा 3/16 भाग, श्रीमती चन्ती बाई पुत्री व श्रीमती प्रमेश्वरी देवी विधवा जोधा राम हर दो समभाग रहन हिस्सा 3/8 भाग, गौतम कुमार पुत्र व ज्ञान देवी, चन्दकान्ता, अनीता देवी, कृष्णा देवी, आशा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							देवी पुत्रियां नयायत राम पुत्र जोधा राम हर छः समभाग रहन हिस्सा 3/14 भाग, श्रीमती निर्मला विधवा व सुमन बाला पुत्री नारायण दास पुत्र नयायत राम हर दो समभाग रहन हिस्सा 1/28 भाग, फते मौहम्मद, इलियास, हनीफ पुत्रान सल्ली खान हर चार समभाग 20/21 भाग वासीदेह मुरतहन
			व्यक्तिगत	कृषि	116//1/1	0.0076	इलियास, दीन मौहम्मद, आस मौहम्मद पुत्रान हमीदा पुत्र ख्वाजा बख्श समभाग हर तीन समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	116//1/2	0.0481	इलियास, दीन मौहम्मद, आस मौहम्मद पुत्रान हमीदा पुत्र ख्वाजा बख्श समभाग हर तीन समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	116//10/1	0.1062	श्रीमती सतरबी पत्नि हमीदा पुत्र ख्वाज बख्श वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	116//12/2	0.0304	श्रीमती सतरबी पत्नि हमीदा पुत्र ख्वाज बख्श वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	116//13	0.1113	श्रीमती सतरबी पत्नि हमीदा पुत्र ख्वाज बख्श वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	116//15	0.1644	ईसब, अर्जन, छोटे खान, दौलत, चकमल, हसू पुत्रान सरदार पुत्र मौज खान हर छः समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	116//16	0.0025	ईसब, अर्जन, छोटे खान, दौलत, चकमल, हसू पुत्रान सरदार पुत्र मौज खान हर छः समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	116//17/1	0.0025	ईसब, अर्जन, छोटे खान, दौलत, चकमल, हसू पुत्रान सरदार पुत्र मौज खान हर छः समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	116//17/2/1	0.0152	ईसब, अर्जन, छोटे खान, दौलत, चकमल, हसू पुत्रान सरदार पुत्र मौज खान हर छः समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	116//17/4/1	0.0152	इलियास, आस माहम्मद, दीन मौहम्मद पुत्रान हमीदा पुत्र ख्वाजा बख्श समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	116//2	0.0101	इलियास, दीन मौहम्मद, आस मौहम्मद पुत्रान हमीदा पुत्र ख्वाजा बख्श समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	116//25/1	0.0202	ईसब, अर्जन, छोटे खान, दौलत, चकमल, हसू पुत्रान सरदार पुत्र मौज खान हर छः समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	116//27	0.0177	ईसब, अर्जन, छोटे खान, दौलत, चकमल, हसू पुत्रान सरदार पुत्र मौज खान हर छः समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	116//28	0.0101	ईसब, अर्जन, छोटे खान, दौलत, चकमल, हसू पुत्रान सरदार पुत्र मौज खान हर छः समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	116//3/2	0.0304	इलियास, दान मौहम्मद, आस मौहम्मद पुत्रान हमीदा पुत्र ख्वाजा बख्श हर तीन समभाग वासीदेह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			व्यक्तिगत	कृषि	116//4	0.0025	सुलेमान, सरदार पुत्रान पीर बख्श पुत्र भप्पू हर दो समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	116//6	0.0708	ईसब, अर्जन, छोटे खान, दौलत, चकमल, हस्नू पुत्रान सरदार पुत्र मौज खान हर छः समभाग 1/2 भाग, ईस्माइल पुत्र बदलू पुत्र करीम खान 1/4 भाग, अहमद खान पुत्र बदलू पुत्र करीम खान 1/4 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	116//7/1	0.0152	सुलेमान, सरदार पुत्रान पीर बख्श पुत्र भप्पू हर दो समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	116//7/2	0.0051	सुलेमान, सरदार पुत्रान पीर बख्श पुत्र भप्पू हर दो समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	116//7/3	0.0076	इलियास, आस मौहम्मद, दीन मौहम्मद, अब्दुल गफूर पुत्रान हमीदा पुत्र ख्वाज बख्श हर चार समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	116//9	0.1492	सुलेमान, सरदार पुत्रान पीर बख्श पुत्र भप्पू हर दो समभाग वासीदेह, चकमल, हस्नू पुत्रान सरदार पुत्र मौज खान हर छः समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	117//4	0.0101	साहिदा, हमीदा, सरीफ खान पुत्रान रसूल खान पुत्र निवाज खान हर तीन समभाग 1/2 भाग, याकूब, सददीक पुत्रान सरदार हर दो समभाग 1/5 भाग, आलम, माजीद, जयमल पुत्रान अहमद खान पुत्र सरदार हर तीन समभाग 1/10 भाग, महबूब, कय्यूम, सब्बीर, तैयब, हाकम पुत्रान कालू पुत्र सरदार हर पाँच समभाग 1/10 भाग, जान मौहम्मद, असगर, रफीक पुत्रान कबीर अहमद हर तीन समभाग 1/10 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	117//5/1	0.0354	छाव खान, समय सिंह पुत्रान हयात खान पुत्र दलपत हर दो समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	117//5/2	0.0759	ओढोदास पुत्र खिल्लू राम पुत्र पुतरू राम रहिन, फतेह मौहम्मद, उमर मौहम्मद पुत्रान बशीर अहमद पुत्र नवल खान हर दो समभाग वासीदेह मुरतहन
			व्यक्तिगत	कृषि	126//1/3/1	0.0101	आत्मा प्रकाश पुत्र जोधा राम रहन हिस्सा 1/5 भाग, वासदेव पुत्र व परमेश्वरी बाई विधवा व श्रीमती चेतनी बाई पुत्री जोधा राम पुत्र गिरधारी राम हर तीन समभाग रहन हिस्सा 3/5 भाग, गौतम कुमार पुत्र व श्रीमती ज्ञान देवी, चन्द्रकान्ता पुत्रियां नयामतरम पुत्र जोधा राम हर तीन समभाग रहन हिस्सा 6/35 भाग, सुमन बाला पुत्री व श्रीमती निर्मला विधवा नारायण दास पुत्र नयामतरम हर दो समभाग रहन हिस्सा 1/35 भाग, संजय नन्दा पुत्र जोगिन्दर प्रकाश नन्द 1/2 भाग वासीदेह, श्रीमती बीनू नन्दा पत्नी संजय 1/2 भाग वासी बसन्त विहार नई दिल्ली

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			व्यक्तिगत	कृषि	126//2/1/1	0.1771	आत्मा प्रकाश पुत्र जोधा राम रहन हिस्सा 1/3 भाग, वासदेव पुत्र जोधा पुत्र गिरधारी राम रहन हिस्सा 1/3 भाग, गौतम कुमार पुत्र व श्रीमती ज्ञान देवी, चन्द्रकान्ता अनीता देवी पुत्रियां नयामतराम पुत्र जोधा हर चार समभाग रहन हिस्सा 6/21 भाग, सुमनबाला पुत्री व श्रीमती निर्मला विधवा नारायण दास पुत्र नयामतराम हर दो समभाग रहन हिस्सा 1/21 भाग, संजय नन्दा पुत्र जोगिन्दर लाल नन्दा 11/21 भाग वासीदेह, श्रीमती बीनू नन्दा पत्नी संजय नन्दा पुत्र जोगिन्दर लाल नन्दा 10/21 भाग वासी बसन्त विहार नई दिल्ली
			व्यक्तिगत	कृषि	126//3/2	0.3440	आत्मा प्रकाश पुत्र जोधा राम पुत्र गिरधारी राम रहन हिस्सा 1/3 भाग, वासदेव पुत्र जोधा राम पुत्र गिरधारी राम रहन हिस्सा 1/3 भाग, गौतम कुमार पुत्र व ज्ञान देवी, चन्द्रकान्ता, अनीता देवी, कृष्णा देवी, आशा देवी पुत्रिया नयामन्त राम पुत्र जोधाराम हर छः समभाग रहन हिस्सा 6/21 भाग, श्रीमती निर्मला विधवा व सुमन बाला पुत्री नारायण दास पुत्र नयामन्त राम हर दो समभाग रहन हिस्सा 1/21 भाग, बलदेव पुत्र जोधा राम पुत्र भवानी दास 1/21 भाग, बहादुर, फतेह मौहम्मद, इलियास, हनीफ पुत्रान साली खान पुत्र लाड खान हर चार समभाग 20/21 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	126//4	0.3946	आत्मा प्रकाश पुत्र जोधा राम पुत्र गिरधारी राम रहन हिस्सा 1/3 भाग, वासदेव पुत्र जोधा राम पुत्र गिरधारी राम रहन हिस्सा 1/3 भाग, गौतम कुमार पुत्र व ज्ञान देवी, चन्द्रकान्ता, अनीता देवी, कृष्णा देवी, आशा देवी पुत्रिया नयामन्त राम पुत्र जोधाराम हर छः समभाग रहन हिस्सा 6/21 भाग, श्रीमती निर्मला विधवा व सुमन बाला पुत्री नारायण दास पुत्र नयामन्त राम हर दो समभाग रहन हिस्सा 1/21 भाग, बलदेव पुत्र जोधा राम पुत्र भवानी दास 1/21 भाग, बहादुर, फतेह मौहम्मद, इलियास, हनीफ पुत्रान साली खान पुत्र लाड खान हर चार समभाग 20/21 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	126//5	0.1695	नसीब खान, दीन मौहम्मद, हसन मौहम्मद पुत्रान छाव खान पुत्र विलायत खान उर्फ रोबड़ हर तीन समभाग 1/2 भाग, यासीन पुत्र विलायत खान उर्फ रोबड़ पुत्र हजारी 1/2 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	126//6	0.0809	नसीब खान, दीन मौहम्मद, हसन मौहम्मद पुत्रान छाव खान पुत्र विलायत खान उर्फ रोबड़ हर तीन समभाग 1/2 भाग, यासीन पुत्र विलायत खान उर्फ रोबड़ पुत्र हजारी 1/2 भाग वासीदेह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			व्यक्तिगत	कृषि	126//7	0.2909	आत्मा प्रकाश पुत्र जोधा राम पुत्र गिरधारी राम रहन हिस्सा 1/3 भाग, वासदेव पुत्र जोधा राम पुत्र गिरधारी राम रहन हिस्सा 1/3 भाग, गौतम कुमार पुत्र व ज्ञान देवी, चन्द्रकान्ता, अनीता देवी, कृष्णा देवी, आशा देवी पुत्रियां नयामन्त राम पुत्र जोधाराम हर छः समभाग रहन हिस्सा 6/21 भाग, श्रीमती निर्मला विधवा व सुमन बाला पुत्री नारायण दास पुत्र नयामन्त राम हर दो समभाग रहन हिस्सा 1/21 भाग, मौहम्मद खान, ईस्माइल, अहमद खान, नीजर खान पुत्रान बदलू पुत्र करीम खान हर चार समभाग 1/3 भाग, सुरेश कुमार पुत्र वासदेव पुत्र जोधा राम 1/3 भाग, नसीब खान, दीन मौहम्मद, हसन मौहम्मद पुत्रान चाव खान पुत्र रोहबड हर तीन समभाग 2/7 भाग, बलदेव पुत्र जोधा राम पुत्र भवानी दास 1/21 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	126//8/1	0.1062	आत्मा प्रकाश पुत्र जोधा राम पुत्र गिरधारी राम रहन हिस्सा 1/3 भाग, वासदेव पुत्र जोधा राम पुत्र गिरधारी राम रहन हिस्सा 1/3 भाग, गौतम कुमार पुत्र व ज्ञान देवी, चन्द्रकान्ता, अनीता देवी, कृष्णा देवी, आशा देवी पुत्रियां नयामन्त राम पुत्र जोधाराम हर छः समभाग रहन हिस्सा 6/21 भाग, श्रीमती निर्मला विधवा व सुमन बाला पुत्री नारायण दास पुत्र नयामन्त राम हर दो समभाग रहन हिस्सा 1/21 भाग, मौहम्मद खान, ईस्माइल, अहमद खान, नीजर खान पुत्रान बदलू पुत्र करीम खान हर चार समभाग 1/3 भाग, सुरेश कुमार पुत्र वासदेव पुत्र जोधा राम 1/3 भाग, नसीब खान, दीन मौहम्मद, हसन मौहम्मद पुत्रान चाव खान पुत्र रोहबड हर तीन समभाग 2/7 भाग, बलदेव पुत्र जोधा राम पुत्र भवानी दास 1/21 भाग वासीदेह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	126//26	0.0051	ग्राम पंचायत देह
			व्यक्तिगत	कृषि	127//25	0.1163	मामरेज पुत्र सफेद खान पुत्र खवाजू वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	128//21	0.0658	मामरेज पुत्र सफेद खान पुत्र खवाजू वासीदेह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	379	0.2201	ग्राम पंचायत देह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	380	2.8025	ग्राम पंचायत देह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	385	2.3548	ग्राम पंचायत देह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			ग्राम पंचायत	अकृषि	386	2.9745	ग्राम पंचायत देह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	387	0.0809	ग्राम पंचायत देह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	399	0.9055	ग्राम पंचायत देह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	R-1003 (सड़क खसरा नं० 103//3-4, 7-8 के बीच में)	0.0607	ग्राम पंचायत देह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	R-1059	0.0607	ग्राम पंचायत देह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	R-199/1	0.1290	ग्राम पंचायत देह
(2)	नूहें	(1) रोजका मेव	ग्राम पंचायत	अकृषि	11//16	0.0936	ग्राम पंचायत देह (चारागाह)
			ग्राम पंचायत	अकृषि	11//25	0.0152	ग्राम पंचायत देह (चारागाह)
			ग्राम पंचायत	अकृषि	27//14	0.0278	ग्राम पंचायत देह (चारागाह)
			ग्राम पंचायत	अकृषि	27//6	0.1467	ग्राम पंचायत देह (चारागाह)
			व्यक्तिगत	कृषि	100	1.4721	श्रीमती हमीद पत्नी खेचडू पुत्र जगराम 1/48 भाग, मालिक कब्जा श्रीमती शाहिदा पत्नी तसव्वर हुसैन पुत्र याकूब खान 161/11554 भाग, मालिक कब्जा श्रीमती जुबैदा पत्नी अब्दुल रज्जाक पुत्र ईसराइल 80/11554 भाग, मालिक कब्जा चेतन सिंह पुत्र देशराज सिंह पुत्र ईश्वर सिंह 1/24 भाग, मालिक कब्जा देशराज सिंह पुत्र ईश्वर सिंह पुत्र जमनादास 1/24 भाग, मालिक कब्जा मै० मलूक मिल्क प्लॉट 691/2 साउथ फूट मालूक तवर नेहरू पैलेस नई दिल्ली 11/24 भाग, मालिक कब्जा, मालूक नागर पुत्र आर०जी० नागर 1/4, मालिक कब्जा श्रीमती सुधा नागर पत्नी मालूक नागर पुत्र आर०जी० नागर 1/12 भाग
		(2) आटा	ग्राम पंचायत	अकृषि	101	0.9080	पंचायत देह
			व्यक्तिगत	कृषि	4//15	0.0051	प्रेमराज, बुद्धधन, दीपचन्द, प्रसादी, कुन्दन पुत्रान बोन्धू पुत्र मंगला हर पॉच समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	5//11	0.0101	प्रेमराज, बुद्धधन, दीपचन्द, प्रसादी, कुन्दन पुत्रान बोन्धू पुत्र मंगला हर पॉच समभाग वासीदेह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	5//12	0.0051	पंचायत देह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			ग्राम पंचायत	अकृषि	5//17/2	0.0228	पंचायत देह
			व्यक्तिगत	कृषि	5//20	0.0126	अबदुल गनी, अबदुल गाफूर, मौहम्मद ईसराइल, मौहम्मद हारुन पुत्रान हनीफ पुत्र सलीन खान हर चार समभाग 1/3 भाग, फिदा मौहम्मद पुत्र मुनीर खान पुत्र चन्द्रमल 1/3 भाग, अली मौहम्मद, अनवर, राज मौहम्मद पुत्रान हुसैन खान पुत्र चन्द्रमल हर तीन समभाग 1/3 भाग वासीदेह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	R-63	0.0556	पंचायत देह
		(3) रामपुर	व्यक्तिगत	कृषि	9//2	0.0025	अमीचन्द पुत्र ख्याली 1/2 भाग वासीदेह, श्रीमती बिमला पत्नि अमीचन्द पुत्र ख्याली 1/2 भाग वासी जोगाबाई जमिया नगर दिल्ली
			व्यक्तिगत	अकृषि	9//3	0.1745	मै0 अजय इण्टरप्राइजेस प्रा0 लि0 नेहरू पैलेस दिल्ली द्वारका, हंसराज वर्मा पुत्र एम0 एल0 वर्मा 4/9 भाग वासी टी0-15 वार्ड 8 मैहरोली, नहार सिंह, जगबीर सिंह, लाल सिंह, रामबीर सिंह पुत्रान विशाल सिंह पुत्र भीखा हर चार समभाग 5/9 भाग वासी आटा
			व्यक्तिगत	कृषि	9//7	0.1366	राजपाल, विजय पाल पुत्रान रानचन्द, मै0 अजय इण्टरप्राइजेस प्रा0 लि0 नेहरू पैलेस नई दिल्ली, लाली, बलवीर सिंह, चन्द्रपाल, बैनामी पुत्रान व कस्तूरी, किस्सो पुत्रियां गोपाल उर्फ गोपाल सिंह समभाग 1/2 भाग, धर्मवीर, अशोक पुत्रान सोहन सिंह 1/3 भाग, श्रीमती नांगी देवी विधवा व सुनीता, अनीता, कविता पुत्रियां श्रीपाल पुत्र सोहन सिंह 2/15 भाग, श्रीमती योगेश विधवा व राहुल पुत्र व श्रीमती प्रीती, प्रिया पुत्रियां निष्पू पुत्र श्रीपाल 1/30 भाग, मै0 मधुबन इण्टरप्राइजेस प्रा0 लि0 नेहरू पैलेस नई दिल्ली वासीदेह मुरतहनान दायम
			व्यक्तिगत	कृषि	9//8/1	0.0582	रामचन्द पुत्र जुगला पुत्र ज्वाला सिंह 1/4 भाग, रोजदार, छाव खान पुत्रान सगरु पुत्र नवी खान हर दो समभाग 1/4 भाग, रामपत, राम कुंवर पुत्रान लखपत सिंह पुत्र श्री राम हर दो समभाग 1/2 वासीदेह
			व्यक्तिगत	अकृषि	9//8/2	0.1416	मै0 अजय इण्टरप्राइजेस प्रा0 लि0 नेहरू पैलेस दिल्ली द्वारका, हंसराज वर्मा पुत्र एम0 एल0 वर्मा 4/9 भाग वासी टी0-15 वार्ड 8 मैहरोली, नहार सिंह, जगबीर सिंह, लाल सिंह, रामबीर सिंह पुत्रान विशाल सिंह पुत्र भीखा हर चार समभाग 5/9 भाग वासी आटा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			व्यक्तिगत	अकृषि	9//9	0.2276	मै० अजय इण्टरप्राइजेस प्रा० लि० नेहरू पैलेस दिल्ली द्वारका, हंसराज वर्मा पुत्र एम० एल० वर्मा 4/9 भाग वासी टी०-15 वार्ड 8 मैहरोली, नहार सिंह, जगबीर सिंह, लाल सिंह, रामबीर सिंह पुत्रान विशाल सिंह पुत्र भीखा हर चार समभाग 5/9 भाग वासी आटा
			व्यक्तिगत	कृषि	9//10	0.0582	अमीचन्द पुत्र ख्याली 1/2 भाग वासीदेह, श्रीमती बिमला पत्नि अमीचन्द पुत्र ख्याली 1/2 भाग वासी जोगाबाई जमिया नगर दिल्ली
			व्यक्तिगत	कृषि	9//11	0.0304	अमीचन्द पुत्र ख्याली 1/2 भाग वासीदेह, श्रीमती बिमला पत्नि अमीचन्द पुत्र ख्याली 1/2 भाग वासी जोगाबाई जमिया नगर दिल्ली
			व्यक्तिगत	अकृषि	9//12	0.1695	मै० अजय इण्टरप्राइजेस प्रा० लि० नेहरू पैलेस दिल्ली द्वारका, हंसराज वर्मा पुत्र एम० एल० वर्मा 4/9 भाग वासी टी०-15 वार्ड 8 मैहरोली, नहार सिंह, जगबीर सिंह, लाल सिंह, रामबीर सिंह पुत्रान विशाल सिंह पुत्र भीखा हर चार समभाग 5/9 भाग वासी आटा
			व्यक्तिगत	अकृषि	9//13/1	0.1391	मै० अजय इण्टरप्राइजेस प्रा० लि० नेहरू पैलेस दिल्ली द्वारका, हंसराज वर्मा पुत्र एम० एल० वर्मा 4/9 भाग वासी टी०-15 वार्ड 8 मैहरोली, नहार सिंह, जगबीर सिंह, लाल सिंह, रामबीर सिंह पुत्रान विशाल सिंह पुत्र भीखा हर चार समभाग 5/9 भाग वासी आटा
			व्यक्तिगत	कृषि	9//13/2	0.0683	रामचन्द पुत्र जुगला पुत्र ज्वाला सिंह 1/4 भाग, रोजदार, छाव खान पुत्रान सगरु पुत्र नवी खान हर दो समभाग 1/4 भाग, रामपत, राम कुंवर पुत्रान लखपत सिंह पुत्र श्री राम हर दो समभाग 1/2 वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	9//14	0.2453	रामचन्द पुत्र जुगला पुत्र ज्वाला सिंह 1/4 भाग, रोजदार, छाव खान पुत्रान सगरु पुत्र नवी खान हर दो समभाग 1/4 भाग, रामपत, राम कुंवर पुत्रान लखपत सिंह पुत्र श्री राम हर दो समभाग 1/2 वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	9//15	0.1189	रामचन्द पुत्र जुगला पुत्र ज्वाला सिंह 1/4 भाग, रोजदार, छाव खान पुत्रान सगरु पुत्र नवी खान हर दो समभाग 1/4 भाग, रामपत, राम कुंवर पुत्रान लखपत सिंह पुत्र श्री राम हर दो समभाग 1/2 वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	9//17/1	0.1720	हुक्म सिंह पुत्र रामलाल 34/387 भाग वासी आटा, भजनलाल, रामदत्त, रामकुमार पुत्रान लखपत सिंह पुत्र श्रीराम हर तीन समभाग 353/387 भाग मालकान कब्जा वासी उदाका, श्रीमती अतरवाई पुत्री रामलाल 30/43 भाग वासीदेह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			व्यक्तिगत	कृषि	9//17/2	0.0885	हुक्म सिंह पुत्र रामलाल 34/387 भाग वासी आटा, भजनलाल, रामदत्त, रामकुमार पुत्रान लखपत सिंह पुत्र श्रीराम हर तीन समभाग 353/387 भाग मालकान कब्जा वासी उदाका, श्रीमती अतरवाई पुत्री रामलाल 30/43 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	9//18	0.1391	श्रीमती मूला देवी विधवा मिलाप चन्द पुत्र उदहो दास 2/239 भाग, गैला राम, खान चन्द पुत्रान दिवान चन्द हर दो समभाग 101/293 भाग, महाबीर सिंह पुत्र कीर्ति सिंह पुत्र नारायण सिंह 77/293 भाग, राधेश्याम, रामलाल पुत्रान व श्रीमती कृष्णा देवी, कौशल्या देवी, शान्ति देवी पुत्रियान मिलाप चन्द पुत्र भोजा राम हर पौंच समभाग 113/293 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	अकृषि	9//19	0.0202	मै० अजय इण्टरप्राइजेस प्रा० लि० नेहरू पैलेस दिल्ली द्वारका, हंसराज वर्मा पुत्र एम० एल० वर्मा 4/9 भाग वासी टी०-15 वार्ड 8 मैहरोली, नहार सिंह, जगबीर सिंह, लाल सिंह, रामबीर सिंह पुत्रान विशाल सिंह पुत्र भीखा हर चार समभाग 5/9 भाग वासी आटा
			व्यक्तिगत	कृषि	9//20	0.0076	पंकज कुमार पुत्र प्रहलाद 1/20 भाग, महेन्द्र पुत्र रघवीर सिंह 1/20 भाग, कवरसैन पुत्र राधेश्याम 1/20 भाग, महेश चन्द पुत्र राधेश्याम 1/20 भाग, मुकेश गुप्ता पुत्र राधेश्याम 1/20 भाग, संजीव कुमार पुत्र प्रहलाद गुप्ता 1/20 भाग, गौरव पुत्र महेश चन्द 1/20 भाग, सौरभ पुत्र राजकुमार 1/20 भाग, सचिन गर्ग पुत्र रामकिशन 1/20 भाग, चेतन गुप्ता पुत्र किशन नारायण 1/20 भाग, देवकी नन्दन पुत्र सुरजनन लाल 1/20 भाग, राजीव पुत्र भगवत प्रसाद 1/20 भाग, प्रदीप कुमार पुत्र के०एन० गुप्ता 1/20 भाग, रनबीर सिंह पुत्र राव रघवीर सिंह 1/20 भाग, देवेन्द्र पुत्र रनवीर सिंह 1/20 भाग, राम निवास पुत्र गोशियार सिंह 1/20 भाग, श्रीपाल पुत्र हाशियार सिंह 1/20 भाग, रोहित पुत्र श्रीपाल 1/20 भाग, जितेन्द्र पुत्र हेम चन्द 1/20 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	10//7	0.0051	मनीष राघव पुत्र नरेन्द्र सिंह यादव 3/160 भाग, श्रीमती उषा रानी पत्नी ठाकुर दास 1/128 भाग, सुषमा दुदेजा पत्नी संजय दुदेजा 1/28 भाग, श्रीमती अंशू मेहता पत्नी विजय मेहता 3/160 भाग, श्रीमती सुनीता पत्नी अनिल मेहता 3/160 भाग, श्रीमती सीमा पत्नी महेन्द्र सिंह 1/64 भाग वासीदेह, श्रीमती सरोजदेवी पत्नी सुरजमल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							3/160 वासी कुरथला, श्रीमती विनीता सिंह पत्नी अनिल सिन्हा 1/20 भाग, श्रीमता गीना पत्नी किशन सिंह 1/32 भाग, दीपक जैन पुत्र सतेन्द्र जैन 3/160 भाग, नीरज कुमार पुत्र जगन्नाथ 3/160 भाग, श्रीमती ज्योति गोगिया पत्नी शिव कुमार गोगिया 3/320 भाग, श्रीमती सविता रानी पत्नी चन्द्रामणी 3/320 भाग, श्रीमती रामवती पत्नी याद राम 3/160 भाग, जगदीश वर्मा पुत्र प्रणनन्द 3/80 भाग, श्रीमती रामा पत्नी राजेश कुमार 1/80 भाग, श्रीमती स्वेता पत्नी कृष्ण कुमार 1/80 भाग, नीलकमल जैन पुत्र श्याम सुन्दर जैन 1/16 भाग, श्रीमती सावित्री पत्नी सुरेन्द्र सिंह 3/320 भाग, पंकज गुप्ता पुत्र प्रहलाद गुप्ता 21/320 भाग, श्रीमती जगबती पत्नी अर्जन सिंह 17/320 भाग, अजीत सिंह पुत्र दिलीप सिंह 3/64 भाग, अवतार सिंह पुत्र फकीरा सिंह 1/10 भाग, त्रिलोक चन्द पुत्र श्यामप्रसाद 1/10 भाग, घनश्याम पुत्र मंगत राम 1/10 भाग, जय नारायण पुत्र गौकल चन्द 1/10 भाग वासीदेह, आदेश कुमार पुत्र रामजीलाल पुत्र मवासी राम 1/64 भाग वासी इंदारी
			व्यक्तिगत	कृषि	10//15	0.0278	मनोज कुमार पुत्र अमीचन्द पुत्र ख्याली वासीदेह, नानक सिंह, तेज सिंह, मोहर सिंह पुत्रान सरजीत सिंह वासीदेह हकदरान शामिल
			व्यक्तिगत	कृषि	10//19	0.0025	बलबीर सिंह, चन्द्रपाल, बैनामी पुत्रान गोपाल उर्फ गोपाल सिंह पुत्र रुडा हर तीन समभाग 1/2 भाग, श्रीमती नन्नो देवी विधवा व श्रीमती सुनीता, अनीता, कविता पुत्रियां श्रीपाल पुत्र सोहन सिंह हर चार समभाग 1/4 भाग, श्रीमती योगेश विधवा व राहुल पुत्र व प्रीति, फीरिया पुत्रिया निष्पू पुत्र श्रीपाल हर चार समभाग 1/12 भाग, धर्मवीर, अशोक पुत्रान सोहन सिंह पुत्र रुडा हर दो समभाग 1/6 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	11//15	0.0202	बलवीर सिंह, चन्द्रपाल, बैनामी पुत्रान गोपाल उर्फ गोपाल सिंह पुत्र रुडा हर तीन समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	11//16	0.0051	बलवीर सिंह, चन्द्रपाल, बैनामी पुत्रान गोपाल उर्फ गोपाल सिंह पुत्र रुडा हर तीन समभाग वासीदेह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	R-25	0.0177	पंचायत देह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	R-30	0.0885	पंचायत देह

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(4) उदाका	व्यक्तिगत	कृषि	5//15	0.1720	श्रीमती ग्रिन्दोडी विधवा रघवीर पुत्र सूरजमल 1/2 भाग गैर मौरुसी, दयाचन्द, सरदानन्द पुत्रान रघवीर पुत्र सूरजमल हर दो समभाग 1/2 भाग वासीदेह गैर मौरुसीयान
			व्यक्तिगत	कृषि	5//16	0.1265	रामफल पुत्र लखपत पुत्र श्रीराम मालिक कब्जा, लेखराज, धनश्याम पुत्रान देवाराम हर दो समभाग वासीदेह हकदरान शामलात
			व्यक्तिगत	कृषि	6//10	0.0101	श्रीमती ग्रिन्दोडी विधवा रघवीर पुत्र सूरजमल 1/2 भाग गैर मौरुसी, दयाचन्द, सरदानन्द पुत्रान रघवीर पुत्र सूरजमल हर दो समभाग 1/2 भाग वासीदेह गैर मौरुसीयान
			व्यक्तिगत	कृषि	6//11	0.3086	श्रीमती ग्रिन्दोडी विधवा रघवीर पुत्र सूरजमल 1/2 भाग गैर मौरुसी, दयाचन्द, सरदानन्द पुत्रान रघवीर पुत्र सूरजमल हर दो समभाग 1/2 भाग वासीदेह गैर मौरुसीयान
			व्यक्तिगत	कृषि	6//12	0.3061	श्रीमती सुनीता पत्नी विजय अग्रवाल पुत्र मोती राम 1/4 भाग वासी सोहना, बसन्त सिंह पुत्र दयाराम पुत्र रामलाल 1/4 भाग वासीदेह, धनसिंह पुत्र हंसराम 1/4 भाग वासी मण्डी गाँव नई दिल्ली, जयप्रकाश पुत्र लेखराम पुत्र रामू 1/4 भाग वासी दलियाबास तहसील व जिला रेवाड़ी
			व्यक्तिगत	कृषि	6//13/1	0.1037	बसन्त सिंह पुत्र दयाराम पुत्र रामलाल 1/4 भाग वासीदेह, धनसिंह पुत्र हंसराज 1/4 भाग वासी मण्डी ग्राम नई दिल्ली, जयप्रकाश पुत्र लेखराम पुत्र रामू 1/4 भाग वासी दलियाबास तहसील व जिला रेवाड़ी, श्रीमती विनीता पत्नी विजय अग्रवाल पुत्र मोती राम 1/4 भाग वासी सोहना
			व्यक्तिगत	कृषि	6//13/2	0.0481	बसन्त सिंह पुत्र दयाराम पुत्र रामलाल 1/4 भाग वासीदेह, धनसिंह पुत्र हंसराज 1/4 भाग वासी मण्डी ग्राम नई दिल्ली, जयप्रकाश पुत्र लेखराम पुत्र रामू 1/4 भाग वासी दलियाबास तहसील व जिला रेवाड़ी, श्रीमती विनीता पत्नी विजय अग्रवाल पुत्र मोती राम 1/4 भाग वासी सोहना
			व्यक्तिगत	कृषि	6//18/1	0.0076	बसन्त सिंह पुत्र दयाराम पुत्र रामलाल 1/4 भाग वासीदेह, धनसिंह पुत्र हंसराज 1/4 भाग वासी मण्डी ग्राम नई दिल्ली, जयप्रकाश पुत्र लेखराम पुत्र रामू 1/4 भाग वासी दलियाबास तहसील व जिला रेवाड़ी, श्रीमती विनीता पत्नी विजय अग्रवाल पुत्र मोती राम 1/4 भाग वासी सोहना

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			व्यक्तिगत	कृषि	6//18/2	0.0177	बसन्त सिंह पुत्र दयाराम पुत्र रामलाल 1/4 भाग वासीदेह, धनसिंह पुत्र हंसराज 1/4 भाग वासी मण्डी ग्राम नई दिल्ली, जयप्रकाश पुत्र लेखराम पुत्र रामू 1/4 भाग वासी दलियाबास तहसील व जिला रेवाड़ी, श्रीमती विनीता पत्नी विजय अग्रवाल पुत्र मोती राम 1/4 भाग वासी सोहना
			व्यक्तिगत	कृषि	6//19	0.0607	श्रीमती सुनीता पत्नी विजय अग्रवाल पुत्र मोती राम 1/4 भाग वासी सोहना, बसन्त सिंह पुत्र दयाराम पुत्र रामलाल 1/4 भाग वासीदेह, धनसिंह पुत्र हंसराज 1/4 भाग वासी मण्डी गाँव नई दिल्ली, जयप्रकाश पुत्र लेखराम पुत्र रामू 1/4 भाग वासी दलियाबास तहसील व जिला रेवाड़ी
			व्यक्तिगत	कृषि	6//20	0.1088	श्रीमती ग्रिन्दोडी विधवा रघवीर पुत्र सूरजमल 1/2 भाग गैर मौरुसी, दयाचन्द, सरदानन्द पुत्रान रघवीर पुत्र सूरजमल हर दो समभाग 1/2 भाग वासीदेह गैर मौरुसीयान
			व्यक्तिगत	कृषि	7//3	0.0076	वेदप्रकाश, इन्द्राज, बलराज, राकेश पुत्रान व श्रीमती ब्रह्मा देवी, रमेश देवी पुत्रियान हुक्म सिंह पुत्र हरदेव हर छः समभाग, मालकान कब्जा श्रीमती राधाबाई पत्नि भजनलाल वासीदेह हकदरान शामिल
			व्यक्तिगत	कृषि	7//6	0.0025	रणजीत, अजीत, जगदीश पुत्रान फकीरा पुत्र शिवदयाल हर तीन समभाग, मालकान कब्जा आशानन्द, जुगल किशोर, जगदीश, रामशरण, कृष्णलाल पुत्रान उदयराम पुत्र घनश्याम हर पाँच समभाग वासीदेह हकदरान शामिल
			व्यक्तिगत	कृषि	7//14	0.0025	रामपत पुत्र शिवदयाल पुत्र छोटे, मालिक कब्जा जुगल किशोर, जगदीश, रामशरण, कृष्णलाल पुत्रान उदयराम पुत्र घनश्याम हर पाँच समभाग वासीदेह हकदरान शामिल
			व्यक्तिगत	कृषि	7//15/1/2	0.0025	रणजीत, अजीत, जगदीश पुत्रान फकीरा पुत्र शिवदयाल हर तीन समभाग, मालकान कब्जा आशानन्द, जुगल किशोर, जगदीश, रामशरण, कृष्णलाल पुत्रान उदयराम पुत्र घनश्याम हर पाँच समभाग वासीदेह हकदरान शामिल
			व्यक्तिगत	कृषि	8//7	0.0025	कृष्णपाल, विनोद कुमार पुत्रान रामपाल हर दो समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	8//9	0.0228	रामपाल पुत्र शिवदयाल पुत्र छोटे वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	8//10/2	0.0126	रामपत पुत्र शिवदयाल पुत्र छोटे, मालिक कब्जा जुगल किशोर, जगदीश, रामशरण, कृष्णलाल पुत्रान उदयराम पुत्र घनश्याम हर पाँच समभाग वासीदेह हकदरान शामिल

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			व्यक्तिगत	कृषि	8//11	0.0076	सोहनलाल पुत्र झन्डू पुत्र उमराव वासी कासीपुर तहसील पलवल दोहलीदार पट्टा दहिन्दा, मामचन्द पुत्र चेतन पुत्र उमराव वासीदेह पट्टा गरिन्दा
			व्यक्तिगत	कृषि	8//12/2	0.0253	टेकचन्द, होराम, शोराज, महेन्द्र, बिर्जेन्द्र, सुरेन्द्र पुत्रान रतन सिंह पुत्र नोन्दा हर छः समभाग, मालकान कब्जा श्रीमती गंगा देवी आदि मुद्राज खेवट नं० 331 वासीदेह हकदार शामलात
			व्यक्तिगत	कृषि	8//18/1	0.0025	विजयपाल सिंह पुत्र प्यारेलाल पुत्र शिब्बा 1/6 भाग, चन्द्रलाल पुत्र वेदराम पुत्र शिब्बा 1/6 भाग, कृष्णपाल पुत्र हरपाल पुत्र शिब्बा 1/6 भाग, खेमचन्द पुत्र जयराम पुत्र कदमा 1/2 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	8//19	0.0051	टेकचन्द, होराम, शोराज, महेन्द्र, बिर्जेन्द्र, सुरेन्द्र पुत्रान रतन सिंह पुत्र नोन्दा हर छः समभाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	कृषि	9//11	0.0025	गजराज, इन्द्रपाल, रामौतार, अशोक कुमार पुत्रान देशराज पुत्र मुन्शी हर चार समभाग वासीदेह
			ग्राम पंचायत	अकृषि	R-347	0.0025	पंचायत देह
		(5) भिरावटी	व्यक्तिगत	कृषि	1//15	0.0152	भजनलाल पुत्र दुल्ली पुत्र इन्द्र 1/2 भाग, डेवनोसोपट ओरगेनाइजेसन आफिस कावेरी पाटा रोड जिला हुबली बैस्ट बंगाल 1/8 भाग, तरुण कुमार पुत्र व रेनू पुत्री व श्रीमती गायत्री विधवा बीर सिंह पुत्र दुल्ली हर तीन समभाग 3/8 भाग वासीदेह
			व्यक्तिगत	अकृषि	2//11	0.0481	मै० सी०आई०एस० मेनेजमेन्ट कन्सलटेंट प्रा० लि० वासीदेह

[फा. सं. 2013/एलएमएल/II/12/8/डब्ल्यू सी/572]
अचल जैन, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं-1)

**MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th December, 2014

S. O. 3204(E).— Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number S. O. 2483 (E), dated the 23rd September, 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 24th September, 2014 and issued under sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Project, namely, Western Dedicated Freight Corridor in District Mewat in the State of Haryana;

And, whereas, the substance of the said notification has been published in daily local newspapers, namely, Dainik Jagran, dated the 22nd October, 2014 and The Indian Express, dated the 22nd October, 2014 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And, whereas, no objection has been received by the competent authority;

And, whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of Section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for Special Railway Project, namely, Western Dedicated Freight Corridor in District Mewat in the State of Haryana.

Name of District – Mewat

Serial Number	Name of Taluka	Name of Village	Type of Land	Nature of Land	Survey Number/ Block Number	Area (in Hectare)	Name of the Land Owner/Interested Persons
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1)	Taoru	(1) Seweka	Private	Agriculture	3//1	0.0051	Rasoola, Kapoora Sons of Rai Kha S/o Raj Kha Two Eq. share 2/3 share, Islam S/o Mohar Kha S/o Raj Kha 1/3 share vasideh
			Private	Agriculture	4//2	0.0076	Rasoola, Kapoora Sons of Rai Kha S/o Raj Kha Two Eq. share 2/3 share, Islam S/o Mohar Kha S/o Raj Kha 1/3 share vasideh
			Private	Agriculture	4//3	0.0228	Rasoola, Kapoora Sons of Rai Kha S/o Raj Kha Two Eq. share vasideh
			Private	Agriculture	4//4	0.0126	Rasoola, Kapoora Sons of Rai Kha S/o Raj Kha Two Eq. Share Rahan Hissa 2/3 Share, Islam S/o Mohar Kha S/o Raj Kha Rahan Hissa 1/3 Share, Rasoola, Kapoora Sons of Rai Kha S/o Raj Kha Two Eq. Share 2/3 share, Islam S/o Mohar Kha S/o Raj Kha 1/3 Share, murthanan Sardar S/o Jagdev Vasidev hakdar shamlat
			Private	Agriculture	4//5	0.0278	Rasoola, Kapoora Sons of Rai Kha S/o Raj Kha Two Eq. share 2/3 share, Islam S/o Mohar Kha S/o Raj Kha 1/3 share vasideh
			Private	Agriculture	5//12/1	0.0025	Khuwa, Madum, Sumer Mohammad Sons of Suleman S/o Albaksh Three Eq. share 1/2 share, Ranjeet, Bhimlall, Rajendra, Hansraj Sons of Tejram S/o Purna Four Eq. share 1/5 share, Satish Kumar S/o Prabhati Lal S/o Patram 1/20 Vasideh, Devraj, Santram, Ramman Girraj Sons of Tandar S/o Chander Four Eq. share 1/4 share vasi Shadod

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Private	Agriculture	5//14	0.0025	Umar Shah S/o Juhar Shah S/o Chhote Shah 1/9 Share, Shivram S/o Chet Ram S/o Bharat Ram 11/72 Share, Saurabh S/o Chet Ram S/o Bharat Ram 5/24 Share, Muni Ram S/o Chet Ram S/o Bharat Ram 11/72 Share, Baljeet Singh S/o Bachchan Singh S/o Chet Ram 5/24 Share, Dharam Veer S/o Kishan Lal S/o Harnanm 1/6 Share Vasideh
		(2) Raniyaki	Gram Panchayat	Non-Agriculture	6//22/1/1	0.0481	Gram Panchayat
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	6//22/2	0.0051	Gram Panchayat
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	6//23	0.0025	Gram Panchayat
			Private	Agriculture	7//6	0.0101	Smt. Devibai D/o Sadhu Singh S/o Chunnuram 1/5 share, Kamal, Sher Mohammad urf Chajju Sons of Asila S/o Hari Singh Two Eq. share 2/5 share, Ajeem S/o Hari Singh S/o Bhopta 2/5 Vasideh
			Private	Agriculture	7//7/2	0.0101	Dilwa S/o Badhan S/o Dhosi 1/2 share, Kallu, Mallu, Dilwal, Noor Mohammad Sons of Badhan S/o Dhosi Four Eq. share 1/2 share Vasideh
			Private	Agriculture	7//13	0.0076	Samsudeen S/o Naseeb Kha S/o Tundu Vasideh
			Private	Agriculture	7//14	0.0051	Kallu, Mallu, Dilwa, Noor Mohammad Sons of Badhan S/o Dhosi Four Eq. share Vasideh
			Private	Agriculture	7//15	0.0025	Badhan, Nanhe Kha Sons of Dhosi S/o Bodan Two Eq. share Vasideh
			Private	Agriculture	7//20	0.0025	Badhan, Nanhe Kha Sons of Dhosi S/o Bodan Two Eq. share Vasideh
			Private	Agriculture	8//2	0.0126	Unas S/o Chand Singh S/o Mehta 3/16 share, Nishar Ahmad, Jameel Ahmad Sons of Fazru S/o Changa Two Eq. share 1/6 share, Harun, Nasru, Ali

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Mohammad Sons of Chahat S/o Mehta Three Eq. share 7/16 share Vasideh
			Private	Agriculture	8//3	0.0076	Unas S/o Chand Singh S/o Mehta 3/16 share, Nishar Ahmad, Jameel Ahmad Sons of Fazru S/o Changa Two Eq. share 1/6 share, Harun, Nasru, Ali Mohammad Sons of Chahat S/o Mehta Three Eq. share 7/16 share Vasideh
			Private	Agriculture	8//4	0.0051	Imamudeen, Aladeen, Wahideen Sons of Deen Mohammad S/o Niwaz Kha Three Eq. share 1/2 share, Mohammad Asloop, Yakub, Ali Mohammad, Ayub, Noordeen, Sadeek Sons of Safedi S/o Ankhe Singh Six Eq. share 1/2 share Vasideh
			Private	Agriculture	8//7	0.0076	Imamudeen, Aladeen, Wahideen Sons of Deen Mohammad S/o Niwaz Kha Three Eq. share 1/2 share, Mohammad Asloop, Yakub, Ali Mohammad, Ayub, Noordeen, Sadeek Sons of Safedi S/o Ankhe Singh Six Eq. share 1/2 share Vasideh
			Private	Agriculture	8//8	0.0101	Unas S/o Chand Singh S/o Mehta 3/16 share, Nishar Ahmad, Jameel Ahmad Sons of Fazru S/o Changa Two Eq. share 1/6 share, Harun, Nasru, Ali Mohammad Sons of Chahat S/o Mehta Three Eq. share 7/16 share Vasideh
			Private	Agriculture	8//9	0.0126	Unas S/o Chand Singh S/o Mehta 3/16 share, Nishar Ahmad, Jameel Ahmad Sons of Fazru S/o Changa Two Eq. share 1/6 share, Harun, Nasru, Ali Mohammad Sons of Chahat S/o Mehta Three Eq. share 7/16 share Vasideh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Private	Agriculture	8//10	0.0101	Smt. Devibai D/o Sadhu Singh S/o Chunnuram 1/5 share, Kamal, Sher Mohammad urf Chajju Sons of Asila S/o Hari Singh Two Eq. share 2/5 share, Ajeem S/o Hari Singh S/o Bhopta 2/5 Vasideh
			Private	Agriculture	8//11/1	0.0101	Shamsudeen S/o Khitab Kha S/o Bhola Baksh
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-308	0.0025	Gram Panchayat
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-44	0.0025	Gram Panchayat
		(3) Gurnawat	Private	Agriculture	8//16/1	0.0379	Dhup Kha S/o Niwaz Kha S/o Med Kha 3/4 Share, Rehman S/o Kantula S/o Niwza Kha Rahan Hissa 1/4 Share, Sameem, Aleel, Saroop Sons of Naseer S/o Raju Three Eq. Share 1/4 Share Vasideh Murthanan
			Private	Agriculture	8//16/2	0.0051	Dhup Kha S/o Niwaz Kha S/o Med Kha 3/4 Share, Rehman S/o Kantula S/o Niwza Kha Rahan Hissa 1/4 Share, Sameem, Aleel, Saroop Sons of Naseer S/o Raju Three Eq. Share 1/4 Share Vasideh Murthanan
			Private	Agriculture	8//17/1	0.0253	Shamsudan, Sher Mohammad, Sahabdeen Sons of Raju S/o Med Kha Three Eq. Share 1/4 Share, Shameem, Aleel, Saroop Sons of Naseer S/o Raju Three Eq. Share 1/12 Share, Majeed S/o Med Kha S/o Kamlu 1/3 Share, Abdul, Hameed, Rasheed, Sahar Sons of Nashru S/o Med Kha Four Eq. Share 1/3 Share Vasideh
			Private	Agriculture	8//17/2	0.0278	Hazar Kha, Ramjaan, Harun, Kareem Sons of Jain Kha S/o Jhenda Four Eq. Share 1/2 Share, Subash Kha S/o Jhenda S/o Bhola 1/2 Share Vasideh
			Private	Agriculture	8//18/1	0.0304	Hazar Kha, Ramjaan, Harun, Kareem Sons of Jain Kha S/o Jhenda Four

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Eq. Share 1/2 Share, Subash Kha S/o Jhenda S/o Bhola 1/2 Share Vasideh
			Private	Agriculture	8//18/2	0.0152	Mojuda S/o Bhare Kha S/o Wajar Kha 1/2 Share, Rehman Kha, Nawal Kha Sons of Bhare Kha S/o Najaf Kha Two Eq. Share 1/2 Share Vasideh
			Private	Agriculture	8//22/1	0.0202	Subah Kha S/o Mangla S/o Phul Kha 1/2 Share, Numan, Mannan, Jafar Sons of Sultan S/o Mugla Four Eq. Share 1/2 Share, Malkan Kabza Fateh Mohammad Majkooor 1/2 Share Vasideh Hakdar Shamlat
			Private	Agriculture	8//22/2	0.0051	Subah Kha S/o Mangla S/o Phul Kha 1/2 Share, Numan, Mannan, Jafar Sons of Sultan S/o Mugla Four Eq. Share 1/2 Share, Malkan Kabza Fateh Mohammad Majkooor 1/2 Share Vasideh Hakdar Shamlat
			Private	Agriculture	8//23	0.0379	Mojuda S/o Bhare Kha S/o Wajar Kha 1/2 Share, Rehman Kha, Nawal Kha Sons of Bhare Kha S/o Najaf Kha Two Eq. Share 1/2 Share Vasideh
			Private	Agriculture	8//24/2	0.0177	Dhup Kha S/o Niwaz Kha S/o Med Kha 3/4 Share, Rehman S/o Kantula S/o Niwza Kha Rahan Hissa 1/4 Share, Sameem, Aleel, Saroop Sons of Naseer S/o Raju Three Eq. Share 1/4 Share Vasideh Murthanan
			Private	Agriculture	8//25/1	0.0025	Dhup Kha S/o Niwaz Kha S/o Med Kha 3/4 Share, Rehman S/o Kantula S/o Niwza Kha Rahan Hissa 1/4 Share, Sameem, Aleel, Saroop Sons of Naseer S/o Raju Three Eq. Share 1/4 Share Vasideh Murthanan
			Private	Agriculture	8//25/2	0.0354	Dhup Kha S/o Niwaz Kha S/o Med Kha 3/4 Share, Rehman S/o Kantula S/o Niwza Kha Rahan Hissa

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							1/4 Share, Sameem, Aleel, Saroop Sons of Naseer S/o Raju Three Eq. Share 1/4 Share Vasideh Murthanan
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	9//6/2	0.0405	Gram Panchayaat
			Private	Agriculture	9//7/2	0.0025	Nazeer S/o Dal Kha S/o Veer Bhan Vasideh
			Private	Agriculture	9//11/2	0.0253	Deen Mohammad, Mangal Sons of Chhajju S/o Imam Kha Two Eq. Share Rahan Hissa 1/2 Share, Rukamdeen S/o Rustam S/o Salem 1/4 Share Murthanan, Ramjaan S/o Richpal S/o Dalmer 1/2 Share Vasideh
			Private	Agriculture	9//12	0.0430	Rehmat S/o Chhote S/o Nikku 1/2 Share, Rehman, Fajru, Subhandeen Sons of Ghuti S/o Nikku Three Eq. Share 1/2 Share Vasideh
			Private	Agriculture	9//13	0.0481	Nazeer S/o Dal Kha S/o Veer Bhan Vasideh
			Private	Agriculture	9//14	0.0607	Nazeer S/o Dal Kha S/o Veer Bhan Vasideh
			Private	Agriculture	9//15/2	0.0177	Shamsudan, Sher Mohammad, Sahabdeen Sons of Raju S/o Med Kha Three Eq. Share 1/4 Share, Shameem, Aleel, Saroop Sons of Naseer S/o Raju Three Eq. Share 1/12 Share, Majeed S/o Med Kha S/o Kamlu 1/3 Share, Abdul, Hameed, Rasheed, Sahar Sons of Nashru S/o Med Kha Four Eq. Share 1/3 Share Vasideh
			Private	Agriculture	9//17	0.0126	Nazeer S/o Dal Kha S/o Veer Bhan Vasideh
			Private	Agriculture	9//18	0.0531	Hameeda S/o Leheru S/o Uday Bhan 1/9 Share, Rustam S/o Salethi S/o Uday Bhan 1/3 Share, Sageer, Jumma Sons of Yaseen S/o Uday Bhan Two Eq. Share 1/3 Share, Ibrahim S/o Hameeda S/o Leheru 1/9 Share, Sarfudeen S/o Najeer S/o Dal Kha 1/9 Share Vasideh
			Private	Agriculture	9//19	0.0405	Hameeda S/o Leheru S/o Uday Bhan 1/9 Share,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Rustam S/o Salethi S/o Uday Bhan 1/3 Share, Sageer, Jumma Sons of Yaseen S/o Uday Bhan Two Eq. Share 1/3 Share, Ibrahim S/o Hameeda S/o Lehru 1/9 Share, Sarfudeen S/o Najeer S/o Dal Kha 1/9 Share Vasideh
			Private	Agriculture	9//20/1	0.0076	Deen Mohammad, Mangal Sons of Chhajju S/o Imam Kha Two Eq. Share Rahan Hissa 1/2 Share, Rukamdeen S/o Rustam S/o Salem 1/4 Share Murthan, Ramjaan S/o Richpal S/o Dalmer 1/2 Share Vasideh
			Private	Agriculture	9//20/2	0.0253	Dhup Kha S/o Niwaz Kha S/o Med Kha 3/4 Share, Rehman S/o Kantula S/o Niwza Kha 1/4 Share
			Private	Agriculture	9//20/3	0.0101	Hameeda S/o Lehru S/o Uday Bhan 1/9 Share, Rustam S/o Salethi S/o Uday Bhan 1/3 Share, Sageer, Jumma Sons of Yaseen S/o Uday Bhan Two Eq. Share 1/3 Share, Ibrahim S/o Hameeda S/o Lehru 1/9 Share, Sarfudeen S/o Najeer S/o Dal Kha 1/9 Share Vasideh
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	10//2/1	0.0126	Gram Panchayat
			Private	Agriculture	10//2/2	0.0101	Deen Mohammad, Mangal Sons of Chhajju S/o Imam Kha Two Eq. Share 1/2 Share, Ramjaan, Yakub Sons of Richpal S/o Dalmer 1/2 Share Vasideh
			Private	Agriculture	10//3/1	0.0126	Deen Mohammad, Mangal Sons of Chhajju S/o Imam Kha Two Eq. Share 1/2 Share, Ramjaan, Yakub Sons of Richpal S/o Dalmer 1/2 Share Vasideh
			Private	Agriculture	10//3/2	0.0784	Rehmat, Subah Kha Sons of Mangal S/o Phul Kha Two Eq. Share, Malkan Kabza Ibrahim Majkur Vasideh Hakdar Shamlat
			Private	Agriculture	10//4/2	0.0051	Juhar Kha, Muhar Kha Sons of Mishri S/o Madla Two Eq. Share

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Private	Agriculture	10/5/2	0.0025	Umar Mohammad S/o Suleman S/o Malhu 1/2 Share Murthanan, Mohar Kha S/o Mishri S/o Mamlal Rahan Hissa 1/2 Share, Juhar Kha S/o Mishri S/o Mamla Rahan Hissa 1/2 Share Vasideh
			Private	Agriculture	10/5/3	0.0304	Sahab Kha, Shyabu, Farukh, Bashrudeen Sons of Bhullu Four Eq. Share 1/2 Share, Rehman S/o Umrav S/o Bhullu 1/2 Share Vasideh
			Private	Agriculture	10//6	0.0152	Sahab Kha, Shyabu, Farukh, Bashrudeen Sons of Bhullu Four Eq. Share 1/2 Share, Rehman S/o Umrav S/o Bhullu 1/2 Share Vasideh
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	10//7/4	0.0278	Gram Panchayat
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	10//8	0.0304	Gram Panchayat
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	10//10	0.0329	Gram Panchayat
			Private	Agriculture	10//11	0.0379	Shamsudan, Sher Mohammad, Sahabdeen Sons of Raju S/o Med Kha Three Eq. Share 1/4 Share, Shameem, Aleel, Saroop Sons of Naseer S/o Raju Three Eq. Share 1/12 Share, Majeed S/o Med Kha S/o Kamlu 1/3 Share, Abdul, Hameed, Rasheed, Sahar Sons of Nashru S/o Med Kha Four Eq. Share 1/3 Share Vasideh
			Private	Agriculture	10//12/1	0.0101	Shamsudan, Sher Mohammad, Sahabdeen Sons of Raju S/o Med Kha Three Eq. Share 1/4 Share, Shameem, Aleel, Saroop Sons of Naseer S/o Raju Three Eq. Share 1/12 Share, Majeed S/o Med Kha S/o Kamlu 1/3 Share, Abdul, Hameed, Rasheed, Sahar Sons of Nashru S/o Med Kha Four Eq. Share 1/3 Share Vasideh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	10//12/2	0.0253	Gram Panchayat
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	10//13	0.0025	Gram Panchayat
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	11//1	0.0632	Gram Panchayat
			Private	Agriculture	11//9	0.1037	Ibrahim S/o Dev Singh S/o Shivdat 1/27 Share, Ishlam, Israil, Kamalu, Rehmu, Rashid Sons of Daan Singh S/o Shivdat Five Eq. Share 17/27 Share, Sher Mohammad, Raj Mohammad Sons of Manphool S/o Shivdatt Two Eq. Share 1/3 Share Vasideh
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	11//10/2	0.0253	Gram Panchayat
			Private	Agriculture	17//1/2	0.0025	Rehmat, Subah Khan Sons of Mangal S/o Phool Kha Two Eq. Share 2/3 Share, Numan, Mannan, Haroon, Jafar Sons of Sultan S/o Mangla Four Eq. Share 1/3 Share, Malkan Kabza Fathe Mohammad Majkur 1/3 Share Vasideh Hakdar Shamlat
			Private	Agriculture	17//2/1	0.0177	Rehmat, Subah Khan Sons of Mangal S/o Phool Kha Two Eq. Share 2/3 Share, Numan, Mannan, Haroon, Jafar Sons of Sultan S/o Mangla Four Eq. Share 1/3 Share, Malkan Kabza Fathe Mohammad Majkur 1/3 Share Vasideh Hakdar Shamlat
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-36	0.0126	Gram Panchayat
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-39	0.0202	Gram Panchayat
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-41	0.0734	Gram Panchayat
		(4) Didhara	Private	Agriculture	24//17/1	0.0076	Ramesh Kumar S/o Rohtash S/o Tara Chand Vasi Alawalpur
			Private	Agriculture	24//18/1	0.0506	Natthu Ram S/o Surat Singh S/o Shival Vasideh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Private	Agriculture	24//18/2	0.0051	Aash Mohammad, Aashin Khan, Shamsudeen, Aameen Kha Sons of Jahaz Kha S/o Chahat Four Eq. Share 1/5 Share, Hazzi, Nabi, Deen Mohammad Sons of Chahat S/o Bhanu Three Eq. Share 3/5 Share, Gafur, Hakku Sons of Mehjar urf Ganga Two Eq. Share 1/5 Share
			Private	Agriculture	24//19/1	0.0329	Aash Mohammad, Aashin Khan, Shamsudeen, Aameen Kha Sons of Jahaz Kha S/o Chahat Four Eq. Share 1/5 Share, Hazzi, Nabi, Deen Mohammad Sons of Chahat S/o Bhanu Three Eq. Share 3/5 Share, Gafur, Hakku Sons of Mehjar urf Ganga Two Eq. Share 1/5 Share
			Private	Agriculture	24//19/2	0.0076	Aash Mohammad, Aashin Khan, Shamsudeen, Aameen Kha Sons of Jahaz Kha S/o Chahat Four Eq. Share 1/5 Share, Hazzi, Nabi, Deen Mohammad Sons of Chahat S/o Bhanu Three Eq. Share 3/5 Share, Gafur, Hakku Sons of Mehjar urf Ganga Two Eq. Share 1/5 Share
			Private	Agriculture	24//20	0.0430	Aash Mohammad, Aashin Khan, Shamsudeen, Aameen Kha Sons of Jahaz Kha S/o Chahat Four Eq. Share 1/5 Share, Hazzi, Nabi, Deen Mohammad Sons of Chahat S/o Bhanu Three Eq. Share 3/5 Share, Gafur, Hakku Sons of Mehjar urf Ganga Two Eq. Share 1/5 Share
			Private	Agriculture	25//16	0.0379	Smt. Shanti Daughter & Dakhali Widow of Fatan Two Eq. Share
			Private	Agriculture	25//17/1	0.0329	Smt. Shanti Daughter & Dakhali Widow of Fatan Two Eq. Share

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Private	Agriculture	25//17/2	0.0051	Aash Mohammad, Aashin Khan, Shamsudeen, Aameen Kha Sons of Jahaz Kha S/o Chahat Four Eq. Share 1/5 Share, Hazzi, Nabi, Deen Mohammad Sons of Chahat S/o Bhanu Three Eq. Share 3/5 Share, Gafur, Hakku Sons of Mehjar urf Ganga Two Eq. Share 1/5 Share
			Private	Agriculture	25//18/1	0.0152	Aash Mohammad, Aashin Khan, Shamsudeen, Aameen Kha Sons of Jahaz Kha S/o Chahat Four Eq. Share 1/5 Share, Hazzi, Nabi, Deen Mohammad Sons of Chahat S/o Bhanu Three Eq. Share 3/5 Share, Gafur, Hakku Sons of Mehjar urf Ganga Two Eq. Share 1/5 Share
			Private	Agriculture	25//18/2/2	0.0253	Aash Mohammad, Aashin Khan, Shamsudeen, Aameen Kha Sons of Jahaz Kha S/o Chahat Four Eq. Share 1/5 Share, Hazzi, Nabi, Deen Mohammad Sons of Chahat S/o Bhanu Three Eq. Share 3/5 Share, Gafur, Hakku Sons of Mehjar urf Ganga Two Eq. Share 1/5 Share
			Private	Agriculture	25//19/2	0.0025	Aash Mohammad, Aashin Khan, Shamsudeen, Aameen Kha Sons of Jahaz Kha S/o Chahat Four Eq. Share 1/5 Share, Hazzi, Nabi, Deen Mohammad Sons of Chahat S/o Bhanu Three Eq. Share 3/5 Share, Gafur, Hakku Sons of Mehjar urf Ganga Two Eq. Share 1/5 Share
			Private	Agriculture	25//19/3	0.0329	Aash Mohammad, Aashin Khan, Shamsudeen, Aameen Kha Sons of Jahaz Kha S/o Chahat Four Eq. Share 1/5 Share, Hazzi, Nabi, Deen Mohammad Sons of

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Chahat S/o Bhanu Three Eq. Share 3/5 Share, Gafur, Hakku Sons of Mehjar urf Ganga Two Eq. Share 1/5 Share
			Private	Agriculture	25//20/1	0.0101	Aash Mohammad, Aashin Kha, Shamsudeen, Aameen Kha Sons of Jahaz Kha S/o Chahat Four Eq. Share 1/5 Share, Hazzi, Nabi, Deen Mohammad Sons of Chahat S/o Bhanu Three Eq. Share 3/5 Share, Gafur, Hakku Sons of Mehjar urf Ganga Two Eq. Share 1/5 Share
			Private	Agriculture	25//20/2	0.0152	Roshan, Haneef Sons of Vazeer S/o Tajr Two Eq. Share 13/24 Share, Jaan Mohammad, Gafur, Shakur, Vaheed, Fajru Sons of Chhote Kha S/o Jom Kha Five Eq. Share 5/24 Share, Aash Mohammad, Aashin Kha, Shamsudeen, Aameen Kha Sons of Jahaz Kha S/o Chahat Four Eq. Share 1/20 Share
			Private	Agriculture	26//16	0.0025	Roshan, Haneef Sons of Vazeer S/o Tajr Two Eq. Share 13/24 Share, Jaan Mohammad, Gafur, Shakur, Vaheed, Fajru Sons of Chhote Kha S/o Jom Kha Five Eq. Share 5/24 Share, Aash Mohammad, Aashin Kha, Shamsudeen, Aameen Kha Sons of Jahaz Kha S/o Chahat Four Eq. Share 1/20 Share
			Private	Agriculture	26//21	0.0304	Rahish, Majeed, Shamshu Sons of Imrat S/o Himmat Three Eq. Share Bila Rahan Hissa 3/8 Share, Robad S/o Imrat S/o Himmat Rahan Hissa 1/8 Share, Chhote Kha S/o Himmat S/o Dalla Rahan Hissa 1/8 Share Bila Rahan Hissa 3/8 Share, Suresh Kumar S/o Hari Ram S/o Chandra 1/4 Share Vasideh Murthan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Private	Agriculture	26//22	0.0253	Smt. Gyandei Widow of Gulab Singh S/o Maha Ram 1/2 Share, Om Prakash S/o Bhagat Singh S/o Nandlal 1/2 Share Vasideh
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	27//22/1	0.0126	Gram Panchayat
			Private	Agriculture	27//22/2	0.0051	Phool Singh, Jal Singh Sons of Juglal S/o Med Singh Two Eq. Share Vasideh
			Private	Agriculture	27//23/2	0.0405	Phool Singh, Jal Singh Sons of Juglal S/o Med Singh Two Eq. Share Vasideh
			Private	Agriculture	27//24	0.0405	Phool Singh, Jal Singh Sons of Juglal S/o Med Singh Two Eq. Share Vasideh
			Private	Agriculture	27//25	0.0405	Chhote Kha S/o Himmat S/o Dalla 1/2 Share, Raheem, Majeed, Shamshu Sons of Imrat S/o Himmat Three Eq. Share Bila Rahan Hissa 3/8 Share, Robad S/o Imrat S/o Himmat Rahan Hissa 1/8 Share, Suresh Kumar S/o Hari Ram S/o Chandra 1/8 Share Vasideh Murthan
			Private	Agriculture	29//2/2	0.0202	Phool Singh, Jal Singh Sons of Juglal S/o Med Singh Two Eq. Share Vasideh
			Private	Agriculture	29//3	0.0430	Phool Singh, Jal Singh Sons of Juglal S/o Med Singh Two Eq. Share Vasideh
			Private	Agriculture	29//4	0.0405	Phool Singh, Jal Singh Sons of Juglal S/o Med Singh Two Eq. Share Vasideh
			Private	Agriculture	29//5	0.0278	Chhote Kha S/o Himmat S/o Dalla 1/2 Share, Raheem, Majeed, Shamshu Sons of Imrat S/o Himmat Three Eq. Share Bila Rahan Hissa 3/8 Share, Robad S/o Imrat S/o Himmat Rahan Hissa 1/8 Share, Suresh Kumar S/o Hari Ram S/o Chandra 1/8 Share Vasideh Murthan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Private	Agriculture	30//1	0.0202	Rahish, Majeed, Shamshu Sons of Imrat S/o Himmat Three Eq. Share Bila Rahan Hissa 3/8 Share, Robad S/o Imrat S/o Himmat Rahan Hissa 1/8 Share, Chhote Kha S/o Himmat S/o Dalla Rahan Hissa 1/8 Share Bila Rahan Hissa 3/8 Share, Suresh Kumar S/o Hari Ram S/o Chandra 1/4 Share Vasideh Murthan
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-41	0.0126	Gram Panchayat
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-42	0.0051	Gram Panchayat
		(5) Bharangpur	Private	Agriculture	3//11/1	0.0228	Mohammad Iqbal, Mohammad Yakub Sons of Ismile S/o Bhappu Two Eq. Share 1/5 Share, Sultan, Umrav Sons of Bhappu S/o Ruda Two Eq. Share 2/5 Share, Yaseen S/o Bhappu S/o Ruda 2/5 Share, Malik Kabza Smt. Mehtab Kaur Mushtil Khewat No. 087 2/5 Share Vasideh Hakdar Shamlat
			Private	Agriculture	3//11/2	0.0253	Mohammad Iqbal, Mohammad Yakub Sons of Ismile S/o Bhappu Two Eq. Share 1/5 Share, Sultan, Umrav Sons of Bhappu S/o Ruda Two Eq. Share 2/5 Share, Yaseen S/o Bhappu S/o Ruda 2/5 Share, Malik Kabza Smt. Mehtab Kaur Mushtil Khewat No. 087 2/5 Share Vasideh Hakdar Shamlat
			Private	Agriculture	3//12/2	0.0329	Suleman, Subhan Kha, Mallu Noor Mohammad Sons of Nabeer Kha S/o Ruda Four Eq. Share Vasideh
			Private	Agriculture	3//19	0.0658	Suleman, Subhan Kha, Mallu Noor Mohammad Sons of Nabeer Kha S/o Ruda Four Eq. Share Vasideh
			Private	Agriculture	3//20/2	0.0405	Ibrahim S/o Nanha S/o Ruda, Malik Kabza Ayyaub Kha Vagera

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Mushtil Khewat No. 2 Vasideh Hakdar Shamlat
			Private	Agriculture	4//13	0.0025	Iliyas, Khurshid, Tayyab Husain, Fakhrudeen, Rahisa Sons of Sardar S/o Gulab Five Eq. Share, Malkan Kabza Ayyub Kha Vagera Mudraj Khewat No. 2 Vasideh Hakdar Shamlat
			Private	Agriculture	4//14/3	0.0329	Iliyas, Khurshid, Tayyab Husain, Fakhrudeen, Rahisa Sons of Sardar S/o Gulab Five Eq. Share, Malkan Kabza Ayyub Kha Vagera Mudraj Khewat No. 2 Vasideh Hakdar Shamlat
			Private	Agriculture	4//15/3	0.0481	Ibrahim S/o Nanha S/o Ruda, Malik Kabza Smt. Mehtab Kaur Vagera Vasideh Hakdar Shamlat
			Private	Agriculture	4//16	0.0506	Ibrahim S/o Nanha S/o Ruda, Malik Kabza Smt. Mehtab Kaur, Smt. Chiranjji Kaur Daughters of Bishan Two Eq. Share Vasideh Hakdaran Shamlat
			Private	Agriculture	4//17	0.0607	Iliyas, Khurshid, Tayyab Husain, Fakhrudeen, Rahisa Sons of Sardar S/o Gulab Five Eq. Share, Malkan Kabza Mehtab Kaur Vasideh Hakdar Shamlat
			Private	Agriculture	4//18/1	0.0354	Iliyas, Khurshid, Tayyab Husain, Fakhrudeen, Rahisa Sons of Sardar S/o Gulab Five Eq. Share, Malkan Kabza Ayyub Kha Vagera Mudraj Khewat No. 2 Vasideh Hakdar Shamlat
			Private	Agriculture	4//18/2	0.0430	Iliyas, Khurshid, Tayyab Husain, Fakhrudeen, Rahisa Sons of Sardar S/o Gulab Five Eq. Share, Malkan Kabza Ayyub Kha Vagera Mudraj Khewat No. 2 Vasideh Hakdar Shamlat
			Private	Agriculture	4//19	0.0632	Iliyas, Khurshid, Tayyab Husain, Fakhrudeen, Rahisa Sons of Sardar S/o

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Gulab Five Eq. Share, Malkan Kabza Ayyub Kha Vagera Mudraj Khewat No. 2 Vasideh Hakdar Shamlat
			Private	Agriculture	4/20/1	0.0430	Suleman urf Sulli S/o Chand Kha S/o Natthu Vasi Bawla
			Private	Agriculture	4/21/1	0.0455	Raghunath S/o Kunji Lal S/o Adimal
			Private	Agriculture	4/22	0.0101	Mohammad Iqbal, Mohammad Yakub Sons of Ismile S/o Bhappu Two Eq. Share 1/5 Share, Malkan Kabza Smt. Mehtab Kaur, Chiranji Kaur, Amrat Kaur Daughters of Bishan Singh Three Eq. Share Vasideh Hakdaran Shamlat
			Private	Agriculture	4/23	0.0076	Mohammad Iqbal, Mohammad Yakub Sons of Ismile S/o Bhappu Two Eq. Share 1/5 Share, Malkan Kabza Smt. Mehtab Kaur, Chiranji Kaur, Amrat Kaur Daughters of Bishan Singh Three Eq. Share Vasideh Hakdaran Shamlat
			Private	Agriculture	5/16	0.0430	Rishilal, Satbeer Singh, Deep Chand, Pyarelal Sons of Manohar Lal S/o Ram Prashad Four Eq. Share Vasi Kadeepur Gurgaon, Malkan Kabza Arjan Singh S/o Atar Singh Vasideh Hakdar Shamlat
			Private	Agriculture	5/17	0.0556	Rishilal, Satbeer Singh, Deep Chand, Pyarelal Sons of Manohar Lal S/o Ram Prashad Four Eq. Share Vasi Kadeepur Gurgaon, Malkan Kabza Arjan Singh S/o Atar Singh Vasideh Hakdar Shamlat
			Private	Agriculture	5/18	0.0101	Natthu Ram S/o Surat Singh S/o Shivilal Vasideh
			Private	Agriculture	5/21	0.0379	Rishilal, Satbeer Singh, Deep Chand, Pyarelal Sons of Manohar Lal S/o Ram Prashad Four Eq. Share Vasi Kadeepur Gurgaon, Malkan Kabza Arjan Singh S/o Atar Singh Vasideh Hakdar Shamlat

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Private	Agriculture	5//22/1	0.0126	Natthu Ram S/o Surat Singh S/o Shivalal Vasideh
			Private	Agriculture	5//22/2	0.0278	Rishilal, Satbeer Singh, Deep Chand, Pyarelal Sons of Manohar Lal S/o Ram Prashad Four Eq. Share Vasi Kadeepur Gurgaon, Malkan Kabza Arjan Singh S/o Atar Singh Vasideh Hakdar Shamlat
			Private	Agriculture	5//23	0.0430	Natthu Ram S/o Surat Singh S/o Shivalal Vasideh
			Private	Agriculture	5//24/1	0.0126	Natthu Ram S/o Surat Singh S/o Shivalal Vasideh
			Private	Agriculture	5//24/2	0.0278	Raghunath S/o Kunji Lal S/o Adimal
			Private	Agriculture	5//25	0.0405	Rishilal, Satbeer Singh, Deep Chand, Pyarelal Sons of Manohar Lal S/o Ram Prashad Four Eq. Share Vasi Kadeepur Gurgaon, Malkan Kabza Arjan Singh S/o Atar Singh Vasideh Hakdar Shamlat
			Private	Agriculture	6//21	0.0202	Gafur Kha, Mauj Kha, Nasru Kha Sons of Sumer Kha Three Eq. Share 3/4 Share Vasideh, Aleem Mohammad S/o Hajji S/o Chahat 1/4 Share Vasideh niwasi Didhara
			Private	Agriculture	6//22	0.0556	Ishwar Singh S/o Kavar Singh S/o Chand Ram Niwasi Chirag Delhi
			Private	Agriculture	6//23	0.0329	Ishwar Singh S/o Kavar Singh S/o Chand Ram Niwasi Chirag Delhi
			Private	Agriculture	6//24	0.0506	Manish, Manjeet Sons of Smt. Maya W/o Satpal S/o Mahabeer Singh Three Eq. Share Vasi Chirag New Delhi-110017, Malkan Kabza Mehar Singh, Man Singh Sons of Daulata Ram Two Eq. Share Vasideh Hakdaran Shamlat
			Private	Agriculture	6//25/1	0.0379	Ayub Khan, Ishlam, Rashid Sons & Atri Widow of Atar Singh Four Eq. Share 675/1798 Share, Deenu S/o Atri Widow of Atar Singh Rahan Hissa 160/1798 Share Bila Rahan Hissa 64/1798

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Share, Shamshu S/o Itar Kha S/o Himmat Kha 80/899 Share Murthan, Iliyas, Khurshid, Tayab Hussain, Rahisha, Fakrudeen Sons of Sardar Kha S/o Mula Kha Five Eq. Share 1/2 Share Vasideh
			Private	Agriculture	6//25/2	0.0051	Rishilal, Satbeer Singh, Deep Chand, Pyarelal Sons of Manohar Lal S/o Ram Prashad Four Eq. Share Vasi Kadeepur Gurgaon, Malkan Kabza Arjan Singh S/o Atar Singh Vasideh Hakdar Shamlat
			Private	Agriculture	7//23	0.0202	Ayyub Kha, Ishlam, Deenu, Rashid Sons of Atri Widow of Atar Kha Four Eq. Share, Malkan Kabza Ayyub Kha Etc. Mundreja Khewat No. 2 Vasideh Hakdar Shamlat
			Private	Agriculture	7//24	0.0202	Ayyub Kha, Ishlam, Deenu, Rashid Sons of Atri Widow of Atar Kha Four Eq. Share, Malkan Kabza Ayyub Kha Etc. Mundreja Khewat No. 2 Vasideh Hakdar Shamlat
			Private	Agriculture	7//25	0.0278	Ayyub Kha, Ishlam, Deenu, Rashid Sons of Atri Widow of Atar Kha Four Eq. Share, Malkan Kabza Ayyub Kha Etc. Mundreja Khewat No. 2 Vasideh Hakdar Shamlat
			Private	Agriculture	9//1	0.0177	Smt. Resham Devi W/o Sultan Singh S/o Shiv Narayan Bila Rahan Hissa 35/36 Share, Saye Mohammad, Amjad Kha, Lukman Sons of Gafur Three Eq. Share Rahan Hissa 1/108 Share, Subhan Kha S/o Malhu Rahan Hissa 1/54, Ata Mohammad S/o Asroop 1/72 Share, Abdulla S/o Nasru 1/72 Share
			Private	Agriculture	9//2/1	0.0430	Rasheed, Majeed, Shamshu Sons of Imrat S/o Himmar Three Eq. Share Vasideh Didhara

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Private	Agriculture	9//3	0.0354	Ayyub Kha, Ishlam, Deenu, Rashid Sons of Atri Widow of Atar Kha Four Eq. Share Vasideh
			Private	Agriculture	9//4	0.0278	Ayyub Kha, Ishlam, Deenu, Rashid Sons of Atri Widow of Atar Kha Four Eq. Share, Malkan Kabza Ayyub Kha Etc. Mundreja Khewat No. 2 Vasideh Hakdar Shamlat
			Private	Agriculture	9//5	0.0051	Ilyas, Ishlam Saheed, Israil, Mohabbat Urf Kala Sons of Gafoor Kha S/o Sumer Kha Five Eq. Share 1/4 Share, Kasam, Juhru, Farukh, Sahun, Ramjan, Shakir Sons of Shakur Kha S/o Sumer Kha Six Eq. Share 1/4 Share, Mauj Kha, Nashru Kha Sons of Sumer Kha S/o Leela Two Eq. Share 1/2 Share Vasideh
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-101	0.0228	Gram Panchayat
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-29	0.0101	Gram Panchayat
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-30	0.0101	Gram Panchayat
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-31	0.0202	Gram Panchayat
		(6) Taoru	Private	Agriculture	123//7/2	0.0658	Fakrudeen, Buddhi, Yakub Sons of Jodha S/o Noor Kha Three Eq. Share Vasideh
			Private	Agriculture	123//8/2	0.0025	Fakrudeen, Buddhi, Yakub Sons of Jodha S/o Noor Kha Three Eq. Share Vasideh
			Private	Agriculture	123//12	0.0607	Smt. Satwanti W/o Prem Chand S/o Kanwar Lal 1/3 Share, Umardeen S/o Kalu S/o Maan Kha 1/12 Share, M/s Roshal Biotech Ltd. 210 Okhla New Delhi 7/12 Share Vasideh
			Private	Agriculture	123//13	0.0304	Fakrudeen, Buddhi, Yakub Sons of Jodha S/o Noor Kha Three Eq. Share Vasideh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Private	Agriculture	124//20	0.0278	Suresh Kumar S/o Raj Kumar S/o Kali Ram 1/2 Share, Ram Kishore S/o Kishorimal S/o Jagat Narayan 3/10 Share, Rajendra S/o Ganesh Das S/o Tara Chand 1/5 Share Vasideh
			Private	Agriculture	130//12	0.0632	Yaseen S/o Bhappu S/o Ruda Vasi Bharangpur
			Private	Agriculture	130//13	0.0253	Yaseen S/o Bhappu S/o Ruda Vasi Bharangpur
			Private	Agriculture	130//14/1	0.0076	Yaseen S/o Bhappu S/o Ruda Vasi Bharangpur
			Private	Agriculture	130//14/2	0.0304	Umrav S/o Bhappu S/o Ruda Vasideh
			Private	Agriculture	130//14/3	0.0101	Umrav S/o Bhappu S/o Ruda Vasideh
			Private	Agriculture	130//15/1	0.0228	Sultan S/o Bhappu S/o Ruda Vasideh
			Private	Agriculture	130//15/2	0.0228	Akbar, Akhtar Hussain, Shokat Ali, Jakeer Hussain Sons of Hurmat S/o Shadi Five Eq. Share Vasideh
			Private	Agriculture	130//16/1	0.0481	Atru, Deenu Sons of Hoshyar Kha S/o Umar Kha 1/4 Share, Subhan Kha S/o Sumer Kha 1/8 Share, Harun, Jamshed, Jafu Sons of Juhru S/o Sumer Kha Eq. Share 1/8 Share, Sirajudeen, Mehmood Sons of Niwaj Kha S/o Ami Kha Eq. Share 1/2 Share Vasi Bawla
			Private	Agriculture	130//17/2/1/2	0.0025	Umrav S/o Bhappu S/o Ruda Vasideh
			Private	Agriculture	130//17/2/1/3	0.0582	Yaseen S/o Bhappu S/o Ruda Vasi Bharangpur
			Private	Agriculture	130//18/2/1	0.0430	Yaseen Khan S/o Bhappu S/o Ruda khudkasht
			Private	Agriculture	131//11	0.0455	Akbar, Akhtar Hussain, Shokat Ali, Jakeer Hussain Sons of Hurmat S/o Shadi Five Eq. Share Vasideh
			Private	Agriculture	131//12/1	0.0481	Akbar, Akhtar Hussain, Shokat Ali, Jakeer Hussain Sons of Hurmat S/o Shadi Five Eq. Share Vasideh
			Private	Agriculture	131//13	0.0152	Shivlal S/o Puran Khudkasht
			Private	Agriculture	131//14	0.0152	Krishan Dayal, Naresh Kumar Sons & Smt.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Aasha, Surekha Daughters of Deen Dayal S/o Smt. Dhapa Five Eq. Share Vasideh
			Private	Agriculture	131//18	0.0177	Shiv Dayal S/o Puran S/o Girdhari 1/3 Share, Rameshwar S/o Yaad Ram S/o Puran 1/3 Share, Smt. Bhagwani Widow & Jagdish, Leelu, Ramkanwar Sons & Sunita, Soni, Urmila, Chhanno Daughters of Maman Singh S/o Gyasi Eight Eq. Share 1/27 Share, Smt. Shakuntla Widow & Dulichand, Ramdas, Mahesh, Anil Sons & Smt. Geeta, Phulwati, Suman Daughters of Prabhu Dayal S/o Gyasi Eight Eq. Share 1/27 Share, Mehar Chand Son & Smt. Angoori, Ratni, Lali, Ram Bhateri, Sarla, Mayawati Daughters of Gyasi S/o Puran Seven Eq. Share 7/27 Share
			Private	Agriculture	131//19	0.0430	Akbar, Akhtar Hussain, Shokat Ali, Jakeer Hussain Sons of Hurmat S/o Shadi Five Eq. Share Vasideh
			Private	Agriculture	131//20	0.0481	Akbar, Akhtar Hussain, Shokat Ali, Jakeer Hussain Sons of Hurmat S/o Shadi Five Eq. Share Vasideh
			Private	Agriculture	132//6	0.0177	Naveen Kumar, Sachin Kumar Sons of Raghuwar Dayal S/o Pyarelal Two Eq. Share
			Private	Agriculture	132//7	0.0177	Shibhu Dayal S/o Pyarelal S/o Shadi Lal Vasideh
			Private	Agriculture	132//14/1	0.0051	Khalil, Abdul Kareem, Abdul Prashad, Yakub Ahmad, Ayyub Sons of Sirajudeen S/o Niwaj Kha Five Eq. Share 1/2 Share, Jenudeen S/o Mohammad Kha S/o Niwraj Kha Rahan Hissa 1/2 Share, Shiv Charan Dattak Putra Ram Richpal 1/2 Share Vasideh Murthan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Private	Agriculture	132//14/2	0.0101	Khalil, Abdul Kareem, Abdul Prashad, Yakub Ahmad, Ayyub Sons of Sirajudeen S/o Niwaj Kha Five Eq. Share 1/2 Share, Jenudeen S/o Mohammad Kha S/o Niwraj Kha Rahan Hissa 1/2 Share, Shiv Charan Dattak Putra Ram Richpal 1/2 Share Vasideh Murthan
			Private	Agriculture	132//15/1	0.0076	Naveen Kumar, Sachin Kumar Sons of Raghuwar Dayal S/o Pyarelal Two Eq. Share
			Private	Agriculture	132//15/2	0.0354	Khalil, Abdul Kareem, Abdul Prashad, Yakub Ahmad, Ayyub Sons of Sirajudeen S/o Niwaj Kha Five Eq. Share 1/2 Share, Jenudeen S/o Mohammad Kha S/o Niwraj Kha Rahan Hissa 1/2 Share, Shiv Charan Dattak Putra Ram Richpal 1/2 Share Vasideh Murthan
			Private	Agriculture	132//17	0.0025	Khalil, Abdul Kareem, Abdul Prashad, Yakub Ahmad, Ayyub Sons of Sirajudeen S/o Niwaj Kha Five Eq. Share 1/2 Share, Jenudeen S/o Mohammad Kha S/o Niwraj Kha Rahan Hissa 1/2 Share, Shiv Charan Dattak Putra Ram Richpal 1/2 Share Vasideh Murthan
			Private	Agriculture	132//19	0.0025	Shyam Sunder, Mahendra Singh, Surendra Singh Sons of Ram Gopal S/o Ram Prashad Three Eq. Share 15/56 Share, Shiv Charan Dattak Putra Ramrichpal S/o Ganeshi Lal 41/56 Share Vasideh
		(7) Guwarka	Private	Agriculture	12//21	0.0076	Juhrudeen, Ayyub, Khurshid, Sahun, Aameen, Akbar Sons of Hameed Kha S/o Hasham Kha Six Eq. Share Vasi Buraka Taoru
			Private	Agriculture	12//22/2	0.0025	Allahbaksh, Khudabaksh, Hakamdeen Sons of Roshan Kha S/o Bhure

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Kha Three Eq. Share Vasi Buraka Taoru
			Private	Agriculture	12/25/2	0.0025	Roshan S/o Bhure Khan S/o Rehmat 1/2 Share, Hissedar Hameed S/o Hasam 1/2 Share Vasideh
			Private	Agriculture	12/26	0.0051	Juhrudeen, Ayyub, Khurshid, Sahun, Aameen, Akbar Sons of Hameed Kha S/o Hasham Kha Six Eq. Share Vasi Buraka Taoru
			Private	Agriculture	13/17	0.0025	Smt. Saraswati Devi W/o Ram Kanwar S/o Munshi Ram 1/2 Share, Malik Kabza Ayush S/o Ram Kanwar S/o Munshi Ram 1/2 Share, Malik Kabza Karam Singh S/o Krisha Singh Vasideh Hakdar Shamlat
			Private	Agriculture	13/19	0.0051	Smt. Saraswati Devi W/o Ram Kanwar S/o Munshi Ram, Malik Kabza Karam Singh S/o Krisha Singh Vasideh Hakdar Shamlat
			Private	Agriculture	16/1/1/1	0.0329	Ram Kishore Son & Smt. Bhagwati Devi W/o Kirodimal S/o Jai Narayan Das Two Eq. Share 1/2 Share, Hemant, Asish Sons of Rajendra Kumar S/o Kirodimal Two Eq. Share 1/4 Share Vasideh, Rakesh Kumar S/o Lakhpat Rai 1/4 Share Vasi Taoru
			Private	Agriculture	16/1/1/2	0.0101	Hasan Khan, Sohrav, Sahabudeen Sons of Mukarab Three Eq. Share 1/2 Share, Hissedaran Udaybhan, Nashru Sons of Jagdev S/o Mangli Two Eq. Share 1/2 Share Vasideh, Hissedaran Ramkanwar S/o Munshi Ram S/o Miryumal Vasi Taoru Gair Morusi
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	16/1/7/2	0.0051	Gram Panchayat
			Private	Agriculture	16/1/8/1	0.0202	Ram Kishore Son & Smt. Bhagwati Devi W/o Kirodimal S/o Jai Narayan Das Two Eq. Share 1/2 Share, Hemant, Asish Sons

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							of Rajendra Kumar S/o Kirodimal Two Eq. Share 1/4 Share Vasideh, Rakesh Kumar S/o Lakhpat Rai 1/4 Share Vasi Taoru
			Private	Agriculture	16//4	0.0025	Ram Kishore Son & Smt. Smt. Bhagwati Devi W/o Kirodimal S/o Jai Narayan Two Eq. Share 1/2 Share
			Private	Agriculture	17//5/3/3	0.0051	Smt. Saraswati W/o Ram Kanwar S/o Munshi Ram Vasi Gurgaon
			Private	Agriculture	17//9/1	0.0025	Jaggu S/o Dammu S/o Kabeer 1/2 Share Vasideh, Juhudeen, Ayyub, Khurshid Sons of Hameed Kha S/o Hasam Three Eq. Share Vasi Buraka Taoru
			Private	Agriculture	18//1/2/2	0.0025	Bijender Singh S/o Sube Singh Singh S/o Dharam Singh 5/6 Share Vasi Ishlampur Tehsil & District Gurgaon, Smt. Mayadevi W/o Chetram S/o Kude Ram 1/24 Share, Sunil Kumar S/o Ram Avtar S/o Gopi Chand 1/24 Share, Smt. Shashi Devi W/o Nem Chand S/o Mohan Lal 1/24 Share, Smt. Rekha Devi W/o Anil Kumar S/o Banwari Lal 1/24 Share Vasideh
			Private	Agriculture	18//5/2	0.0025	Juhudeen, Ayyub, Khurshid, Sahun, Aameen, Akbar Sons of Hameed Kha S/o Hasham Kha Six Eq. Share Vasi Buraka Taoru
			Private	Agriculture	18//6/1/2	0.0051	Hurmat S/o Dal Kha S/o Phul Kha 1/2 Share, Wahid, Sadeer, Saleem Sons of Taheel S/o Dal Kha Three Eq. Share 1/2 Share Vasideh
			Private	Agriculture	18//10/1	0.0051	Smt. Maya Devi W/o Chet Ram S/o Kude Ram 1/4 Share, Sunil Kumar S/o Ram Avtar S/o Gopi Chand 1/4 Share, Smt. Shashi Devi W/o Nem Chand S/o Mohan Lal 1/4 Share, Smt. Rekha Devi W/o Anil Kumar S/o Banwari Lal 1/4 Share Vasideh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Private	Agriculture	18//13/1	0.3035	Ishak, Naseer, Harun, Jarjeet, Shaukat, Mubin, Habijur Rehman Sons of Yaseen Khan S/o Mangli Severn Eq. Share 1/4 Share, Jassu, Ismile Sons of Mangli S/o Kalu Two Eq. Share 1/2 Share, Mohammad Harun S/o Jeevan Kha S/o Mangli 1/4 Share Vasideh
			Private	Agriculture	19//5/2	0.0025	Smt. Judeba W/o Pehludeen S/o Ayyub 1/12 Share Vasi Chharaula, Sahukar S/o Yameen Kha S/o Meer Kha 1/48 Share, Smt. Aaysha W/o Sher Mohammad S/o Maujudeen 1/12 Share, Ashlam S/o Ishab S/o Natthu 5/48 Share, Mohammad Taheer, Mohammad Rashid Sons of Ibrahim S/o Chand Kha Two Eq. Share 1/36 Share
			Private	Agriculture	19//6/1	0.0025	Bijendra Singh S/o Sube Singh S/o Dharam Singh Vasi Ishlampur Tehsil Gurgaon
			Private	Agriculture	19//6/2	0.0025	Bijendra S/o Sube Singh S/o Dharam Singh Vasi Ishlampur Tehsil & District Gurgaon
			Private	Agriculture	19//8/2	0.0177	Surajmal S/o Nihal Singh S/o Bhola Ram 471/5875 Share Malik Kabza, Dharam Veer S/o Satveer S/o Nihal Singh 471/5875 Share Malik Kabza, Manoj Kumar S/o Braham Prakash S/o Nihal Singh 413/5875 Share Malik Kabza, Virendra S/o Bheem Singh S/o Nihal Singh 413/5875 Share Malik Kabza, Dharam Veer S/o Satveer S/o Nihal Singh 751/58750 Share
			Private	Agriculture	19//11/2	0.0025	Hari Singh, Mohanlal, Yograj, Chunni Lal, Bheem Sain, Leeladhar Sons & Smt. Krishnawati, Radha Bai, Ishwar Bai, Veenawali, Pushpa, Rajrani, Neelam Kumari

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Daughters & Smt. Teeka Bai Widow of Sahabram S/o Golaram Thirteen Eq. Share Vasi Taoru
			Private	Agriculture	19//11/3/1	0.0025	Unnas, Juber Sons of Rojdar S/o Wajeera Two Eq. Share 1/2 Share, Roje Kha, Rehman Sons of Chandra Kha S/o Wajeera Two Eq. Share 1/2 Share Vasideh
			Private	Agriculture	19//13/1	0.0051	Virendra S/o Bheem Singh S/o Nihal Singh 199/11750 Share Malik Kabza, Surajmal S/o Nihal Singh S/o Bholaram 471/5875 Share Malik Kabza, Dharamveer S/o Satveer S/o Nihal Singh 231/11750 Share Malik Kabza, Virendra S/o Bheem Singh S/o Nihal Singh 231/11750 Share Share Malik Kabza, Manoj Kumar S/o Braham Prakash S/o Nihal Singh
			Private	Agriculture	20//6/3	0.0076	Sahabdeen S/o Mukaran S/o Mangli 1/12 Share, Hurmal, Dhup Kha Sons of Dal Kha S/o Phul Kha Two Eq. Share 1/6 Share, Smt. Jameela W/o Sahabdeen S/o Mukaran 1/6 Share
			Private	Agriculture	20//9	0.0101	Ajay Kaila S/o Balraj Kaila S/o Ganpat Kaila Vasideh
			Private	Agriculture	20//10	0.0228	Ajay Kaila S/o Balraj Kaila S/o Ganpat Kaila Vasideh
			Private	Agriculture	20//11	0.0253	Rehman, Rojekha Sons of Chandra Kha S/o Wajeera Two Eq. Share 1/2 Share, Yunus, Juber Mohammad Sons of Rojdar S/o Wajeera Two Eq. Share 1/2 Share Vasideh
			Private	Agriculture	20//12/1	0.0051	Rehman, Rojekha Sons of Chandra Kha S/o Wajeera Two Eq. Share 1/2 Share, Yunus, Juber Mohammad Sons of Rojdar S/o Wajeera Two Eq. Share 1/2 Share Vasideh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Private	Agriculture	20//12/2	0.0051	Rehman, Rojekha Sons of Chandra Kha S/o Wajeera Two Eq. Share 1/3 Share, Yunus, Juber Mohammad Sons of Rojdar S/o Wajeera Two Eq. Share 1/3 Share Arajai Matruka Gair Alatsuda 1/3 Share Vasideh
			Private	Agriculture	20//12/3	0.0025	Rehman, Rojekha Sons of Chandra Kha S/o Wajeera Two Eq. Share 1/2 Share, Yunus, Juber Mohammad Sons of Rojdar S/o Wajeera Two Eq. Share 1/2 Share Vasideh
			Private	Agriculture	20//14/3	0.0025	Hammed S/o Nihal Kha Vasideh
			Private	Agriculture	20//15/1	0.0051	Hammed S/o Nihal Kha Vasideh
			Private	Agriculture	20//15/2	0.0076	Unnas S/o Rojdar S/o Wajeera Vasideh
			Private	Agriculture	20//26	0.0202	Jumma S/o Tayyab 2/85 Share, Hameed S/o Niwaz Kha 2/85 Share Vasideh, Smt. Rambhuli W/o Ganga Ram S/o Ishwar Das 1/85 Share Vasi Taoru
			Private	Agriculture	21//15	0.0076	Rehman, Rojekha Sons of Chandra Kha S/o Wajeera Two Eq. Share 1/2 Share, Yunus, Juber Mohammad Sons of Rojdar S/o Wajeera Two Eq. Share 1/2 Share Vasideh
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-101	0.0177	Panchayat Deh
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-98	0.0101	Panchayat Deh
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	36	0.1518	Panchayat Deh
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	45	0.0379	Panchayat Deh
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-109	0.0329	Panchayat Deh
		(8) Buraka	Private	Non-Agriculture	1//25	0.0101	Ferm Roshal Biotech Ltd. Insustrial Estate, New Delhi Vasideh
			Private	Non-Agriculture	2//17/1/1	0.0025	Ferm Inovetive Outsourcing Pvt. Ltd. 245/381 Share, Kamur S/o Jodha S/o Kauni 91/381 Share, Budhi S/o Jodha S/o Kauni 15/127 Share Vasideh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Private	Non-Agriculture	2//18/1	0.0202	Ferm Inovetive Outsourcing Pvt. Ltd. 245/381 Share, Kamur S/o Jodha S/o Kauni 91/381 Share, Budhi S/o Jodha S/o Kauni 15/127 Share Vasideh
			Private	Non-Agriculture	2//20	0.0101	Ferm Roshal Biotech Ltd. Insustrial Estate, New Delhi Vasideh
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	35	0.2074	Panchayat Deh
		(9) Rahedi	Private	Agriculture	24//24	0.0025	Sahajmal, Sahaj Kha, Ashraf Sons of Kawal Kha S/o Khuda Baksh Three Eq. Share 1/4 Share, Jumma Kha, Shame Mohammad Sons of Mawasi S/o Khudabaksh Two Eq. Share 1/4 Share, Jabar Kha, Jaum Kha Sons of Ibrahim S/o Peerbaksh Two Eq. Share 1/4 Share, Ammi S/o Hasmlal S/o Khudabaksh 1/4 Share
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	28//6	0.0228	Panchayat Deh
			Private	Agriculture	29//5	0.0076	Aasham Urf Gunga, Nawab Sons of Chav Kha Two Eq. Share 1/3 Share, Hashnu, Kalu, Kamrudeen, Aashu Sons of Munshi S/o Najar Kha Four Eq. Share 1/3 Share, Pehlu, Shorab, Bhattu, Dilawar, Jafu, Ishlam, Saleel Sons of Imam Kha S/o Najar Kha Seven Eq. Share 1/3 Share Vasideh
			Private	Agriculture	29//6/2	0.0101	Aasham Urf Gunga, Nawab Sons of Chav Kha Two Eq. Share 1/3 Share, Hashnu, Kalu, Kamrudeen, Aashu Sons of Munshi S/o Najar Kha Four Eq. Share 1/3 Share, Pehlu, Shorab, Bhattu, Dilawar, Jafu, Ishlam, Saleel Sons of Imam Kha S/o Najar Kha Seven Eq. Share 1/3 Share Vasideh
			Private	Agriculture	29//7/2	0.0152	Ayyub S/o Munga S/o Bakhtawar 1/2 Share, Mehmuda, Ali Mohammad

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Sons of Dalsher Two Eq. Share 1/9 Share, Ishak, Almudeen Sons of Dalsher S/o Umrav Two Eq. Share 1/6 Share, Ata Mohammad, Innas Sons of Lal Kha S/o Umrav Two Eq. Share 1/6 Share, Saheed Ahmad S/o Batlu S/o Nuru 1/18 Share Vasideh
			Private	Agriculture	29//8	0.0025	Ayyub S/o Munga S/o Bakhtawar 1/2 Share, Mehmuda, Ali Mohammad Sons of Dalsher Two Eq. Shae 1/9 Share, Ishak, Almudeen Sons of Dalsher S/o Umrav Two Eq. Share 1/6 Share, Ata Mohammad, Innas Sons of Lal Kha S/o Umrav Two Eq. Share 1/6 Share, Saheed Ahmad S/o Batlu S/o Nuru 1/18 Share Vasideh
			Private	Agriculture	29//12/1	0.0025	Rajjak S/o Isha S/o Bhondu Vasideh
			Private	Agriculture	29//12/2	0.0025	Rajjak S/o Isha S/o Bhondu Vasideh
			Private	Agriculture	29//14	0.0304	Rajjak S/o Isha S/o Bhondu Vasideh
			Private	Agriculture	30//1/2	0.0051	Chakariya, Ajmal Sons of Bhoval S/o Fateh Mohammad Two Eq. Share 2/3 Share Vasideh, Ferm Roshal Biotech Ltd. 1/3 Share Vasi 210 Okhla Industrial East New Delhi
			Private	Non-Agriculture	30//2	0.0076	Ferm Roshal Biotech Ltd. 1/2 Share Vasi Okhla Industrial Area New Delhi, Aasham, Nashru, Hameed Ahmad, Fareed, Fatte, Saheed Sons of Chandmal S/o Buddha Six Eq. Share 1/2 Share Vasideh
			Private	Agriculture	30//6	0.0025	Sumer Kha, Khiddi, Jagdish Sons of Habbad Three Eq. Share Vasideh
			Private	Agriculture	30//8	0.0076	Aasham, Nashru, Hameed, Ahmad, Fareed, Fatte, Saheed Sons of Chandmal S/o Buddha Seven Eq. Share 1/2 Share, Naseeb

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Kha S/o Buddha S/o Bhagmal 1/2 Share Vasideh
			Private	Agriculture	30//11	0.0025	Yakub S/o Bakhtu S/o Bhura 1/4 Share Malik Kabza, Bahid S/o Suleman S/o Jagmal 1/8 Share Malik Kabza, Ayyub S/o Jagmal S/o Bakhtu 1/8 Share Malik Kabza, Suleman S/o Jagmal S/o Bakhtu 1/4 Share Malik Kabza Vasideh
			Private	Agriculture	30//12	0.0025	Yakub S/o Bakhtu S/o Bhura 1/4 Share Malik Kabza, Bahid S/o Suleman S/o Jagmal 1/8 Share Malik Kabza, Ayyub S/o Jagmal S/o Bakhtu 1/8 Share Malik Kabza, Suleman S/o Jagmal S/o Bakhtu 1/4 Share Malik Kabza Vasideh
			Private	Agriculture	31//4	0.0025	Kalu, Huru Sons of Yaseen S/o Jagdev Two Eq. Share 1/3 Share, Ishab, Deenu, Nashru, Isha, Saddik Sons of Mangal S/o Imrat Five Eq. Share 1/3 Share, Aash Mohammad S/o Buddhu 1/21 Share, Haneef, Shamshu, Ali Mohammad, Majeed, Waheed, Iqbal Sons of Budhu S/o Imrat Six Eq. Share 2/7 Share Vasideh
			Private	Agriculture	31//5	0.0051	Kalu, Huru Sons of Yaseen S/o Jagdev Two Eq. Share 1/3 Share, Ishab, Deenu, Nashru, Isha, Saddik Sons of Mangal S/o Imrat Five Eq. Share 1/3 Share, Aash Mohammad S/o Buddhu 1/21 Share, Haneef, Shamshu, Ali Mohammad, Majeed, Waheed, Iqbal Sons of Budhu S/o Imrat Six Eq. Share 2/7 Share Vasideh
			Gram Panchayat	Non- Agriculture	R-45	0.0455	Gram Panchayat Deh
			Gram Panchayat	Non- Agriculture	R-48	0.0101	Gram Panchayat Deh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-57	0.0025	Gram Panchayat Deh
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-266	0.0304	Gram Panchayat Deh
		(10) Malaka	Private	Agriculture	4//17/2	0.0051	Shamsu S/o Jasru S/o Budha 1/2 Share, Sulhad S/o Budha S/o Kanhiya 2/7 Share, Bhambad, Jumma Sons of Budha S/o Kanhiya Eq. Share 1/2 Share, Shabuddin, Rukamdeen Sons of Nasru S/o Budha Sambhag 1/6 Share.
			Private	Agriculture	4//17/3	0.0025	Mohammad Saddik, Dariya Khan Sons of Sulemaan S/o Bhoop Singh Two Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	4//21/1	0.0405	Umrav, Najar Mohammad Sons of Badli S/o Avej Two Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	4//22/1	0.0025	Subhan Khan, Khurshid, Subekha, Shahoon Sons of Yaseen Four Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	4//23/1	0.0025	Nassi, Hamidi, Bassi, Futri, Sutri, Ramjani Daughters of Fatma Widow of Khaddha Six Eq. Share 3/56 Share, Shabuddin, Sagru Sons of Asri D/o Fatma Two Eq. Share 1/112 Share, Sugad Urf sagar S/o Ghamandi 1/16 Share, Changa S/o Ghamandi 1/16 Share, Sardar S/o Ghamandi 1/16 Share, Budhu S/o Asloop Khan S/o Chotta 1/4 Share, Katola, Jom Khan Sons of Salem S/o Choota Two Eq. Share 1/6 Share, Rahmuddin S/o Kamruddin S/o Salem 1/12 Share, Israil, Andhu Sons of Ali Mohammad S/o Mehar Khan Two Eq. Share 1/4 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	4//24/2	0.0076	Juber Son & Smt. Sharifan Widow of Deen Mohammad S/o Med Khan Two Eq. Share 1/2 Share, Aas Mohammad S/o Med Khan S/o Kamlu 1/2 Share Vasi Deh.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Private	Agriculture	5//25	0.0025	Umrav, Najar Mohammad Sons of Badli S/o Avej Two Eq. Share Vasideh.
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	19	0.0556	Gram Panchyat Deh.
		(11) Dalaka	Private	Agriculture	9//13	0.0101	Sardar S/o Ghamandi S/o Chutna Vasideh.
			Private	Agriculture	9//15	0.0025	Deena, Saraju, Mishru, Noordeen Sons of Shadi S/o Kale Khan Four Eq. Share 1/5 Share, Ali Sher S/o Dani S/o Kale Khan 1/5 Share, Bhagmal, Sahabudeen, Salim Sons of Jumma S/o Kale Khan Three Eq. Share 1/5 Share, Khurshid Ahmed, Hamid, Wahid, Mahmud Sons of Samme Khan S/o Kale Khan Four Eq. 4/25 Share, Jasrat, Abdulla, Irshaad, Mohmdeen, Umardeen Sons of Shadi S/o Shamme Five Eq. Share 1/25 Share Vasideh, Pehlu S/o Firoj Khan S/o Kale Khan 1/5 Share Vasi Malhaka.
			Private	Agriculture	9//16/2	0.0228	Sardar S/o Ghamandi S/o Chutta Vasi Malhaka.
			Private	Agriculture	10//5/2	0.0101	Amru, Chahat Sons of Kamlu S/o Kanhiya Two Eq. Share 1/18 Share, Atar Khan S/o Chandru 1/18 Share, Jumma, Jamal, Jasmaal, Atmal Sons of Kanhiya S/o Looda Four Eq. Share 2/9 Share, Sadrudeen S/o Karim S/o Munshi 1/36 Share, Munsaid S/o Dhoop Singh S/o Daula 1/12 Share, Ikbal S/o Rahmaan S/o Munshi 1/36 Share, Rahim S/o Munshi S/o Daula 1/36 Share, Hasan Mohammad, Aas Mohammad, Nasrudeen, Amru Sons of Budhi S/o Daula Four Eq. Share 1/12 Share, Khurshid, Aamin Sons of Budh Singh S/o Daula Two Eq. Share 1/12 Share, Kamal S/o Begraj Urf

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Chanda S/o Husaina 1/6 Share, Yaseen, Mauji Sons of Ghosi S/o Husaina Two Eq. Share 1/6 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	10/7/1	0.0202	Shamsu, Sahabuddin, Rudmudeen Sons of Nasru S/o Budha Three Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	10/7/3	0.0025	Shamsu, Sahabuddin, Rudmudeen Sons of Nasru S/o Budha Three Eq. Share 1/4 Share, Jumme Khan, Bhambad, Sulhad Sons of Budha S/o Kanhiya Three Eq. Share 3/4 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	10/8	0.0253	Shamsu, Sahabuddin, Rudmudeen Sons of Nasru S/o Budha Three Eq. Share 1/4 Share, Jumme Khan, Bhambad, Sulhad Sons of Budha S/o Kanhiya Three Eq. Share 3/4 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	10/9	0.0076	Khurshid Ahmad, Hamind, Jahid, Mahmud Sons of Shamme S/o Kale Khan Four Eq. Share 4/5 Share Vasideh, Jasrat, Abdulla, Irshaad, Mohmadin, Umardeen Sons of Shahid S/o Shamme Khan Five Eq. Share 1/5 Share Vasi Malhaka.
			Private	Agriculture	10/11/1	0.0076	Shakur S/o Jahaj 5/98 Share, Nasru S/o Shadi 5/98 Share, Ishak, Rajjak, Noor Deen, Shaukat Sons of Umed Four Eq. Share 5/98 Share, Khurshid, Hamid, Wahid, Mahmud Sons of Shamme Four Eq. Share 5/98 Share, Jasrat, Abdulla, Irshaad, Mohamdeen, Umerdeen Sons of Shahid Five Eq. Share 1/98 Share, Hayat Khan S/o Sardar Khan S/o Ghamandi 3/14 Share, Bhagmal, Shabudeen, Salim Sons of Jumma S/o Kale Khan Three Eq. Share 18/49 Share,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Kapura, Jahaj Khan Sons of Firoj Khan Two Eq. Share 5/49 Share Vasideh, Pehlu S/o Firoj Khan S/o Kale Khan 5/49 Share Vasi Malhaka.
			Private	Agriculture	10//11/2	0.0025	Ishak, Nasrudeen, Rajjak, Shaukat Sons of Umed Khan S/o Jahaj Khan Four Eq. Share 1/3 Share, Vasideh Kapur Khan, Shakur Khan Sons of Jahaj Khan Two Eq. Share 2/3 Share Vasi Malhaka.
			Private	Agriculture	10//12	0.0101	Deena, Saraju, Mishru, Noordeen Sons of Shadi S/o Kale Khan Four Eq. Share 1/2 Share Vasideh, Jahid, Shahid Sons of Rahish Khan S/o Samay Khan Two Eq. Share 1/2 Share Vasi Malhaka.
			Private	Agriculture	10//13	0.0177	Jumma Khan, Bhambad, Sulhad Sons of Buddha S/o Kanhiya Three Eq. Share 3/4 Share Vasideh, Shamsu, Shabudeen, Rukmudeen Sons of Nasru S/o Budha Three Eq. Share 1/4 Share Vasi Malhaka.
			Private	Agriculture	10//14	0.0152	Deen Mohammad, Jamil Mohammad Sons of Fajjar S/o Kallu Two Eq. Share 1/3 Share, Nisar, Abbas, Taufik Sons of Lakhpat S/o Fajjar Three Eq. Share 1/6 Share Vasideh, Aslup S/o Sugad Khan S/o Umed Khan 1/2 Share Vasi Kharkhadi.
			Private	Agriculture	10//15	0.0152	Deen Mohammad, Jamil Mohammad Sons of Fajjar S/o Kallu Two Eq. Share 1/3 Share, Nisar, Abbas, Taufik Sons of Lakhpat S/o Fajjar Three Eq. Share 1/6 Share Vasideh, Aslup S/o Sugad Khan S/o Umed Khan 1/2 Share Vasi Kharkhadi.
			Private	Agriculture	10//19	0.3465	Shamsu, Sahabuddin, Rudmudeen Sons of Nasru S/o Budha 1/4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Share, Jumme Khan, Bhambad, Sulhad Sons of Budha S/o Kanhiya 3/4 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	10//20	0.0051	Ishak, Nasrudeen, Rajjak, Shaukat Sons of Umed Khan S/o Jahaj Khan Four Eq. Share 1/3 Share Vasideh, Kapur Khan, Shakur Khan Sons of Jahaj Khan Two Eq. Share 2/3 Share Vasi Malhaka.
			Private	Agriculture	11//1	0.0430	Ashraf S/o Sharif Khan S/o Chotte Khan 8/9 Share, Sadrudeen S/o Karim Khan 1/36 Share, Munfed S/o Dhoop Singh 1/12 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	11//2	0.0481	Ashraf S/o Sharif Khan S/o Chotte Khan 8/9 Share, Sadrudeen S/o Karim Khan 1/36 Share, Munfed S/o Dhoop Singh 1/12 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	11//3	0.0278	Wajir, Ramjaan, Ramjaani, Rojdar Sons of Jai Singh S/o Allabaksh Four Eq. Share Vasideh Kharkhadi.
			Private	Agriculture	11//9	0.0202	Ashraf S/o Sharif Khan S/o Chotte Khan 8/9 Share, Sadrudeen S/o Karim Khan 1/36 Share Munfed S/o Dhoop Singh 1/12 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	11//10/1	0.0051	Ashraf S/o Sharif Khan S/o Chotte Khan 8/9 Share, Sadrudeen S/o Karim Khan 1/36 Share Munfed S/o Dhoop Singh 1/12 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	11//10/2	0.0177	Amru, Chahat Sons of Kamlu S/o Kanhiya Two Eq. Share 1/18 Share, Atar Khan S/o Chandru 1/18 Share, Jumma, Jamal, Jasmaal, Atmal Sons of Kanhiya S/o Luda Four Eq. Share 2/9 Share, Sadrudeen S/o Karim S/o Munshi 1/36 Share, Munsaid S/o Dhoop Singh, Daula 1/12 Share, Ikbal S/o Rahmaan S/o Munshi 1/36 Share, Rahim S/o

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Munshi S/o Daula 1/36 Share, Hasan Mohamman, Aas Mohammad, Nasrudeen, Amru Sons of Budhi S/o Daula Four Eq. Share 1/12 Share, Khurshid, Aamin Sons of Budh Singh S/o Daula Two Eq. Share 1/12 Share, Kamal S/o Begraj Urf Chanda S/o Husaina 1/6 Share, Yaseen, Mauji Sons of Ghosi S/o Husaina Two Eq. Share 1/6 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	6//15	0.0101	Sallu, Deenu Sons of Ruda S/o Chotte Khan Two Eq. Share 2/3 Share, Noor Mohammad S/o Chajju S/o Ruda 1/3 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	6//16/1	0.0329	Salem S/o Mallu S/o Mohammad Baksh.
			Private	Agriculture	6//16/2	0.0379	Juhru, Fajar Khan Sons of Jahaj Khan S/o Peeru Two Eq. Share 1/2 Share, Raslu, Rajaak Sons of Sumer Khan S/o Peeru Two Eq. Share 1/5 Share Vasideh, Noor Mohammad, Roojdar Sons of Sumer Khan S/o Peeru Two Eq. Share 3/10 Share Vasi Kharkhadi.
			Private	Agriculture	6//18/1	0.0354	Juhru, Fajar Khan Sons of Jahaj Khan S/o Peeru Two Eq. Share 1/2 Share, Raslu, Noor Mohammad, Rojdar, Rajaak Sons of Sumer Khan S/o Peeru Four Eq. Share 2/5 Share Vasideh, Rahish S/o Yaseen S/o Roda 1/10 Share Vasi Kharkhadi.
			Private	Agriculture	6//22	0.0278	Juhru, Fajar Khan Sons of Jahaj Khan S/o Peeru Two Eq. Share 1/2 Share, Raslu, Noor Mohammad, Rojdar, Rajaak Sons of Sumer Khan S/o Peeru Four Eq. Share 2/5 Share Vasideh, Rahish S/o Yaseen S/o Roda 1/10 Share Vasi Kharkhadi.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Private	Agriculture	6//23/1	0.0202	Juhru, Fajar Khan Sons of Jahaj Khan S/o Peeru Two Eq. Share 1/2 Share, Raslu, Noor Mohammad, Rojdar, Rajaak Sons of Sumer Khan S/o Peeru Four Eq. Share 2/5 Share Vasideh, Rahish S/o Yaseen S/o Roda 1/10 Share Vasi Kharkhadi.
			Private	Agriculture	6//23/2	0.0152	Wajir, Ramjaan, Ramjaani, Rojdar Sons of Jai Singh S/o Allabaksh Four Eq. Share Vasideh Kharkhadi.
			Private	Agriculture	6//24	0.0860	Juhru, Fajar Khan Sons of Jahaj Khan S/o Peeru Two Eq. Share 1/2 Share, Raslu, Noor Mohammad, Rojdar, Rajaak Sons of Sumer Khan S/o Peeru Four Eq. Share 2/5 Share Vasideh, Rahish S/o Yaseen S/o Roda 1/10 Share Vasi Kharkhadi.
			Private	Agriculture	5//2/1	0.0177	Nasru S/o Roda S/o Maid Khan.
			Private	Agriculture	5//2/2	0.0025	Mangal, Husaina, Deen Mohammad Sons of Maed Khan Urf Umed Khan S/o Roma Three Eq. Share Vasedeh.
			Private	Agriculture	5//3/1	0.0076	Mangal, Husaina, Deen Mohammad Sons of Maed Khan Urf Umed Khan S/o Roma Three Eq. Share Vasedeh.
			Private	Agriculture	5//3/2	0.0152	Ishak, Ilyas, Ibrahim, Khalil Ahmad Sons of Deen Mohammad S/o Sumer Four Eq. Share 3/16 Share, Yunus, Nasru Sons of Juhar Khan S/o Sadru Two Eq. Share 3/32 Share, Ali Mohammad S/o Najru S/o Najbu 3/16 Share, Jumme Khan S/o Sadru 3/32 Share, Sher Mohammad S/o Husain Khan S/o Ajim 20/1037 Share, Fajru S/o Najir 149/4148 Share, Sataar S/o Chaav Khan S/o Phul Singh 15/2074 Vasideh.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Private	Agriculture	5//9/2	0.0329	Kamrudeen, Rashid, Hanif, Rahish Sons of Aaseen S/o Roda Four Eq. Share 1/15 Share, Shamsudeen, Islamuddin Sons of Husain Khan S/o Roda Two Eq. Share 1/15 Share, Nasru S/o Roda S/o Maid Khan 1/15 Share, Tayyab, Shabuddin, Asrudeen, Mustaak Sons of Lukki Urf Alabaksh Four Eq. Share 1/45 Share, Subhan Khan, Ishak Sons of Nooru S/o Roda Two Eq. Share 1/15 Share Vasideh
			Private	Agriculture	5//9/3	0.0076	Aashu, Shahabuddin Sons of Chotna Two Eq. Share 1/6 Share, Roojdar S/o Kale Khan 1/12 Share, Ayyub, Liyakat Sons of Rahim Baksh Two Eq. Share 1/12 Share Vasideh, Kale Khan, Chuttan urf Chutna Sons of Mev Khan S/o Taaj Khan Two Eq. Share 2/3 Share Vasi Kharkhadi .
			Private	Agriculture	5//10	0.0278	Aashu, Shahabuddin Sons of Chotna Two Eq. Share 1/6 Share, Roojdar S/o Kale Khan 1/12 Share, Ayyub, Liyakat Sons of Rahim Baksh Two Eq. Share 1/12 Share Vasideh, Kale Khan, Chuttan urf Chutna Sons of Mev Khan S/o Taaj Khan Two Eq. Share 2/3 Share Vasi Kharkhadi.
			Private	Agriculture	5//11/1	0.0430	Sallu, Deenu Sons of Ruda S/o Chotte Khan Two Eq. Share 2/3 Share, Noor Mohammad S/o Chajju S/o Ruda 1/3 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	1//15	0.0607	Fajru, Nasira Sons of Bhola Urf Dhammu S/o Mangtu Two Eq. Vasi Kharkhadi.
			Private	Agriculture	1//16	0.0051	Fajru, Nasira Sons of Bhola Urf Dhammu S/o Mangtu Two Eq. Vasi Kharkhadi.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Private	Agriculture	1//17/1	0.0379	Fajru, Nasira Sons of Bhola Urf Dhammu S/o Mangtu Two Eq. Vasi Kharkhadi.
			Private	Agriculture	1//17/2	0.0329	Fajru, Nasira Sons of Bhola Urf Dhammu S/o Mangtu Two Eq. Vasi Kharkhadi.
			Private	Agriculture	1//23/1	0.0101	Ishak, Ilyas, Ibrahim, Khalil Ahmad Sons of Deen Mohammad S/o Sumer Four Eq. Share 7/32 Share, Yunus, Nasru Sons of Juhar Khan S/o Sadru Two Eq. Share 7/64 Share, Jumma S/o Sadru 7/64 Share, Ali Mohammad S/o Najru S/o Najbu 7/32 Share Vasideh, Sher Mohammad S/o Hussain Khan S/o Ajim 7/64 Share Vasi Dhulawat, Sattar S/o Chaav Khan S/o Phool Singh 5/1416 Share, Fajru S/o Nasir S/o Umed 7/32 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	1//23/2	0.0101	Edu, Juber, Jaikam, Jakir Sons of Murad S/o Sugdu Four Eq. Share 1/2 Share, Ramjaan S/o Sugdu S/o Jain Khan 1/2 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	1//24	0.0177	Fajru, Nasira Sons of Bhola Urf Dhammu S/o Mangtu Two Eq. Vasi Kharkhadi.
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-51	0.0051	Panchyat Deh.
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	30	0.0632	Panchyat Deh.
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-44	0.0304	Panchyat Deh.
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-37	0.0051	Panchyat Deh.
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-29	0.0734	Panchyat Deh.
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	40	0.0683	Panchyat Deh.
		(12) Kharkhari	Gram Panchayat	Non-Agriculture	21//7/2	0.0076	Gram Panchyat Deh Vasideh.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Private	Agriculture	21//13	0.0202	Najir, Majid, Rajmal Sons of Ubed S/o Allahbaksh Three Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	21//14	0.0759	Najir, Majid, Rajmal Sons of Ubed S/o Allahbaksh Three Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	21//18/1	0.0051	Najir, Majid, Rajmal Sons of Ubed S/o Allahbaksh Three Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	21//18/2	0.0481	Badleram, Totaram, Jaatram, Deegram Sons & Suneri, Prembati Daughters & Prayali Widow of Ram Saroop Seven Eq. Share 1/4 Share, Lakhiram, Yaadram, Maamraj Sons & Rimti Kela, Lachyo, Angoori, Sharbati Daughters of Gyasi S/o Bhambad Seven Eq. Share 1/4 Share, Maam Chand S/o Bhambad S/o Daya Kishan 1/4 Share, Smt. Kela Widow of Shibbu S/o Bhambad 1/4 Share Vasideh
			Private	Agriculture	21//19/1	0.0126	Badleram, Totaram, Jaatram, Deegram Sons & Suneri, Prembati Daughters & Prayali Widow of Ram Saroop Seven Eq. Share 1/4 Share, Lakhiram, Yaadram, Maamraj Sons & Rimti Kela, Lachyo, Angoori, Sharbati Daughters of Gyasi S/o Bhambad Seven Eq. Share 1/4 Share, Maam Chand S/o Bhambad S/o Daya Kishan 1/4 Share, Smt. Kela Widow of Shibbu S/o Bhambad 1/4 Share Vasideh
			Private	Agriculture	21//21/2	0.0051	Badleram, Totaram, Jaatram, Deegram Sons & Suneri, Prembati Daughters & Prayali Widow of Ram Saroop Seven Eq. Share 1/4 Share, Lakhiram, Yaadram, Maamraj Sons & Rimti Kela, Lachyo, Angoori, Sharbati Daughters of

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Gyasi S/o Bhambad Seven Eq. Share 1/4 Share, Maam Chand S/o Bhambad S/o Daya Kishan 1/4 Share, Smt. Kela Widow of Shibbu S/o Bhambad 1/4 Share Vasideh
			Private	Agriculture	21//22/1	0.0126	Jumma Khan, Rahman, Husain Khan, Asraf Khan Sons of Sharif Khan S/o Chotte Khan Eq. Share Vasiyaan Deh.
			Private	Agriculture	21//22/2	0.0556	Badleram, Totaram, Jeetram, Deegram Sons of Ram Swaroop S/o Bhambad Four Eq. Share 3/14 Share, Smt. Pramali Widow of Ramswaroop 1/28 Share, Smt. Lalita D/o Maam Chand S/o Bhambad 1/12 Share, Smt. Haseena W/o Juber S/o Murad 5/133 Share, Shyam Sunder S/o Tekchand S/o Deep Chand 118/399 Share, Lakhmichand, Yaadram, Maamraj Sons of Gyasi Ram Three Eq. Share 1/4 Share, Sunita Devi W/o Maamraj S/o Gyasi Ram 1/84 Share, Imarti S/o Badleram S/o Ramswaroop 1/84 Share, Prakasi W/o Totaram S/o Ramswaroop 1/84 Share, Kalesh W/o Jeetram S/o Ramswaroop 1/84 Share, Smt. Maya Devi W/o Deegram S/o Ramswaroop 1/84 Share, Smt. Roopan W/o Yaadram S/o Gyasi Ram 1/84 Share, Smt. Laccho W/o Likhiram S/o Gyasi Ram 1/84 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	21//23	0.0304	Badleram, Totaram, Jeetram, Deegram Sons of Ram Swaroop S/o Bhambad Four Eq. Share 3/14 Share, Smt. Pramali Widow of Ramswaroop 1/28 Share, Smt. Lalita

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							D/o Maam Chand S/o Bhambad 1/12 Share, Smt. Haseena W/o Juber S/o Murad 5/133 Share, Shyam Sunder S/o Tekchand S/o Deep Chand 118/399 Share, Lakhmichand, Yaadram, Maamraj Sons of Gyasi Ram Three Eq. Share 1/4 Share, Sunita Devi W/o Maamraj S/o Gyasi Ram 1/84 Share, Imarti S/o Badleram S/o Ramswaroop 1/84 Share, Prakasi W/o Totaram S/o Ramswaroop 1/84 Share, Kalesh W/o Jeetram S/o Ramswaroop 1/84 Share, Smt. Maya Devi W/o Deegram S/o Ramswaroop 1/84 Share, Smt. Roopan W/o Yaadram S/o Gyasi Ram 1/84 Share, Smt. Laccho W/o Likhiram S/o Gyasi Ram 1/84 Share Vasideh.
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	27//6	0.0607	Gram Panchyat Deh Vasideh.
			Private	Agriculture	27//14/1	0.0126	Jumma, Rahman, Ashraf, Husain Khan Sons of Sharish Khan S/o Chote Khan Four Eq. Share, Vasideh Gair Maorusiyaan.
			Private	Agriculture	27//14/2	0.0304	Jumma Khan, Rahman, Husain Khan, Asraf Khan Sons of Sharif Khan S/o Chotte Khan Four Eq. Share Vasideh.
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	27//15	0.0228	Gram Panchyat Deh Vasideh.
			Private	Agriculture	27//17	0.0683	Kamrudeen, Rashid, Hanif, Rahish Sons of Yaseen S/o Rohda Four Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	27//18	0.0177	Jumma Khan, Rahman, Husain Khan, Asraf Khan Sons of Sharif Khan S/o Chotte Khan Four Eq. Share Vasideh.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Private	Agriculture	28//1	0.0683	Badleram, Totaram, Jeetram, Deegram Sons of Ram Swaroop S/o Bhambad Four Eq. Share 3/14 Share, Smt. Pramali Widow of Ramswaroop 1/28 Share, Smt. Lalita D/o Maam Chand S/o Bhambad 1/12 Share, Smt. Haseena W/o Juber S/o Murad 5/133 Share, Shyam Sunder S/o Tekchand S/o Deep Chand 118/399 Share, Lakhmichand, Yaadram, Maamraj Sons of Gyasi Ram Three Eq. Share 1/4 Share, Sunita Devi W/o Maamraj S/o Gyasi Ram 1/84 Share, Imarti S/o Badleram S/o Ramswaroop 1/84 Share, Prakasi W/o Totaram S/o Ramswaroop 1/84 Share, Kalesh W/o Jeetram S/o Ramswaroop 1/84 Share, Smt. Maya Devi W/o Deegram S/o Ramswaroop 1/84 Share, Smt. Roopan W/o Yaadram S/o Gyasi Ram 1/84 Share, Smt. Laccho W/o Likhiram S/o Gyasi Ram 1/84 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	28//2	0.0329	Badleram, Totaram, Jeetram, Deegram Sons of Ram Swaroop S/o Bhambad Four Eq. Share 3/14 Share, Smt. Pramali Widow of Ramswaroop 1/28 Share, Smt. Lalita D/o Maam Chand S/o Bhambad 1/12 Share, Smt. Haseena W/o Juber S/o Murad 5/133 Share, Shyam Sunder S/o Tekchand S/o Deep Chand 118/399 Share, Lakhmichand, Yaadram, Maamraj Sons of Gyasi Ram Three Eq. Share 1/4 Share, Sunita Devi W/o Maamraj S/o Gyasi Ram 1/84 Share, Imarti S/o Badleram S/o

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Ramswaroop 1/84 Share, Prakasi W/o Totaram S/o Ramswaroop 1/84 Share, Kalesh W/o Jeetram S/o Ramswaroop 1/84 Share, Smt. Maya Devi W/o Deegram S/o Ramswaroop 1/84 Share, Smt. Roopan W/o Yaadram S/o Gyasi Ram 1/84 Share, Smt. Laccho W/o Likhiram S/o Gyasi Ram 1/84 Share Vasideh.
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-47	0.0076	Gram Panchayat
		(13) Dhulawat	Private	Agriculture	16//25/1	0.0101	Paltu S/o Shadi S/o Bhaktawar Vasideh.
			Private	Agriculture	16//25/2	0.0025	Paltu S/o Shadi S/o Bhaktawar Vasideh.
			Private	Agriculture	17//16	0.0076	Ikbāl S/o Majid S/o Atru 1/2 Share, Hakmudeen, Dalak Sons of Amru S/o Safed Khan Two Eq. Share 1/2 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	17//17/1	0.0228	Ikbāl S/o Majid S/o Atru 1/2 Share, Hakmudeen, Dalak Sons of Amru S/o Safed Khan Two Eq. Share 1/2 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	17//17/3	0.0152	Fajru S/o Aaas Mohammad S/o Badlu 1/3 Share, Naseed Khan, Israil Sons of Biland Khan S/o Wahad Two Eq. Share 1/6 Share, Deenu, Hasan Mohammad Sons of Jassu S/o Doda Two Eq. Share 1/6 Share, Suleman, Rajjak Sons of Mauji S/o Niwaj Khan Two Eq. Share 1/9 Share, Aaas Mohammad, Asar Khan Sons of Mangal S/o Kanhiya Two Eq. Share 1/9 Share, Nasru, Ajeerj Sons of Rahmaan S/o Gulab Two Eq. Share 1/18 Share, Haneef, Sarfudeen, Mehrudeen Sons of Umrav S/o Gulab Three Eq. Share 1/18 Share Vasideh.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Private	Agriculture	17//17/4	0.0177	Aas Mohammad, Asar Khan Sons of Mangal S/o Kanhiya Two Eq. Share 1/2 Share, Hanif, Sarfudeen, Mehrudeen Sons of Umrav S/o Gulab Three Eq. Share 23/93 Share, Nasru S/o Rahmaan S/o Gulab 15/62 Share, Ajeej S/o Rahmaan S/o Gulab 1/93 Share Vasideh.
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	17//17/5/1	0.0025	Gram Panchayat
			Private	Agriculture	17//17/5/2	0.0329	Suleman, Rajjak Sons of Mauji S/o Niwaj Khan Two Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	17//18/1/1	0.0379	Najeer, Bashir, Noor Ahmad Sons of Bhure Kha S/o Med Kha Eq. Share Sakan Deh
			Private	Agriculture	17//18/1/2	0.0379	Najeer, Bashir, Noor Ahmad Sons of Bhure Kha S/o Med Kha Eq. Share Sakan Deh
			Private	Agriculture	17//18/2/2	0.0076	Najeer, Bashir, Noor Ahmad Sons of Bhure Kha S/o Med Kha Eq. Share Sakan Deh
			Private	Agriculture	17//19/2	0.0051	Bashir Ahmad S/o Bhure Khan S/o Madroop 1/3 Share, Najir, Bashir, Noor Ahmad Sons of Bhure Khan S/o Maid Khan Three Eq. Share 1/3 Share, Majid, Bahid, Sahid, Shahun Sons of Pahal Khan S/o Maid Khan Four Eq. Share 1/6 Share, Mehmuda S/o Noor Khan S/o Maid Khan 1/6 Share, Sulemaan, Ali Mohammad, Jumme Khan Sons of Nadar S/o Kehar Three Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	17//21	0.1745	Paltu S/o Shadi S/o Bhaktawar Vasideh.
			Private	Agriculture	17//22	0.3693	Bashir Ahmad S/o Bhure Khan S/o Madroop 1/3 Share, Najir, Bashir, Noor Ahmad Sons of Bhure Khan S/o Maid Khan Three Eq. Share 1/3 Share, Majid, Bahid, Sahid, Shahun Sons of Pahal

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Khan S/o Maid Khan Four Eq. Share 1/6 Share, Mehmuda S/o Noor Khan S/o Maid Khan 1/6 Share, Sulemaan, Ali Mohammad, Jumme Khan Sons of Nadar S/o Kehar Three Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	17//23/1	0.1416	Maksud S/o Bambu S/o Maujam 1/3 Share, Aashu, Fattu Sons of Paltu Two Eq. Share 2/3 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	17//23/2	0.0278	Maksud S/o Bambu S/o Maujam 1/3 Share, Aashu, Fattu Sons of Paltu Two Eq. Share 2/3 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	17//23/3	0.1037	Maksud S/o Bambu S/o Maujam 1/3 Share, Aashu, Fattu Sons of Paltu Two Eq. Share 2/3 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	17//24/1/1	0.1088	Bashir Ahmad S/o Bhure Khan S/o Madroop 1/3 Share, Najir, Bashir, Noor Ahmad Sons of Bhure Khan S/o Maid Khan Three Eq. Share 1/3 Share, Majid, Bahid, Sahid, Shahun Sons of Pahal Khan S/o Maid Khan Four Eq. Share 1/6 Share, Mehmuda S/o Noor Khan S/o Maid Khan 1/6 Share, Sulemaan, Ali Mohammad, Jumme Khan Sons of Nadar S/o Kehar Three Eq. Share Vasideh.
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	17//24/2	0.0556	Gram Panchayat
			Private	Agriculture	17//25/1/1	0.0076	Hamida, Majji, Umardeen, Nishar, Arbadeen Sons of Habib S/o Mehtab Five Eq. Share 1/3 Share, Sattar, Mubin Sons of Fateh Mohammad S/o Mehtab Two Eq. Share 1/3 Share, Ayyub S/o Mehtab S/o Kehar 1/3 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	17//25/1/2	0.0253	Habib, Ayyub Sons of Mehat Khan 2/3 Share & Mehat Khan S/o Salaru Fateh Mohammad 1/3 Share.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	17//25/2	0.0076	Gram Panchayat
			Private	Agriculture	18//17	0.0025	Ayuub, Fateh Mohammad, Ilyas, Ali Mohammad, Mehboob Sons of Ishab S/o Mehra Khan Five Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	18//18	0.0101	Najir S/o Ranmal S/o Nibaj Khan Vasideh.
			Private	Agriculture	18//19/3	0.0025	Najir, Bashir, Noor Ahmad Sons of Bhure Khan S/o Maid Khan Eq. Share Shamlat deh.
			Private	Agriculture	18//20/1	0.0734	Najir S/o Ranmal S/o Nibaj Khan 1/2 Share, Sahabudeen, Nijamudeen Sons of Lajir S/o Ranmal Two Eq. Share 1/2 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	18//20/2	0.0860	Najir S/o Ranmal S/o Nibaj Khan 1/2 Share, Sahabudeen, Nijamudeen Sons of Lajir S/o Ranmal Two Eq. Share 1/2 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	18//21/1	0.0152	Asraf, Dilawar, Shakrulla Sons of Jabar Khan S/o Sulhad Three Eq. Share Vasideh.
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	18//21/2	0.0051	Gram Panchayat
			Private	Agriculture	18//23/1/1	0.0051	Tekchand, Ramchand Sons of Ramji Lal S/o Pokhardas Two Eq. Share Vase Khedla.
			Private	Agriculture	18//24	0.0051	Ayuub, Fateh Mohammad, Ilyas Mohammad, Ali Mohammad, Mehboob Sons of Ishab S/o Mehtab Five Eq. Share, Rahinaan Ishab S/o Mehtab Khan S/o Peer Bakash Vasideh Murthan.
			Private	Agriculture	18//25	0.0025	Liyakat, Ali Mohammad, Mobin, Shabin Sons of Lallu Four Eq. Share 1/6 Share, Badlu, Assu Sons of Nasib Khan Two Eq. Share 1/3 Share, Jumma, Yakoob Sons of Ajim Khan S/o Magal Two Eq. Share 1/2 Share Vasideh.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Private	Agriculture	19//23/1	0.0126	Ashraf, Dilabar, Shakrulla Sons of Jabar Khan S/o Sulhad Three Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	19//23/2	0.0025	Mohammad Khan S/o Jhaggad S/o Basal Khan Vasedeh.
			Private	Agriculture	19//23/3	0.0101	Ganesh Ram S/o Khilanda Ram S/o Bishan Ram Rahin Vasideh, Ram Kishan, Govind Ram Sons of Jeevan Das S/o Dhannu Ram Two Eq. Share Vasi Sohna Murthanaan.
			Private	Agriculture	19//25/1	0.0126	Kasam, Fajru Sons of Mohar Singh S/o Kala Two Eq. Share 1/3 Share, Javed, Musti Khan, Shaharukh Khan Sons of Hasam S/o Mohar Singh Three Eq. Share 1/6 Share Vasideh, Jabrudeen, Hanif, A.Majid Sons of Subrati S/o Chota Three Eq. Share 1/2 Share Vasi Kinjar Jila Alwar.
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	19//25/2	0.0683	Panchayat Deh
			Private	Agriculture	21//10/2/1	0.0152	Sattar, Fajrudeen Sons of Saieed S/o Abdul Two Eq. Share 1/10 Share, Isroo, Tarif, Salim Sons of Yunus S/o Abdul Three Eq. Share 1/10 Share, Ataulla, Farukh, Rafik Sons of Ismile S/o Abdul Three Eq. Share 1/10 Share, Bashir S/o Abdul S/o Sulle Khan 1/10 Share, Atti Mohammad, Kasamdeen Sons of Hajar Khan S/o Abdul Two Eq. Share 1/10 Share, Samaiya S/o Chandmal S/o Kudiya 1/2 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	22//1/2/1	0.0101	Mohammad Khan S/o Jhaggad S/o Vasal Khan Vasideh.
			Private	Agriculture	22//2/1	0.0152	Mohammad Khan S/o Jhaggad S/o Vasal Khan Vasideh.
			Private	Agriculture	22//3/1	0.0101	Mohammad Khan S/o Jhaggad S/o Vasal Khan Vasideh.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	22/5/2	0.0025	Panchyat Deh.
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	22/5/3	0.0101	Panchyat Deh Vasideh.
			Private	Agriculture	22/6/1	0.0278	Maamla, Chaab Khan Sons of Mohammad Khan S/o Chandra Khan Two Eq. Share 1/2 Share, Kabar Khan Jahaj Khan Sons of Murad Two Eq. Share 1/2 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	22/6/2	0.0076	Saied, Ismile, Yunus, Bajir Sons of Abdul S/o Sule Khan Four Eq. Share 2/5 Share, Ati Mohammad, Kasamdeen Sons of Hajar Khan S/o Abdul Two Eq. Share 1/10 Share, Samaiya S/o Chandmal S/o Kudiya 1/2 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	22/7/1/1	0.0405	Daud, Deen Mohammad Sons of Chaav Khan S/o Mohammad Khan Two Eq. Share 1/4 Share, Aas Mohammad S/o Mamla S/o Mohammad Khan 1/4 Share, Kavar Khan S/o Jahaj Khan S/o Murad 1/2 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	24/1/2	0.2858	Kamrudeen S/o Sardar Khan S/o Safed Khan Vasideh.
			Private	Agriculture	24/10	0.0405	Kamrudeen S/o Sardar Khan S/o Safed Khan Vasideh.
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	24/2/1/1	0.0455	Gram Panchayat
			Private	Agriculture	24/2/1/2	0.0531	Kamrudeen S/o Sardar Khan S/o Safed Khan Vasideh.
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	24/2/2/1	0.0228	Gram Panchayat
			Private	Agriculture	24/2/2/2	0.0228	Maksood S/o Bambu S/o Maujam 1/3 Share, Aasu, Fattu Sons of Paltu Two Eq. Share 2/3 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	24/2/3	0.0126	Kamrudeen S/o Sardar Khan S/o Safed Khan Vasideh.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Private	Agriculture	24/3/1/1	0.0961	Habib, Fateh Mohammad, Ayyub Sons of Mehtab Three Eq. Share Vasideh.
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	24/4/1/1	0.0051	Gram Panchayat
			Private	Agriculture	25//12	0.0253	Amir, Ameen, Yusuf, Isha Sons of Nathu S/o Maid Khan Four Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	25//13	0.0481	Fajjar, Kamrudeen, Sirajudeen Sons of Jagroop S/o Anwar Three Eq. Share 1/2 Share, Deen Mohammad S/o Mandroop S/o Anwar 1/2 Share Vasideh
			Private	Agriculture	25//14/1	0.0582	Jagroop, Mandroop Sons of Anwar S/o Mulfat Eq. Share Vasiyaan Deh.
			Private	Agriculture	25//14/2	0.0734	Rojdar S/o Iddu S/o Swaroop Khan 107/432 Share, Kharshid S/o Nabib Bakash S/o Saguda 107/648 Share, Alijaan, Ahmad Jaan, Abdul Rajjak Sons of Yusuf Three Eq. Share 107/432 Share, Ballu, Aaas Mohammad Sons of Nasib Khan S/o Magli Two Eq. Share 13/54 Share, Yusuf S/o Umer Khan S/o Mohammad 1/108 Share, Mehmuda S/o Noor Khan 107/1296 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	25//15/1	0.0025	Rojdar S/o Iddu S/o Swaroop Khan 107/432 Share, Kharshid S/o Nabib Bakash S/o Saguda 107/648 Share, Alijaan, Ahmad Jaan, Abdul Rajjak Sons of Yusuf Three Eq. Share 107/432 Share, Ballu, Aaas Mohammad Sons of Nasib Khan S/o Magli Two Eq. Share 13/54 Share, Yusuf S/o Umer Khan S/o Mohammad 1/108 Share, Mehmuda S/o Noor Khan 107/1296 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	25//18/1	0.0329	Alijaan, Ahmad Jaan, Abdu Rajjak Sons of Yusuf S/o Kabal Khan Three Eq. Share Vasideh.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Private	Agriculture	25//18/2	0.0202	Amir, Ameen, Yusuf, Isha Sons of Nathu S/o Maid Khan Four Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	25//19	0.0101	Amir, Ameen, Yusuf, Isha Sons of Nathu S/o Maid Khan Four Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	25//20	0.0405	Amir, Ameen, Yusuf, Isha Sons of Nathu S/o Maid Khan Four Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	25//21	0.0278	Jumma Khan, Khurshid Sons of Nabibaksh S/o Sugda Two Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	25//22	0.0556	Jumma Khan, Khurshid Sons of Nabibaksh S/o Sugda Two Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	25//4/2	0.0405	Kamrudeen S/o Sardar Khan S/o Safed Khan Vasideh.
			Private	Agriculture	25//5/2	0.0734	Kamrudeen S/o Sardar Khan S/o Safed Khan Vasideh.
			Private	Agriculture	25//6	0.0809	Kamrudeen S/o Sardar Khan S/o Safed Khan Vasideh.
			Private	Agriculture	25//7/1	0.0354	Fajjar, Kamrudeen, Sirajudeen Sons of Jagroop S/o Anwar Three Eq. Share 1/2 Share, Deen Mohammad S/o Mandroop S/o Anwar 1/2 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	25//7/2	0.0025	Kamrudeen S/o Sardar Khan S/o Safed Khan Vasideh.
			Private	Agriculture	25//8/1	0.0253	Ikbāl S/o Majid S/o Atru 1/2 Share, Hakmudeen, Dalak Sons of Amru S/o Safed Khan Two Eq. Share 1/2 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	25//8/2	0.0329	Maksood S/o Bambu S/o Maujam Vasideh.
			Private	Agriculture	26//25	0.0228	Jumma Khan, Khurshid Sons of Nabibaksh S/o Sugda Two Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	29//13/1	0.0025	Nijra, Deen Mohammad Sons of Rahmaan S/o Khudabaksh Two Eq. Share Vasideh.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Private	Agriculture	29//13/2	0.0481	Ahmad, Tayyab Husain Sons of Karim Khan S/o Jorawar Two Eq. Share 1/4 Share, Fateh Mohammad, Yaseen Sons of Jorawar S/o Makhmool Two Eq. Share 1/2 Share, Bashir Khan, Isse Khan, Ishak Mohammad, Jamil Ahmad, Khalil Ahmad, Ahmad Jaan, Lakhpat Khan Sons of Rahmaan Khan S/o Jorawar Seven Eq. Share 1/4 Share.
			Private	Agriculture	29//14	0.0455	Ahmad, Tayyab Husain Sons of Karim Khan S/o Jorawar Two Eq. Share 1/4 Share, Fateh Mohammad, Yaseen Sons of Jorawar S/o Makhmool Two Eq. Share 1/2 Share, Bashir Khan, Isse Khan, Ishak Mohammad, Jamil Ahmad, Khalil Ahmad, Ahmad Jaan, Lakhpat Khan Sons of Rahmaan Khan S/o Jorawar Seven Eq. Share 1/4 Share.
			Private	Agriculture	29//15	0.0202	Ahmad, Tayyab Husain Sons of Karim Khan S/o Jorawar Two Eq. Share 1/4 Share, Fateh Mohammad, Yaseen Sons of Jorawar S/o Makhmool Two Eq. Share 1/2 Share, Bashir Khan, Isse Khan, Ishak Mohammad, Jamil Ahmad, Khalil Ahmad, Ahmad Jaan, Lakhpat Khan Sons of Rahmaan Khan S/o Jorawar Seven Eq. Share 1/4 Share.
			Private	Agriculture	29//17	0.0253	Fajrudeen S/o Bagdu S/o Taaj Khan Vasideh.
			Private	Agriculture	29//18	0.0304	Ahmad, Tayyab Husain Sons of Karim Khan S/o Jorawar Two Eq. Share 1/4 Share, Fateh Mohammad, Yaseen Sons of Jorawar S/o Makhmool Two Eq. Share 1/2 Share, Bashir Khan, Isse Khan, Ishak Mohammad, Jamil Ahmad, Khalil Ahmad, Ahmad Jaan, Lakhpat Khan Sons

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							of Rahmaan Khan S/o Jorawar Seven Eq. Share 1/4 Share.
			Private	Agriculture	29//19/1	0.0329	Nijra, Deen Mohammad Sons of Rahmaan S/o Khudabaksh Two Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	29//19/2	0.0202	Ibrahim, Deenu, Yunus, Wali Mohammad, Meenu Jafir Husain Sons of Bhogdu S/o Nijru Six Eq. Share Vasi Deh.
			Private	Agriculture	29//21/2	0.0278	Paltu S/o Shadi S/o Bhaktawar Vasideh.
			Private	Agriculture	29//21/3	0.0202	Paltu S/o Shadi S/o Bhaktawar Vasideh.
			Private	Agriculture	29//22/1	0.0126	Paltu S/o Shadi S/o Bhaktawar Vasideh.
			Private	Agriculture	29//22/2	0.0202	Israil, Sadik Sons of Murad S/o Badlu Two Eq. Share 1/3 Share, Sher Mohammad, Jhaggad Sons of Badal Khan S/o Sahat Khan Two Eq. Share 2/3 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	29//23	0.0379	Israil, Sadik Sons of Murad S/o Badlu Two Eq. Share 1/3 Share, Sher Mohammad, Jhaggad Sons of Badal Khan S/o Sahat Khan Two Eq. Share 2/3 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	29//4/2	0.0304	Idrish, Ibrahim, Sattar, Usmaan, Asgar Sons of Nibaaj Khan S/o Sugda Five Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	29//5	0.0405	Idrish, Ibrahim, Sattar, Usmaan, Asgar Sons of Nibaaj Khan S/o Sugda Five Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	29//6	0.0582	Idrish, Ibrahim, Sattar, Usmaan, Asgar Sons of Nibaaj Khan S/o Sugda Five Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	29//7/1	0.0051	Idrish, Ibrahim, Sattar, Usmaan, Asgar Sons of Nibaaj Khan S/o Sugda Five Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	29//7/2	0.0430	Jakar, Sahun, Jahid Sons of Daud Khan S/o Umer Khan Three Eq. Share 1/27 Share, Jaan Mohammad, Hasan Mohammad Sons of Umer Khan S/o Peer Khan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Two Eq. Share 2/27 Share, Wasi Khan, Ishak, Jamil, Khalil Ahmad, Ahmad Jaan, Lakhpat Khan Sons of Abdul Rahmaan S/o Jorawar Six Eq. Share 2/9 Share, Sahabudeen, Nawabdeen, Jaikam Sons of Kamrudeen S/o Jumma Bakash Three Eq. Share 1/3 Share, Sadeek S/o Karim Bakash S/o Bhondu 1/9 Share, Khurshid S/o Nabi Bakash S/o Sugda 1/9 Share, Fateh Mohammad S/o Jorawar S/o Makhmool 1/9 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	29//8	0.0076	Jakar, Sahun, Jahid Sons of Daud Khan S/o Umer Khan Three Eq. Share 1/27 Share, Jaan Mohammad, Hasan Mohammad Sons of Umer Khan S/o Peer Khan Two Eq. Share 2/27 Share, Wasi Khan, Ishak, Jamil, Khalil Ahmad, Ahmad Jaan, Lakhpat Khan Sons of Abdul Rahmaan S/o Jorawar Six Eq. Share 2/9 Share, Sahabudeen, Nawabdeen, Jaikam Sons of Kamrudeen S/o Jumma Bakash Three Eq. Share 1/3 Share, Sadeek S/o Karim Bakash S/o Bhondu 1/9 Share, Khurshid S/o Nabi Bakash S/o Sugda 1/9 Share, Fateh Mohammad S/o Jorawar S/o Makhmool 1/9 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	30//1/1	0.0632	Mohammad Ikbale S/o Kabir Ahmad S/o Yakoob Khan Vasedeh.
			Private	Agriculture	30//10/1/2	0.0076	Sulle Khan, Sumrat Sons of Kallu S/o Ajim Two Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	38//1/1	0.0051	Idrish, Rahmat, Rajjak Sons of Naurang Three Eq. Share 1/3 Share, Rashid, Daud, Asgar Sons of Ujagar S/o Noor Khan Three Eq. Share, Usmaan,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Jaan Mohammad, Jahir, Sirajudeen Sons of Surjan S/o Noor Khan Four Eq. Share 1/3 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	38//1/2	0.0152	Paltu S/o Shadi S/o Bhaktawar Vasideh.
			Private	Agriculture	38//1/3	0.0101	Israil, Sadik Sons of Murad S/o Badlu Two Eq. Share 1/3 Share, Sher Mohammad, Jhaggad Sons of Badal Khan S/o Sahat Khan Two Eq. Share 2/3 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	38//10/1	0.0202	Israil, Sadik Sons of Murad S/o Badlu Two Eq. Share 1/3 Share, Sher Mohammad, Jhaggad Sons of Badal Khan S/o Sahay Khan Two Eq. Share 2/3 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	38//10/2	0.0228	Paltu S/o Shadi S/o Bhaktawar Vasideh.
			Private	Agriculture	38//11/1	0.0101	Paltu S/o Shadi S/o Bhaktawar Vasideh.
			Private	Agriculture	38//2	0.0430	Israil, Sadik Sons of Murad S/o Badlu Two Eq. Share 1/3 Share, Sher Mohammad, Jhaggad Sons of Badal Khan S/o Sahat Khan Two Eq. Share 2/3 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	39//5	0.0354	Idrish, Rahmat, Rajjak Sons of Naurang Three Eq. Share 1/3 Share, Rashid, Daud, Asgar Sons of Ujagar S/o Noor Khan Three Eq. Share, Usmaan, Jaan Mohammad, Jahir, Sirajudeen Sons of Surjan S/o Noor Khan Four Eq. Share 1/3 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	39//6/1	0.0025	Paltu S/o Shadi S/o Bhaktawar Vasideh.
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	39//6/2	0.0354	Panchyat Deh.
			Private	Agriculture	39//6/3	0.0126	Paltu S/o Shadi S/o Bhaktawar Vasideh.
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	60	0.0683	Panchyat Deh.
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	64	0.0126	Panchyat Deh Vasideh.
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	65/2	0.0126	Panchyat Deh.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	69	0.0152	Panchyat Deh Vasideh.
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	N-54	0.0126	Panchyat Deh Vasideh.
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	55	0.0228	Panchyat Deh Vasideh.
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-482	0.0278	Panchyat Deh.
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-504	0.0025	Panchyat Deh.
		(14) Sahsol Patuka	Private	Agriculture	103//1	0.0734	Aftab S/o Khurshid Ahmad S/o Kabir Ahmad Vasi Khanpur.
			Private	Agriculture	103//10/1	0.0304	Aftab Ahmad S/o Khurshid Ahmad S/o Kabir Ahmad Vasi Khanpur
			Private	Agriculture	103//13/1/1	0.0126	Khatula S/o Chandmal S/o Jaimal Rahan Hissa 1/2 Share, Smt. Maryam W/o Shadi Khan S/o Mohammadeen, Mubin, Sarajudeen, Taaj Mohammad, Aazad Sons of Abdul Karim S/o Harna Five Eq. Share 5/21 Share, Shakil, Liyakat Sons of Nasru S/o Abdul Two Eq. Share 1/21 Share, Nasim S/o Sahabudeen S/o Abdul Majid 1/21 Share, Imran, Shajid Sons of Abdul Shakur S/o Harna Two Eq. Share 1/3 Share, Shadi Khan S/o Katula S/o Chandmal 1/3 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	103//13/3/1	0.0126	Khatula S/o Chandmal S/o Jaimal Rahan Hissa 1/2 Share, Smt. Maryam W/o Shadi Khan S/o Mohammadeen, Mubin, Sarajudeen, Taaj Mohammad, Aazad Sons of Abdul Karim S/o Harna Five Eq. Share 5/21 Share, Shakil, Liyakat Sons of Nasru S/o Abdul Two Eq. Share 1/21 Share, Nasim S/o Sahabudeen S/o Abdul Majid 1/21 Share, Imran,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Shajid Sons of Abdul Shakur S/o Harna Two Eq. Share 1/3 Share, Shadi Khan S/o Katula S/o Chandmal 1/3 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	103//14/1	0.0708	Kutubudeen S/o Chajju Urf Khurshid Ahmad S/o Firoj Khan Vasi Dhauj, Ballabgarh.
			Private	Agriculture	103//15/1	0.0582	Kutubudeen S/o Chajju Urf Khurshid Ahmad S/o Firoj Khan Vasi Dhauj, Ballabgarh.
			Private	Agriculture	103//15/2	0.0076	Illyas, Deen Mohammad, Aas Mohammad Sons of Hamida S/o Khawaja Baksh Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	103//2/1	0.0885	Aftab S/o Khurshid Ahmad S/o Kabir Ahmad Vasi Khanpur.
			Private	Agriculture	103//2/2	0.0126	Aftab Ahmad S/o Khurshid Ahmad S/o Kabir Ahmad Vasi Khanpur.
			Private	Agriculture	103//3/1	0.0177	Aftab Ahmad S/o Khurshid Ahmad S/o Kabir Ahmad Vasi Khanpur.
			Private	Agriculture	103//3/2	0.0759	Rajendra Kumar S/o Prabhati Ram S/o Sawalya 1/30 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	103//4/2	0.1088	Shadi Khan S/o Katula S/o Chandmal Vasi Dhulawat.
			Private	Agriculture	103//5/1	0.0177	Aas Mohammad, Asar Khan Sons of Magal Two Eq. Share 1/2 Share Vasideh, Umardeen S/o Naseeb Khan S/o Hari Singh 1/2 Share Vasi Dhulawat.
			Private	Agriculture	103//5/2	0.0152	Imran, Shajid Sons of Abdul Shakur S/o Hirna Two Eq. Share 1/3 Share, Mohammad Deen, Mubin, Sarajudeen, Taaj Mohammad, Aazad Sons of Abdul Majid S/o Hirna Five Eq. Share 5/21 Share, Shakil, Liyakat Sons of Nasru S/o Abdul Majid Two Eq. Share 1/21 Share, Sanim S/o Sahabudeen S/o Abdul Majid 1/21 Share,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Shadi Khan S/o Katula S/o Chandmal 1/3 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	103//5/3	0.0177	Mohammad Ishak S/o Kaval Khan S/o Israil Vasi Dhulawat.
			Private	Agriculture	103//6	0.0809	Mohammad Ishak S/o Kaval Khan S/o Ismile Vasideh.
			Private	Agriculture	103//7/1	0.0076	Shadi S/o Katula S/o Chandmal 1/2 Share, Samikha S/o Swaroop Khan S/o Shakru 1/2 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	103//8/3	0.0126	Katula S/o Chandmal S/o Jaimal 1/2 Share Vasideh, Smt. Maryam W/o Shadi Khan S/o Katula 1/2 Share Vasi Dhulawat.
			Private	Agriculture	103//8/4	0.0177	Shadi Khan S/o Katula S/o Chandmal Vasi Dhulawat.
			Private	Agriculture	103//9/1	0.0202	Aftab S/o Khurshid Ahmad S/o Kabir Ahmad Vasi Khanpur.
			Private	Agriculture	103//9/2	0.0177	Aftab Ahmad S/o Khurshid Ahmad S/o Kabir Ahmad.
			Private	Agriculture	104//10	0.1391	Imran, Shajid Sons of Abdul Shakur S/o Hirna Two Eq. Share 1/3 Share, Shadi Khan S/o Katula S/o Chandmal 1/3 Share, Mohammdeen, Mubin, Sarajudeen, Taaj Mohammad, Aazad Sons of Abdul Majid S/o Harna Five Eq. Share 5/21 Share, Shakil, Liyakat Sons of Nasru S/o Abdul Majid Two Eq. Share 1/21 Share, Saneem S/o Sahabudeen S/o Abdul Majid 1/21 Share, Shahida, Hamida, Sharif Khan Sons of Rasool Khan S/o Niwaj Khan Three Eq. Share 1/2 Share, Mehboob, Kayuum, Shabbir, Taiyyab, Hakam Sons of Kalu S/o Sardar Five Eq. Share 1/10 Share, Yakoob, Saddik Sons of Sardar Two Eq. Share 1/5 Share, Aalam, Majid, Jaimal Sons of

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Ahmad Khan S/o Sardar Three Eq. Share 1/10 Share, Asgar, Raffik Sons of Bashir Two Eq. Share 1/15 Share, Jaan Mohammad S/o Bashir 1/30 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	104//11	0.0658	Imran, Shajid Sons of Abdul Shakur S/o Hirna Two Eq. Share 1/3 Share, Shadi Khan S/o Katula S/o Chandmal 1/3 Share, Mohammdeen, Mubin, Sarajudeen, Taaj Mohammad, Aazad Sons of Abdul Majid S/o Harna Five Eq. Share 5/21 Share, Shakil, Liyakat Sons of Nasru S/o Abdul Majid Two Eq. Share 1/21 Share, Saneem S/o Sahabudeen S/o Abdul Majid 1/21 Share, Shahida, Hamida, Sharif Khan Sons of Rasool Khan S/o Niwaj Khan Three Eq. Share 1/2 Share, Mehboob, Kayuum, Shabbir, Taiyyab, Hakam Sons of Kalu S/o Sardar Five Eq. Share 1/10 Share, Yakoob, Saddik Sons of Sardar Two Eq. Share 1/5 Share, Aalam, Majid, Jaimal Sons of Ahmad Khan S/o Sardar Three Eq. Share 1/10 Share, Asgar, Raffik Sons of Bashir Two Eq. Share 1/15 Share, Jaan Mohammad S/o Bashir 1/30 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	104//12	0.0076	Imran, Shajid Sons of Abdul Shakur S/o Hirna Two Eq. Share 1/3 Share, Shadi Khan S/o Katula S/o Chandmal 1/3 Share, Mohammdeen, Mubin, Sarajudeen, Taaj Mohammad, Aazad Sons of Abdul Majid S/o Harna Five Eq. Share 5/21 Share, Shakil, Liyakat Sons of Nasru S/o Abdul Majid Two Eq. Share 1/21 Share, Saneem S/o

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Sahabudeen S/o Abdul Majid 1/21 Share, Shahida, Hamida, Sharif Khan Sons of Rasool Khan S/o Niwaj Khan Three Eq. Share 1/2 Share, Mehboob, Kayuum, Shabbir, Taiyyab, Hakam Sons of Kalu S/o Sardar Five Eq. Share 1/10 Share, Yakoob, Saddik Sons of Sardar Two Eq. Share 1/5 Share, Aalam, Majid, Jaimal Sons of Ahmad Khan S/o Sardar Three Eq. Share 1/10 Share, Asgar, Raffik Sons of Bashir Two Eq. Share 1/15 Share, Jaan Mohammad S/o Bashir 1/30 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	104//15	0.0379	Noor Mohammad S/o Allabaksh S/o Dalpat Vasideh.
			Private	Agriculture	104//6	0.0405	Mohammad Khan, Ismile, Ahmad Khan, Najar Khan Sons of Badlu S/o Karim Khan Four Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	104//7	0.0759	Mohammad Khan, Ismile, Ahmad Khan, Najar Khan Sons of Badlu S/o Karim Khan Four Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	104//8	0.1163	Shahid, Rashid, Nawabdeen, Immudeen, Ikramudeen Sons of Ismile Five Eq. Share 20/111 Share, Sharif Khan S/o Hoos Khan S/o Chandu 71/444 Share, Unnas S/o Roshan S/o Chandu 71/444 Share, Shoyab, Sohraab, Sarjeet Sons of Noor Mohammad S/o Khudabaksh Three Eq. Share 1/4 Share, Mubin, Hakmudeen, Rahmudeen, Jamsed Sons of Chhuttal S/o Khudabaksh Four Eq. Share 1/4 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	104//9	0.1467	Shahid, Rashid, Nawabdeen, Immudeen, Ikramudeen Sons of Ismile Five Eq. Share 20/111 Share, Sharif Khan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							S/o Hoos Khan S/o Chandu 71/444 Share, Unnas S/o Roshan S/o Chandu 71/444 Share, Shoyab, Sohraab, Sarjeet Sons of Noor Mohammad S/o Khudabaksh Three Eq. Share 1/4 Share, Mubin, Hakmudeen, Rahmudeen, Jamsed Sons of Chhuttal S/o Khudabaksh Four Eq. Share 1/4 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	105//11	0.0784	Chaab Khan S/o Hayat S/o Dalpat 1/2 Share, Jaan Mohammad S/o Bashir S/o Sardar Khan 1/2 Share, Vasideh.
			Private	Agriculture	105//12	0.0658	Fajru, Noor Mohammad Sons of Dulle Khan S/o Nawal Khan Two Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	105//13	0.0354	Fajru, Noor Mohammad Sons of Dulle Khan S/o Nawal Khan Two Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	105//14	0.0051	Ishan Khan S/o Vilayat Urf Robad S/o Hajari Vasideh.
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	105//16/1	0.0051	Gram Panchayat
			Private	Agriculture	105//17/1/1	0.0101	Ishan Khan S/o Vilayat Urf Robad S/o Hajari Vasideh.
			Private	Agriculture	105//19/1	0.0126	Fajru, Noor Mohammad Sons of Dulle Khan S/o Nawal Khan Two Eq. Share Vasideh.
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	105//19/2	0.0025	Gram Panchayat
			Private	Agriculture	105//20	0.0025	Abdul, Issa, Habib, Ajeet Sons of Sahabadeen S/o Alla Baksh Four Eq. Share Vasideh.
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	105//22/1	0.0076	Gram Panchayat
			Private	Agriculture	105//24	0.0177	Lallu, Hasam Sons of Rahman S/o Mamla Two Eq. Share 1/3 Share, Deenu, Naval Khan Sons of Mamla Two Eq. Share 1/3 Share, Ayyub S/o Ramjaan S/o Nawal Khan 1/3 Vasideh.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Private	Agriculture	106//21	0.0304	Akbar, Haroon, Kayuum, Mubin Sons of Ismile Four Eq. Share 1/10 Share, Najir, Jaikam, Khurshid, Sahab Khan Sons of Hoos Khan S/o Swaroop Khan Four Eq. Share 2/5 Share, Sammi Khan S/o Swaroop Khan S/o Shukar Khan 1/2 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	106//22	0.0202	Suleman, Sardar Sons of Peer Baksh S/o Bhappu Two Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	106//34	0.0051	Hoos Khan S/o Swaroop Khan S/o Shakur Khan 11/20 Share, Sami Khan S/o Swaroop Khan S/o Shakur Khan 1/4 Share, Harichand Etc. Munedraja Khewat No 1/10 Share, Smt. Safedi W/o Basir Ahmad S/o Nawal Khan 1/10 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	115//11/1	0.1265	Maal Mohammad, Deen Mohammad, Mohammad Husain Sons of Mehtab S/o Nawal Khan Three Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	115//11/2	0.0304	Mohammad Husain, maal Mohamad, Deen Mohammad Sons of Mehtab S/o Nawal Khan Three Eq. Share Vasedeh.
			Private	Agriculture	115//11/3	0.0101	Maal Mohammad, Deen Mohammad, Mohammad Husain Sons of Mehtab S/o Nawal Khan Three Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	115//18/3/1	0.0126	Mamrej S/o Safed Khan S/o Khawaju 1/2 Share, Fajru, Noor Mohammad Sons of Dulle Khan S/o Nawal Khan Two Eq. Share 1/2 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	115//19/2	0.2226	Smt. Rahmati W/o Jaan Mohammad S/o Ali Mohammad 1/2 Share, Idrish S/o Aasin S/o Sali Khan 1/2 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	115//20/1	0.2150	Haroon, Kayum, Mubin Sons of Israil S/o Hoos Khan Three Eq. Share Billa Rahan Hissa 3/40 Share, Arjan S/o Sirdar S/o

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Mauj Khan Billa Rahan Hissa 1/10 Share, Aas Mohammad, Hanif, Sahida Sons of Surajmal S/o Phool Khan Three Eq. Share Rahan Hissa 3/10 Share Billa Rahan Hissa 1/40 Share, Sarjeet S/o Gafura 3/40 Share Murthan, Sami Khan S/o Swaroop Khan Shakur Khan 1/2 Share Vasideh
			Private	Agriculture	115//20/2	0.0076	Arjun S/o Sirdar S/o Mauj Khan Vasideh.
			Private	Agriculture	115//21/1	0.0126	Haroon, Kayum, Mubin Sons of Israil S/o Hoos Khan Three Eq. Share Billa Rahan Hissa 3/40 Share, Arjan S/o Sirdar S/o Mauj Khan Billa Rahan Hissa 1/10 Share, Aas Mohammad, Hanif, Sahida Sons of Surajmal S/o Phool Khan Three Eq. Share Rahan Hissa 3/10 Share Billa Rahan Hissa 1/40 Share, Sarjeet S/o Gafura 3/40 Share Murthan, Sami Khan S/o Swaroop Khan Shakur Khan 1/2 Share Vasideh
			Private	Agriculture	115//22/1	0.2378	Haroon, Kayum, Mubin Sons of Israil S/o Hoos Khan Three Eq. Share Billa Rahan Hissa 3/40 Share, Arjan S/o Sirdar S/o Mauj Khan Billa Rahan Hissa 1/10 Share, Aas Mohammad, Hanif, Sahida Sons of Surajmal S/o Phool Khan Three Eq. Share Rahan Hissa 3/10 Share Billa Rahan Hissa 1/40 Share, Sarjeet S/o Gafura 3/40 Share Murthan, Sami Khan S/o Swaroop Khan Shakur Khan 1/2 Share Vasideh
			Private	Agriculture	115//22/2/2	0.0506	Smt. Narayani Devi Widow of Charan Lal Vasi Deh.
			Private	Agriculture	115//23/1/2	0.0101	Mamrej S/o Safed Khan S/o Khawaju 1/2 Share, Fajru, Noor Mohammad Sons of Dulle Khan S/o

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Nawal Khan Two Eq. Share 1/2 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	115//23/2	0.0354	Fajru, Noor Mohammad Sons of Dulle Khan S/o Nawal Khan Two Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	115//23/3	0.0809	Fajru, Noor Mohammad Sons of Dulle Khan S/o Nawal Khan Two Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	115//23/4	0.0177	Fajru, Noor Mohammad Sons of Dulle Khan S/o Nawal Khan Two Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	115//23/5	0.1568	Dulle Khan S/o Nawal Khan S/o Moor Khan Vasideh.
			Private	Agriculture	115//24/4	0.0784	Jagdish Kumar, Krishan Kumar Sons of Aatma Prakash S/o Jodha Ram Two Eq. Share Rahan Hissa 3/16 Share, Vaasdev S/o Jodha Ram Rahan Hissa 3/16 Share, Smt. Chatni Bai Daughter & Smt. Parmeshwari Devi Widow of Jodha Ram Two Eq. Share Rahan Hissa 3/8 Share, Gautam Kumar Son & Gyan Devi, Chandra Kanta, Anita Devi, Krishna Devi, Aasha Devi Daughters of Nyayat Ram S/o Jodha Ram Six Eq. Share Rahan Hissa 3/14 Share, Smt. Nirmala Widow & Suman Bala D/o Narayan Das S/o Nyayat Ram Two Eq. Share Rahan Hissa 1/28 Share, Baldev Raj S/o Jodha Ram 1/21 Share, Bahadur, Fateh Mohammad, Illyas, Hanif Sons of Salli Khan Four Eq. Share 20/21 Share Vasideh Murthanan.
			Private	Agriculture	116//1/1	0.0076	Isslyaas, Deen Mohammad, Aas Mohammad Sons of Hamida S/o Khawaja Baksh Three Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	116//1/2	0.0481	Isslyaas, Deen Mohammad, Aas

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Mohammad Sons of Hamida S/o Khawaja Baksh Three Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	116//10/1	0.1062	Smt. Satari W/o Hamida S/o Khawaj Bakash Vasideh.
			Private	Agriculture	116//12/2	0.0304	Smt. Satarbi W/o Hamid S/o Khawaj Bakash Vasideh.
			Private	Agriculture	116//13	0.1113	Smt. Satish W/o Hamida S/o Khawaj Bakash Vasideh.
			Private	Agriculture	116//15	0.1644	Ishab, Arjan, Chotte Khan, Daulat, Chakmal, Hasnu Sons of Sardar S/o Mauj Khan Six Eq Share Vasideh.
			Private	Agriculture	116//16	0.0025	Ishab, Arjan, Chotte Khan, Daulat, Chakmal, Hasnu Sons of Sardar S/o Mauj Khan Six Eq Share Vasideh.
			Private	Agriculture	116//17/1	0.0025	Ishab, Arjan, Chotte Khan, Daulat, Chakmal, Hasnu Sons of Sardar S/o Mauj Khan Six Eq Share Vasideh.
			Private	Agriculture	116//17/2/1	0.0152	Ishab, Arjan, Chotte Khan, Daulat, Chakmal, Hasnu Sons of Sardar S/o Mauj Khan Six Eq Share Vasideh.
			Private	Agriculture	116//17/4/1	0.0152	Illyas, Aas Mohammad, Deen Mohammad Sons of Hamida S/o Khawaja Baksh Eq. Share Vasideh
			Private	Agriculture	116//2	0.0101	Illyas, Deen Mohammad, Aas Mohammad S/o Hamida S/o Khawaja Baksh Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	116//25/1	0.0202	Ishab, Arjan, Chotte Khan, Daulat, Chakmal, Hasnu Sons of Sardar S/o Mauj Khan Six Eq Share Vasideh.
			Private	Agriculture	116//27	0.0177	Ishab, Arjan, Chotte Khan, Daulat, Chakmal, Hasnu Sons of Sardar S/o Mauj Khan Six Eq Share Vasideh.
			Private	Agriculture	116//28	0.0101	Ishab, Arjan, Chotte Khan, Daulat, Chakmal, Hasnu Sons of Sardar S/o Mauj

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Khan Six Eq Share Vasideh.
			Private	Agriculture	116//3/2	0.0304	Isslyaas, Deen Mohammad, Aas Mohammad Sons of Hamida S/o Khawaja Baksh Three Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	116//4	0.0025	Suleman, Sardar Sons of Peer Baksh S/o Bhappu Two Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	116//6	0.0708	Ishab, Arjan, Chotte Khan, Daulat, Chakmal, Hasnu Sons of Sardar S/o mauj Khan Six Eq. Share 1/2 Share, Ismile S/o Badlu S/o Karim Khan 1/4 Share, Ahmad Khan Badlu S/o Karim Khan 1/4 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	116//7/1	0.0152	Suleman, Sardar Sons of Peer Baksh S/o Bhappu Two Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	116//7/2	0.0051	Suleman, Sardar Sons of Peer Baksh S/o Bhappu Two Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	116//7/3	0.0076	Illyas, Aaas Mohammad, Deen Mohammad, Abdul Gafur Sons of Hamida S/o Khawaj Baksh Four Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	116//9	0.1492	Sulemaan, Sardar Sons of Peer Baksh S/o Bhappu Two Eq. Share, Chakmal, Hasnu Sons of Sardar S/o Mauj Khan Six Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	117//4	0.0101	Shahida, Hamida, Sharif Khan Sons of Rasul Khan S/o Niwaj Khan Three Eq. Share 1/2 Share, Yakoob, Shadeek Sons of Sardar Two Eq. Share 1/5 Share, Alam, Majid, Jaimal Sons of Ahmad Khan S/o Sardar Three Eq. Share 1/10 Share, Mahboob, Kayyum, Shabbir, Taiyyab, Hakam Sons of Kalu S/o Sardar Five Eq. Share 1/10 Share, Jaan Mohammad, Asgar, Rafeek Sons of Kabir Ahmad Three Eq. Share 1/10 Share Vasideh.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Private	Agriculture	117//5/1	0.0354	Chaav Khan, Samay Singh Sons of Hayat Khan S/o Dalpat Two Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	117//5/2	0.0759	Oddhodas S/o Khillu Ram S/o Putru Ram Rahin, Fateh Mohammad, Umar Mohammad Sons of Bashir Ahmad S/o Nawal Khan Two Eq. Share Vasideh Murthanan.
			Private	Agriculture	126//1/3/1	0.0101	Aatma Prakash S/o Jodha Ram Rahan Hissa 1/5 Share, Vassdev Son & Smt. Pareshwari Bai Widow & Smt. Chetni Bai D/o Jodha Ram S/o Girdhari Ram Three Eq. Share Rahan Hissa 3/5 Share, Gautam Kumar Son & Smt. Gyan Devi, Chandrakanta Daughters of Nyamatram S/o Jodha Ram Three Eq. Share Rahan Hissa 6/35 Share, Suman Bala Daughter & Smt. Nirmala Widow of Narayan Das S/o Nyamatram Two Eq. Share Rahan Hissa 1/35 Share, Sanjay Nanda S/o Jogindra Prakash Nanda 1/2 Share Vasideh, Smt Benu Nanda W/o Sanjay Nanda 1/2 Share Vasi Basant Vihar New Delhi
			Private	Agriculture	126//2/1/1	0.1771	Aatma Prakash S/o Jodha Ram Rahan Hissa 1/3 Share, Vassdev S/o Jodha Ram S/o Girdhari Ram Rahan Hissa 1/3 Share, Gautam Kumar Son & Smt. Gyan Devi, Chandrakanta, Anita Devi Daughters of Nyamatram S/o Jodha Four Eq. Share Rahan Hissa 6/21 Share, Suman Bala Daughter & Smt. Nirmala Widow of Narayan Das S/o Nyamatram Two Eq. Share Rahan Hissa 1/21 Share, Sanjay Nanda S/o Jogindra Lal Nanda 11/21 Share Vasideh, Smt. Benu Nanda

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							W/o Sanjay Nanda S/o Jogindra Lal Nanda 10/21 Share Vasi Basant Vihar New Delhi
			Private	Agriculture	126//3/2	0.3440	Aatma Prakash S/o Jodha Ram S/o Girdhari Ram Rahan Hissa 1/3 Share, Vaasdev S/o Jodha Ram S/o Girdhari Ram Rahan Hissa 1/3 Share, Gautam Kumar Son & Gyan Devi, Chandrakanta, Anita Devi, Krishna Devi, Aasha Devi Daughters of Nyamant Ram S/o Jodha Ram Six Eq. Share Rahan Hissa 6/21 Share, Smt. Nirmala Widow & Suman Bala D/o Narayan Das S/o Nyamant Ram Two Eq. Share Rahan Hissa 1/21 Share, Baldev S/o Jodha Ram S/o Bhawani Das 1/21 Share, Bahadur, Fateh Mohammad, Illyas, Hanif Sons of Sali Khan S/o Laad Khan Four Eq. Share 20/21 Share Vasideh
			Private	Agriculture	126//4	0.3946	Aatma Prakash S/o Jodha Ram S/o Girdhari Ram Rahan Hissa 1/3 Share, Vaasdev S/o Jodha Ram S/o Girdhari Ram Rahan Hissa 1/3 Share, Gautam Kumar Son & Gyan Devi, Chandrakanta, Anita Devi, Krishna Devi, Aasha Devi Daughters of Nyamant Ram S/o Jodha Ram Six Eq. Share Rahan Hissa 6/21 Share, Smt. Nirmala Widow & Suman Bala D/o Narayan Das S/o Nyamant Ram Two Eq. Share Rahan Hissa 1/21 Share, Baldev S/o Jodha Ram S/o Bhawani Das 1/21 Share, Bahadur, Fateh Mohammad, Illyas, Hanif Sons of Sali Khan S/o Laad Khan Four Eq. Share 20/21 Share Vasideh
			Private	Agriculture	126//5	0.1695	Nasib Khan, Deen Mohammad, Hasan Mohammad Sons of

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Chaav Khan S/o Vilayat Khan Urf Robad Three Eq. Share 1/2 Share, Yaseen S/o Vilayat Khan Urf Robad S/o Hajari 1/2 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	126//6	0.0809	Nasib Khan, Deen Mohammad, Hasan Mohammad Sons of Chaav Khan S/o Vilayat Khan Urf Robad Three Eq. Share 1/2 Share, Yaseen S/o Vilayat Khan Urf Robad S/o Hajari 1/2 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	126//7	0.2909	Aatma Prakash S/o Jodha Ram S/o Girdhari Ram Rahan Hissa 1/3 Share, Vaasdev S/o Jodha Ram S/o Girdhari Ram Rahan Hissa 1/3 Share, Gautam Kumar Son & Gyan Devi, Chandrakanta, Anita Devi, Krishna Devi, Aasha Devi Daughters of Nyamant Ram S/o Jodha Ram Six Eq. Share Rahan Hissa 6/21 Share, Smt. Nirmala Widow & Suman Bala D/o Narayan Das S/o Nyamant Ram Two Eq. Share Rahan Hissa 1/21 Share, Mohammad Khan, Ismile, Ahmad Khan, Nijar Khan Sons of Badlu S/o Karim Khan Four Eq. Share 1/3 Share, Suresh Kumar S/o Vaasdev S/o Jodha Ram 1/3 Share, Nasib Khan, Deen Mohammad, Hasan Mohammad Sons of Chaav Khan S/o Robad Three Eq. Share 2/7 Share, Baldev S/o Jodha Ram S/o Bhawani Das 1/21 Share Vasideh
			Private	Agriculture	126//8/1	0.1062	Aatma Prakash S/o Jodha Ram S/o Girdhari Ram Rahan Hissa 1/3 Share, Vaasdev S/o Jodha Ram S/o Girdhari Ram Rahan Hissa 1/3 Share, Gautam Kumar Son & Gyan Devi, Chandrakanta, Anita Devi, Krishna Devi, Aasha Devi

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Daughters of Nyamant Ram S/o Jodha Ram Six Eq. Share Rahan Hissa 6/21 Share, Smt. Nirmala Widow & Suman Bala D/o Narayan Das S/o Nyamant Ram Two Eq. Share Rahan Hissa 1/21 Share, Mohammad Khan, Ismile, Ahmad Khan, Nijar Khan Sons of Badlu S/o Karim Khan Four Eq. Share 1/3 Share, Suresh Kumar S/o Vaasdev S/o Jodha Ram 1/3 Share, Nasib Khan, Deen Mohammad, Hasan Mohammad Sons of Chaav Khan S/o Robad Three Eq. Share 2/7 Share, Baldev S/o Jodha Ram S/o Bhawani Das 1/21 Share Vasideh
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	126//26	0.0051	Gram Panchyat Deh..
			Private	Agriculture	127//25	0.1163	Mamrej S/o Safed Khan S/o Khawaju Vasideh.
			Private	Agriculture	128//21	0.0658	Mamrej S/o Safed Khan S/o Khawaju Vasideh.
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	379	0.2201	Gram Panchyat Deh.
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	380	2.8025	Gram Panchyat Deh.
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	385	2.3548	Gram Panchyat Deh.
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	386	2.9745	Gram Panchyat Deh.
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	387	0.0809	Gram Panchyat Deh.
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	399	0.9055	Gram Panchyat Deh.
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-1003 (Road between 103//3-4, 7-8)	0.0607	Gram Panchyat Deh.
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-1059	0.0607	Gram Panchyat Deh.
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-199/1	0.1290	Gram Panchyat Deh.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(2)	Nuh	(1) Rojka Meo	Gram Panchayat	Non-Agriculture	11//16	0.0936	Gram Panchayat (Charahgah)
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	11//25	0.0152	Gram Panchayat (Charahgah)
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	27//14	0.0278	Gram Panchayat (Charahgah)
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	27//6	0.1467	Gram Panchayat (Charahgah)
			Private	Agriculture	100	1.4721	Smt. Hamid W/o Khechdu S/o Jagram 1/48 Share, Malik Kabja Smt. Shahida W/o Tasvvar Husain S/o Yakub Khan 161/11554 Share, Malik Kabja Smt. Jubeda W/o Abdul Rajjak S/o Israil 80/11554 Share, Malik Kabja Chetan Singh S/o Deshraj Singh S/o Ishwar Singh 1/24 Share, Malik Kabja Deshraj Singh S/o Ishwar Singh S/o Jamna Das 1/24 Share, Malik Kabja M/s Malook Milk Plant 691/2 South Foot Maluk Tawar Nehru Place New Delhi 11/24 Share, Malik Kabja Malook Naagar S/o R.G. Naagar 1/4 Share, Malik Kabja Smt. Sudha Naagar W/o Malook Naagar S/o R.G. Naagar 1/12 Share.
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	101	0.9080	Panchyat Deh.
		(2) Aata	Private	Agriculture	4//15	0.0051	Premraj, Buddhan, Deepchand, Prasadi, Kundan Sons of Bondhu S/o Mangla Five Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	5//11	0.0101	Premraj, Buddhan, Deepchand, Prasadi, Kundan Sons of Bondhu S/o Mangla Five Eq. Share Vasideh.
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	5//12	0.0051	Panchyat Deh.
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	5//17/2	0.0228	Panchyat Deh.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Private	Agriculture	5//20	0.0126	Abdul Gani, Abdul Gaffur, Mohammad Israil, Mohammad Haroon Sons of Hanif S/o Salin Khan Four Eq. Share 1/3 Share, Fida Mohammad S/o Munir Khan S/o Chander Mal 1/3 Share, Ali Mohammad, Anwar, Raaj Mohammad Sons of Husain Khan S/o Chander Mal Three Eq. Share 1/3 Share Vasideh.
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-63	0.0556	Panchyat Deh.
		(3) Rampur	Private	Agriculture	9//2	0.0025	Ami Chand S/o Khyali 1/2 Share Vasideh, Smt. Bimla W/o Ami Chand S/o Khayali 1/2 Share Vasi Jogabai Jamia Nagar Delhi.
			Private	Non-Agriculture	9//3	0.1745	M/s Ajay Enterprises Pvt. Ltd. Nehru Place Delhi Dwarka, Hansraj Verma S/o M.L. Verma 4/9 Share Vasi T15 Ward 8 Mehroli, Nahar Singh, Jagbir Singh, Lal Singh, Rambir Singh Sons of Vishal Singh S/o Bhika Four Eq. Share 5/9 Share Vasi Aata.
			Private	Agriculture	9//7	0.1366	Rajpal, Vijay Pal Sons of Raan Chand, M/s Ajay Enterprises Pvt. Lt. Nehru Place New Delhi, Lalli, Balveer Singh, Chandra Pal, Bainami Sons & Kastori, Kisso Daughters of Gopal Urf Gopal Singh Eq. Share 1/2 Share, Dharamveer, Ashok Sons of Sohan Singh 1/3 Share, Smt. Naangi Devi Widow & Sunita, Anita, Kavita Daughters of Shri Pal S/o Sohan Singh 2/15 Share, Smt. Yogesh Widow & Rahul Son & Smt. Priti, Priya Daughters of Nippo S/o Shri Pal 1/30 Share, M/s Madhuvan Enterprises Pvt. Ltd. Nehru Place New Delhi Vasideh Murthanan Doyam.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Private	Agriculture	9//8/1	0.0582	Ram Chand S/o Jugla S/o Jawala Singh 1/4 Share, Rojdar, Chaav Khan Sons of Sagru S/o Navi Khan Two Eq. Share 1/4 Share, Rampat, Ram Kuwar Sons of Lakhpat Singh S/o Shri Ram Two Eq. Share 1/2 Share Vasideh.
			Private	Non-Agriculture	9//8/2	0.1416	M/s Ajay Enterprises Pvt. Ltd. Nehru Place Delhi Dwaraka, Hansraj Verma S/o M.L. Verma 4/9 Share Vasi T15 Ward 8 Mehroli, Nahar Singh, Jagbir Singh, Lal Singh, Rambir Singh Sons of Vishal Singh S/o Bhika Four Eq. Share 5/9 Share Vasi Aata.
			Private	Non-Agriculture	9//9	0.2276	M/s Ajay Enterprises Pvt. Ltd. Nehru Place Delhi Dwaraka, Hansraj Verma S/o M.L. Verma 4/9 Share Vasi T15 Ward 8 Mehroli, Nahar Singh, Jagbir Singh, Lal Singh, Rambir Singh Sons of Vishal Singh S/o Bhika Four Eq. Share 5/9 Share Vasi Aata.
			Private	Agriculture	9//10	0.0582	Ami Chand S/o Khyali 1/2 Share Vasideh, Smt. Bimla W/o Ami Chand S/o Khayali 1/2 Share Vasi Jogabai Jamia Nagar Delhi.
			Private	Agriculture	9//11	0.0304	Ami Chand S/o Khyali 1/2 Share Vasideh, Smt. Bimla W/o Ami Chand S/o Khayali 1/2 Share Vasi Jogabai Jamia Nagar Delhi.
			Private	Non-Agriculture	9//12	0.1695	M/s Ajay Enterprises Pvt. Ltd. Nehru Place Delhi Dwaraka, Hansraj Verma S/o M.L. Verma 4/9 Share Vasi T15 Ward 8 Mehroli, Nahar Singh, Jagbir Singh, Lal Singh, Rambir Singh Sons of Vishal Singh S/o Bhika Four Eq. Share 5/9 Share Vasi Aata.
			Private	Non-Agriculture	9//13/1	0.1391	M/s Ajay Enterprises Pvt. Ltd. Nehru Place Delhi Dwaraka, Hansraj Verma

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							S/o M.L. Verma 4/9 Share Vasi T15 Ward 8 Mehroli, Nahar Singh, Jagbir Singh, Lal Singh, Rambir Singh Sons of Vishal Singh S/o Bhika Four Eq. Share 5/9 Share Vasi Aata.
			Private	Agriculture	9//13/2	0.0683	Ram Chand S/o Jugla S/o Jawala Singh 1/4 Share, Rojdar, Chaav Khan Sons of Sagru S/o Navi Khan Two Eq. Share 1/4 Share, Rampat, Ram Kuwar Sons of Lakhpat Singh S/o Shri Ram Two Eq. Share 1/2 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	9//14	0.2453	Ram Chand S/o Jugla S/o Jawala Singh 1/4 Share, M/s Ajay Enterprises Pvt. Ltd. Nehru Place New Delhi 1/4 Share, Rampat, Ram Kuwar Sons of Lakhpat Singh S/o Shri Ram Two Eq. Share 1/2 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	9//15	0.1189	Ram Chand S/o Jugla S/o Jawala Singh 1/4 Share, M/s Ajay Enterprises Pvt. Ltd. Nehru Place New Delhi 1/4 Share, Rampat, Ram Kuwar Sons of Lakhpat Singh S/o Shri Ram Two Eq. Share 1/2 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	9//17/1	0.1720	Hukam Singh S/o Ramlal 34/387 Share Vasi Aata, Bhajanlal, Ramdatt, Ramkumar Sons of Lakhpat Singh S/o Shri Ram Three Eq. Share 353/387 Share Malkan Kabza Vasi Udaka, Smt. Atar Bai D/o Ram Lal 30/43 Vasideh
			Private	Agriculture	9//17/2	0.0885	Hukam Singh S/o Ramlal 34/387 Share Vasi Aata, Bhajanlal, Ramdatt, Ramkumar Sons of Lakhpat Singh S/o Shri Ram Three Eq. Share 353/387 Share Malkan Kabza Vasi Udaka, Smt. Atar Bai D/o Ram Lal 30/43 Vasideh

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Private	Agriculture	9//18	0.1391	Smt. Mula Devi Widow Milap Chand S/o Uddho das 2/293 Share, Gaila Ram, Khan Chand Sons of Dewaan Chand Two Eq. Share 101/293 Share, Mahabeer Singh S/o Kirti Singh Narayan Singh 77/293 Share, Radhe Shyam, Ram Lal Sons & Smt. Krishna Devi, Kaushalya Devi, Shanti Devi Daughters of Milap Chand S/o Bhoja Ram Five Eq. Share 113/293 Share Vasideh.
			Private	Non-Agriculture	9//19	0.0202	M/s Ajay Enterprises Pvt. Ltd. Nehru Place Delhi Dwarka, Hansraj Verma S/o M.L. Verma 4/9 Share Vasi T15 Ward 8 Mehroli, Nahar Singh, Jagbir Singh, Lal Singh, Rambir Singh Sons of Vishal Singh S/o Bhika Four Eq. Share 5/9 Share Vasi Aata.
			Private	Agriculture	9//20	0.0076	Pankaj Kumar S/o Prahlad 1/20 Share, Mahendra S/o Ragveer Singh 1/20 Share, Kavar Sain S/o Radhey Shyam 1/20 Share, Mahesh Chand S/o Radhey Shyam 1/20 Share, Mukesh Gupta S/o Radhe Shyam 1/20 Share, Sanjeev Kumar S/o Prahlad Gupta 1/20 Share, Gourav S/o Mahesh Chand 1/20 Share, Saurabh S/o Raj Kumar 1/20 Share, Vinod Kumar S/o Buddimal 1/20 Share, Sachin Garg S/o Ram Kishan 1/20 Share, Chetan Gupta S/o Kishan Narayan 1/20 Share, Devki Nandan S/o Surjanan Lal 1/20 Share, Rajeev S/o Bhagwat Prasad 1/20 Share, Pradeep Kumar S/o K.N. Gupta 1/20 Share, Ranbir Singh S/o Raav Raghveer Singh 1/20 Share, Devendra S/o Ranvir Singh 1/20 Share, Ram Niwas S/o Goshiyaar

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Singh 1/20 Share, Shree Pal S/o Hosiyar Singh 1/20 Share, Rohit S/o Shree Pal 1/20 Share, Jitendra S/o Hem Chand 1/20 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	10/7	0.0051	Manish Raghav S/o Narendra Singh Yadav 3/160 Share, Smt. Usharani W/o Thakur Das 1/128 Share, Sushma Dudeja W/o Sanjay Dudeja 1/28 Share, Smt. Anshu Mehta W/o Vijay Mehta 3/160 Share, Smt. Sunita W/o Anil Mehta 3/160 Share, Smt. Seema W/o Mahendra Singh 1/64 Share Vasideh, Smt. Saroj Devi W/o Surajmal 3/160 Share Vasi Kurthla, Smt. Vinita Sinha W/o Anil Sinha 1/20 Share, Smt. Geena W/o Kishan Singh 1/32 Share, Deepak Jain S/o Satendra Jain 3/160 Share, Neeraj Kumar S/o Jagannath 3/160 Share, Smt. Jyoti Gogiya W/o Shiv Kumar Gogiya 3/320 Share, Smt. Savita Rani W/o Chandramani 3/320 Share, Smt. Ramwati W/o Yaad Ram 3/160 Share, Jagdish Verma S/o Pranand 3/80 Share, Smt. Rama W/o Rajesh Kumar 1/80 Share, Smt. Sweta W/o Krishan Kumar 1/80 Share, Smt. Narangi W/o Ghabar Dayal 1/80 Share, Neel Kamal Jain S/o Shyam Sunder Jain 1/16 Share, Smt. Savitri W/o Surendra Singh 3/320 Share, Smt. Urmila W/o Ranbeer Singh 3/320 Share, Pankaj Gupta S/o Prahlad Gupta 21/320 Share, Smt. Jagbati W/o Arjan Singh 17/320 Share, Ajeet Singh S/o Dilip Singh 3/64 Share, Avtar Singh S/o Fakira Singh 1/10 Share, Trilok Chand

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							S/o Shyoprashad 1/10 Share, Ghanshyam S/o Mangat Ram 1/10 Share, Jai Narayan S/o Gokal Chand 1/10 Share Vasideh, Aadesh Kumar S/o Ram ji Lal S/o Mavasi Ram 1/64 Share Vasi Indari.
			Private	Agriculture	10//15	0.0278	Manoj Kumar S/o Ami Chand S/o Khayali Vasideh, Nanak Singh, Tej Singh, Mohar Singh Sons of Sarjeet Singh Vasideh Hakdaran Shaamlat.
			Private	Agriculture	10//19	0.0025	Balbair Singh, Chandra Pal, Bainami Sons of Gopal Urf Gopal Singh S/o Rooda Three Eq. Share 1/2 Share, Smt. Nanno Devi Widow & Smt. Sunita, Anita, Kavita Daughters of Shri Pal S/o Sohan Singh Four Eq. Share 1/4 Share, Smt. Yogesh Widow & Rahul Son & Priti, Firiya Daughters of Niipo S/o Shri Pal Four Eq. Share 1/12 Share, Dharamveer, Ashok Sons of Sohan Singh S/o Rooda Two Eq. Share 1/6 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	11//15	0.0202	Balveer Singh, Chandra Pal, Bainami Sons of Gopal Urf Gopal Singh S/o Rooda Three Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	11//16	0.0051	Balveer Singh, Chandra Pal, Bainami Sons of Gopal Urf Gopal Singh S/o Rooda Three Eq. Share Vasideh.
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-25	0.0177	Panchyat Deh.
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-30	0.0885	Panchyat Deh.
		(4) Udaka	Private	Agriculture	5//15	0.1720	Smt. Gindodi Widow of Raghveer S/o Surajmal 1/2 Share Gair Morusi, Dayachand, Sardanand Sons of Radhveer S/o Surajmal Two Eq. Share 1/2 Share Vasideh Gair Morusian.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Private	Agriculture	5//16	0.1265	Ramphal S/o Lakhpatt S/o Shree Ram Malik Kabja, Lekhranj, Dhanshyam Sons of Devaram Two Eq. Share Vasideh Hakdaran Shaamlat.
			Private	Agriculture	6//10	0.0101	Smt. Gindodi Widow of Raghveer S/o Surajmal 1/2 Share Gair Morusi, Dayachand, Sardanand Sons of Radhveer S/o Surajmal Two Eq. Share 1/2 Share Vasideh Gair Morusiyan.
			Private	Agriculture	6//11	0.3086	Smt. Gindodi Widow of Raghveer S/o Surajmal 1/2 Share Gair Morusi, Dayachand, Sardanand Sons of Radhveer S/o Surajmal Two Eq. Share 1/2 Share Vasideh Gair Morusiyan.
			Private	Agriculture	6//12	0.3061	Smt. Vinita W/o Vijay Agarwal S/o Moti Ram 1/4 Share Vasi Sohna, Basant Singh S/o Daya Ram S/o Ram Lal 1/4 Share Vasideh, Dhan Singh S/o Hans Ram 1/4 Share Vasi Mandi Village New Delhi, Jai Prakash S/o Lekhranj S/o Ramu 1/4 Share Vasi Daliyavaas Tehsil & Jila Rewari.
			Private	Agriculture	6//13/1	0.1037	Basant Singh S/o Dayaram S/o Ram Lal 1/4 Share Vasideh, Dhan Singh S/o Hansraj 1/4 Share Vasi Mandi Village New Delhi, Jai Prakash S/o Lekhranj S/o Ramu 1/4 Share Vasi Daliyabass Tehsil & District Rewari, Smt. Vinita W/o Vijay Agarwal S/o Motiram 1/4 Share Vasi Sohna.
			Private	Agriculture	6//13/2	0.0481	Basant Singh S/o Dayaram S/o Ram Lal 1/4 Share Vasideh, Dhan Singh S/o Hansraj 1/4 Share Vasi Mandi Village New Delhi, Jai Prakash S/o Lekhranj S/o Ramu 1/4 Share Vasi Daliyabass Tehsil & District Rewari, Smt.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Vinita W/o Vijay Agarwal S/o Motiram 1/4 Share Vasi Sohna.
			Private	Agriculture	6//18/1	0.0076	Basant Singh S/o Dayaram S/o Ram Lal 1/4 Share Vasideh, Dhan Singh S/o Hansraj 1/4 Share Vasi Mandi Village New Delhi, Jai Prakash S/o Lekhram S/o Ramu 1/4 Share Vasi Daliyabass Tehsil & District Rewari, Smt. Vinita W/o Vijay Agarwal S/o Motiram 1/4 Share Vasi Sohna.
			Private	Agriculture	6//18/2	0.0177	Basant Singh S/o Dayaram S/o Ram Lal 1/4 Share Vasideh, Dhan Singh S/o Hansraj 1/4 Share Vasi Mandi Village New Delhi, Jai Prakash S/o Lekhram S/o Ramu 1/4 Share Vasi Daliyabass Tehsil & District Rewari, Smt. Vinita W/o Vijay Agarwal S/o Motiram 1/4 Share Vasi Sohna.
			Private	Agriculture	6//19	0.0607	Smt. Vinita W/o Vijay Agarwal S/o Moti Ram 1/4 Share Vasi Sohna, Basant Singh S/o Daya Ram S/o Ram Lal 1/4 Share Vasideh, Dhan Singh S/o Hans Ram 1/4 Share Vasi Mandi Village New Delhi, Jai Prakash S/o Lekhram S/o Ramu 1/4 Share Vasi Daliyavaas Tehsil & Jila Rewari.
			Private	Agriculture	6//20	0.1088	Smt. Gindodi Widow of Raghveer S/o Surajmal 1/2 Share Gair Morusi, Dayachand, Sardanand Sons of Radhveer S/o Surajmal Two Eq. Share 1/2 Share Vasideh Gair Morusiyen.
			Private	Agriculture	7//3	0.0076	Ved Prakash, Indraj, Balraj, Rakesh Sons & Smt. Brahma Devi, Ramesh Devi Daughters of Hukam Singh S/o Hardev Six Eq. Share, Maalkan Kabza Smt. Radha Bai W/o Bhajan Lal Vasideh Hakdar Shaamlat.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Private	Agriculture	7//6	0.0025	Ranjeet, Ajeet, jagdish Sons of Fakira S/o Shiv Dayal Three Eq. Share, Maalkan Kabza Aasanand, Jugal Kishor, Jagdish, Ram Sharan, Krishan Lal Sons of Uday Ram S/o Ghanshyam Five Eq. Share Vasideh Hakdaran Shaamlat.
			Private	Agriculture	7//14	0.0025	Rampat S/o Shiv Dayal S/o Chotte, Malik Kabja Jugal Kishor, Jagdish, Ram Sharan, Krishan Lal Sons of Uday Ram S/o Ghan Shyam Four Eq. Share Vasideh Hakdaran Shaamlat.
			Private	Agriculture	7//15/1/2	0.0025	Ranjeet, Ajeet, jagdish Sons of Fakira S/o Shiv Dayal Three Eq. Share, Maalkan Kabza Aasanand, Jugal Kishor, Jagdish, Ram Sharan, Krishan Lal Sons of Uday Ram S/o Ghanshyam Five Eq. Share Vasideh Hakdaran Shaamlat.
			Private	Agriculture	8//7	0.0025	Krishan Pal, Vinod Kumar Sons of Rampal Two Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	8//9	0.0228	Rampal S/o Shiv Dayal S/o Chotte Vasideh.
			Private	Agriculture	8//10/2	0.0126	Rampat S/o Shiv Dayal S/o Chotte, Malik Kabja Jugal Kishor, Jagdish, Ram Sharan, Krishan Lal Sons of Uday Ram S/o Ghan Shyam Four Eq. Share Vasideh Hakdaran Shaamlat.
			Private	Agriculture	8//11	0.0076	Sohanlal S/o Jhandu S/o Umrav Vasi Kasipur Tehsil Palwal Dohlidar Patta Dahinda, Mamchand S/o Chetan S/o Umrav Vasideh Patta Garinda.
			Private	Agriculture	8//12/2	0.0253	Tek Chand, Horam, Shoraj, Mahendra, Bijendra, Surendra Sons of Ratan Singh S/o Nonda Six Eq. Share, Maalkan Kabja, Smt. Ganga Devi Etc. Munderaja Khewat No 331 Vasideh Hakdar Shaamlat.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Private	Agriculture	8//18/1	0.0025	Vijay Pal Singh S/o Pyare Lal S/o Shibba 1/6 Share, Chandra Lal S/o Ved Ram S/o Shibba 1/6 Share, Krishna Pal S/o Harpal S/o Shibba 1/6 Share, Khem Chand S/o Jai Ram S/o Kadma 1/2 Share Vasideh.
			Private	Agriculture	8//19	0.0051	Tek Chand, Horam, Shoraj, Mahendra, Bijendra, Surendra Sons of Ratan Singh S/o Nonda Six Eq. Share Vasideh.
			Private	Agriculture	9//11	0.0025	Gajraj, Indrapal, Ramovtar, Ashok Kumar Sons of Deshraj S/o Munshi Four Eq. Share Vasideh.
			Gram Panchayat	Non-Agriculture	R-347	0.0025	Panchyat Deh.
		(5) Bhirawati	Private	Agriculture	1//15	0.0152	Bhajan Lal S/o Dulli S/o Inder 1/2 Share, Devnosoft Organisation Office Kaveri Pata Road District Hubli best Bangel 1/8 Share, Tarun Kumar Son & Renu Daughter & Smt. Gayatri Widow of Bir Singh S/o Dulli Three Eq. Share 3/8 Share Vasideh.
			Private	Non-Agriculture	2//11	0.0481	M/s C.I.S Insvestment Management Consultant Pvt. Ltd. Vasideh.

[F. No. 2013/LML/II/12/8/WC/572]

ACHAL JAIN, Executive Director (Land and Amenities-1)